

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2018—वैशाख 7, शक 1940

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और  
न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक  
के 13025-02-2017-यू.एस., II, दिनांक 7 मार्च 2018 द्वारा  
माननीय न्यायाधिपति श्री अतुल श्रीधरन, माननीय न्यायाधिपति  
श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक  
रूसिया, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक, माननीय न्यायाधिपति  
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, माननीय न्यायाधिपति श्री अनुराग कुमार  
श्रीवास्तव, माननीय न्यायाधिपति श्री हौसला प्रसाद सिंह, माननीय

न्यायाधिपति श्री अशोक कुमार जोशी, माननीय न्यायाधिपति  
श्री विवेक अग्रवाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती नन्दिता दुबे,  
माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार दुबे, माननीय न्यायाधिपति  
श्रीमती अंजली पालो, माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय  
न्यायाधिपति श्री सुनील कुमार अवस्थी, माननीय न्यायाधिपति  
श्री विजय कुमार शुक्ला, माननीय न्यायाधिपति श्री गुरपाल सिंह  
आहलवालिया एवं माननीय न्यायाधिपति श्री सुबोध अध्यंकर की  
नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की  
गई है।

2. माननीय न्यायाधिपति श्री अतुल श्रीधरन, माननीय न्यायाधिपति  
श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक  
रूसिया, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक, माननीय न्यायाधिपति

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, माननीय न्यायाधिपति श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, माननीय न्यायाधिपति श्री हौसला प्रसाद सिंह, माननीय न्यायाधिपति श्री अशोक कुमार जोशी, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती नन्दिता दुबे, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार दुबे, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजलि पालो, माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय न्यायाधिपति श्री सुनील कुमार अवस्थी, माननीय न्यायाधिपति श्री विजय कुमार शुक्ला, माननीय न्यायाधिपति श्री गुरपाल सिंह आहलूवालिया एवं माननीय न्यायाधिपति श्री सुबोध अभ्यंकर द्वारा दिनांक 17 मार्च 2018 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

### गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-84-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सचिन शर्मा, भाषुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, नीलगंगा, उज्जैन को दिनांक 20 से 28 जून 2017 तक अर्जित अवकाश अवधि में स्वीटजलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
- स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सचिन शर्मा, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से नगर पुलिस अधीक्षक, नीलगंगा, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सचिन शर्मा, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सचिन शर्मा, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1(ए)99-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आर. एस. कौल, भाषुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्युअल, पु. मु., भोपाल को स्वयं के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 2 अगस्त से 14 सितम्बर 2017 तक, चौबालीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. कौल, भाषुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक, अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्युअल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. एस. कौल, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. कौल भाषुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(बी) 60-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10	श्री आशीष पटेल पिता श्री तोलाराम पटेल, निवासी ग्राम पिपल्या सड़क, पोस्ट आलरी तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास म. प्र.-455001.	अलीराजपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण

न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथम चरण का बुनयादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा।

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विवित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्तत्र आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्तत्र नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रदे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे बसूल की जावेगी।

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाणड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1(बी)10-18-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2017 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 14656-34-2017-चयन, दिनांक 6 जनवरी 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशासित मुख्य सूची के सरल क्र. 22 (अनुक्रमांक-254761) सुश्री अंतिमा समाधिया, (अनारक्षित वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23 फरवरी 2018 में यह लेख किया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2017 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनका चयन होने के पूर्व राज्य सेवा परीक्षा 2015 में भी उनका चयन उप पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ है और वर्तमान में वे गृह विभाग के आदेश क्र. एफ 1(बी)35-2017-बी-4-दो, दिनांक 27 जनवरी 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद जिला भोपाल में नियुक्त होकर पदस्थि है, अतः वे राज्य सेवा परीक्षा-2017 के माध्यम से पुनः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ है और उक्त पद पर नियुक्ति संबंधी अपने दावे का त्याग करती है, इनके स्थान पर अनुपूरक सूची में चयनित अभ्यर्थी को पद प्रदान करने की कृपा करें।

(2) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 6 जनवरी 2018 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. 22 (अनुक्रमांक-254761) में उल्लेखित सुश्री अंतिमा समाधिया, (अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2018

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री रिकेश गोयल, अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री योगेन्द्र सिंह गोलन्दाज़, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1480-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, श्री अजय कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2018

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, सहायक प्राध्यापक, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जीवाजी विश्वविद्यालय खण्डपीठ, ग्वालियर को मानद आधार पर (on honorary basis) पार्ट टाईम रिपोर्टर आई.एल.आर. (एम.पी.) सीरीज के पद पर उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1483-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री कमर इकबाल खान, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटनी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1859-2018-इक्कीस-ब (एक).—उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश, उज्जैन को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की फुलकोट मीटिंग दिनांक 17 मार्च 2018 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को लोकहित में सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश, उज्जैन को लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए।

अतः, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 14(2) के अन्तर्गत एतद्वारा, राज्य शासन, श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, न्यायरहवें अपर जिला न्यायाधीश, उज्जैन को आदेश की सूचना प्राप्ति दिनांक से लोकहित में सेवानिवृत्त करता है।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1859-2018-इककीस-ब (एक).—उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिला न्यायाधीश (निलंबित) नीमच को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 17 मार्च 2018 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को लोकहित में सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि

फा. क्र. 1859-2018-इककीस-ब(एक)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास,  
अपर जिला न्यायाधीश (निलंबित),  
नीमच, जिला नीमच।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 17 मार्च 2018 द्वारा आपको लोकहित में सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 14(2), मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 (आज दिनांक तक संशोधित), मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपराह्न से लोकहित में सेवानिवृत्त करता है।

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के बेतन एवं भत्तों की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

उक्त आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 को निरस्त करते हुए जारी किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिला न्यायाधीश, (निलंबित) नीमच को लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए।

अतः, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 14(2) के अन्तर्गत एतद्वारा राज्य शासन श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिला न्यायाधीश, (निलंबित) नीमच को आदेश की सूचना प्राप्ति दिनांक से लोकहित में सेवानिवृत्त करता है।

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2018

शुद्धि पत्र

फा. क्र. 3(ए)2016-इककीस-ब(एक)1394.—(मेरिट क्र. 30), इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-4-2018 के प्रथम पैरा की पंक्ति क्र. 2 में “सुश्री पूजा पाठक पिता श्री हरिमोहन पाठक” के स्थान पर “श्रीमती पूजा पाठक बौरासी पति श्री रवि कुमार बौरासी” तथा द्वितीय पैरा की पंक्ति क्र. 1 में “गृह जिला भोपाल (म. प्र.)” के स्थान पर “गृह जिला शिवपुरी (म. प्र.)” पढ़ा जाए।

फा. क्र. 1859-2018-इक्कीस-ब(एक)

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2018

प्रति,

श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर,  
ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश,  
उज्जैन, जिला उज्जैन.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 17 मार्च 2018 द्वारा आपको लोकहित में सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 14(2), मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 (आज दिनांक तक संशोधित), मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपराह्न से लोकहित में सेवानिवृत्त करता है।

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भर्तों की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

उक्त आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 को निरस्त करते हुए जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1 (सी)-10-2015-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2015 द्वारा नियुक्त श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, जिला शहडोल को उनके द्वारा उक्त पद पर कार्य न करने की अनिच्छा को दृष्टिगत रखते हुए, तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1 (सी)-4818, 1589-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला दतिया के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-886-88, दिनांक 8 अगस्त 1988) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति इस आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 20 जुलाई 1962 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता, दतिया को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-20-2018-अठारह-5.—एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत आष्टा विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	1. अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद् आष्टा	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सीहोर	सदस्य
ग	लोकसभा सदस्य	देवास-शाजापुर	सदस्य
घ	विधायक	विधानसभा क्षेत्र आष्टा	सदस्य
ड़	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, आष्टा	सदस्य
च	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, चाचरसी (सम्मिलित ग्राम रज्जाकपुरा, बहादरपुरा, मालीपुरा).	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, जगमलपुर ((सम्मिलित ग्राम खेमपुर, जगमलपुर).	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, आनेदीपुरा (सम्मिलित ग्राम घनश्यामपुरा)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, डबरी (सम्मिलित ग्राम डबरी)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, मूंदीखेड़ी (सम्मिलित ग्राम काजीखेड़ा)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, नवरंगपुर (सम्मिलित ग्राम भगवानपुरा)	सदस्य
ज	1. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला सीहोर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सीहोर	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	जिला वनमंडलाधिकारी जिला वन मंडल, सीहोर	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल.	समिति का संयोजक.

क्र. एफ-३-५५-२०१८-अठारह-५.—एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ की धारा १७-क(१) के अन्तर्गत कैमोर-विजयराघवगढ़ विकास योजना २०३१ हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा १७-क(२) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा १७-क(१) की उपधारा	पद नाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(१)	(२)	(३)	(४)
क	१. अध्यक्ष २. अध्यक्ष	नगर परिषद्, कैमोर नगर परिषद्, राघवगढ़	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, कटनी	सदस्य
ग	संसद सदस्य	खजुराहो	सदस्य
घ	विधायक	विजयराघवगढ़	सदस्य
ड़	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, विजयराघवगढ़	सदस्य
च	१. सरपंच २. सरपंच ३. सरपंच ४. सरपंच ५. सरपंच ६. सरपंच ७. सरपंच ८. सरपंच ९. सरपंच १०. सरपंच	ग्राम पंचायत, सलैया कोहारी ग्राम पंचायत, कलहरा ग्राम पंचायत, देवरी मझगांव ग्राम पंचायत, बंजारी ग्राम पंचायत, खजूरा ग्राम पंचायत, झिरिया ग्राम पंचायत, बडारी ग्राम पंचायत, गुडगुडोहा ग्राम पंचायत, खलवारा ग्राम पंचायत, धनवाही	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ज	१. प्रतिनिधि २. प्रतिनिधि ३. प्रतिनिधि ४. प्रतिनिधि ५. प्रतिनिधि ६. प्रतिनिधि ७. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर श्री नीरज अग्रवाल जबलपुर कलेक्टर जिला कटनी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, कटनी कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य योग्यताकी विभाग, कटनी जिला वनमंडलाधिकारी जिला वन मंडल, कटनी	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर.	समिति का संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 69-2018-न्या.लि.-5581

खण्डवा, दिनांक 7 अप्रैल 2018

### कार्यवाही विवरण

1. मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-15-99-बी.3-दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 संदर्भ में जिले के भीतर थानों/चौकियों के निर्धारण किए जाने विषयक एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 5 अप्रैल 2018 को प्रातः 11.00 बजे को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित थे:—

1. श्री नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक जिला खण्डवा
2. श्री राजेन्द्रसिंह भदोरिया, जिला अभियोजन अधिकारी

2. पुलिस अधीक्षक जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक पुअ-खण्डवा-एसी.1-541-ए-2018, दिनांक 12 मार्च 2018 के द्वारा थाना मोघट के संवेदनशील क्षेत्र जय अम्बे चौक, शनि मंदिर क्षेत्र, महादेवगढ़ क्षेत्र लक्कड बाजार क्षेत्र तथा कल्लनगंज मोहल्ला को थाना कोतवाली में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव को गृह विभाग के उपरोक्त ज्ञापन में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में गठित समिति के समक्ष रखा गया। थाना मोघट के संवेदनशील क्षेत्र जय अम्बे चौक, शनि मंदिर क्षेत्र, महादेवगढ़ क्षेत्र लक्कड बाजार क्षेत्र तथा कल्लनगंज मोहल्ला को थाना कोतवाली में सम्मिलित होने वाले मोहल्ले एवं क्षेत्र के नाम तथा उन मोहल्लों एवं क्षेत्र की थानों से दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। समिति प्राप्त प्रस्ताव से सहमत है। अधिसूचना प्रकाशित किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। समिति थाना मोघट के संवेदनशील क्षेत्र जय अम्बे चौक, शनि मंदिर क्षेत्र, महादेवगढ़ क्षेत्र, लक्कड बाजार क्षेत्र तथा कल्लनगंज मोहल्ला को थाना कोतवाली में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्न अनुसूची अनुसार अधिसूचना जारी किये जाने की अनुशंसा करती है:—

### अनुसूची

उस पुलिस थाने का नाम,  
तहसील व जिला जिसमें  
अपवर्जित किया गया

थाने में शामिल मोहल्ले  
एवं ग्राम के नाम

पुलिस थाने का नाम  
(तहसील तथा जिला सहित)  
जिसमें सम्मिलित किया गया है

वर्तमान थाने से ग्रामों/क्षेत्री  
की दूरी दिशा व दूरी

(1)

(2)

(3)

(4)

पुलिस थाना मोघट,  
तह. खण्डवा, जिला  
खण्डवा (म. प्र.).

1. जय अम्बे चौक
2. लक्कड बाजारक्षेत्र
3. शनि मंदिर क्षेत्र
4. महादेवगढ़ क्षेत्र
5. कल्लनगंज मोहल्ला

थाना सिटी कोतवाली तहसील  
खण्डवा जिला खण्डवा  
(म. प्र.)

- 01 कि.मी. उत्तर-पूर्व

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

हस्ता./-  
(राजेन्द्रसिंह भदोरिया)  
जिला अभियोजन अधिकारी,  
जिला खण्डवा (म. प्र.).

हस्ता./-  
(नवनीत भसीन)  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला खण्डवा (म. प्र.).

हस्ता./-  
(अभियेक सिंह)  
जिला दण्डाधिकारी  
जिला खण्डवा (म. प्र.).

**कार्यालय, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्  
तीसरी मंजिल, प्लॉटिनम प्लाजा, माता मंदिर के पास, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

**आॅल इंडिया कॉसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) नई दिल्ली नामक (जिसकी शाखाएँ  
मध्यप्रदेश में भी थीं) संस्था से उत्तीर्ण ऐसे छात्र जिन्हें पूर्व में परिषद् द्वारा पंजीयन  
प्रमाण-पत्र जारी किये गए थे उन्हें निरस्त करवाये जाने के संबंध में**

**क्र. एफ-275-पंजीयन-948-2018.—पंजीयन समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2006 में लिए गए निर्णय अनुसार आॅल इंडिया कॉसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) से एक वर्षीय मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं जिनका परिषद् द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है उन्हें निरस्त किया जावे एवं भविष्य में इस संस्था से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीयन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।**

छात्रों द्वारा परिषद् कार्यालय में उक्त संस्था से उत्तीर्ण पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का पंजीयन करने हेतु लगातार निवेदन किए जाने पर प्रकरण को पंजीयन समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2006 में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखने का ही निर्णय लिया गया है।

अतः पंजीयन समिति के निर्णय अनुसार निम्नलिखित पंजीयनधारियों के पंजीयन प्रमाण-पत्र परिषद् द्वारा निरस्त किए गए हैं:—

स. क्र. (1)	पंजीयन क्रमांक (2)	आवेदक का नाम (3)	उत्तीर्ण पाठ्यक्रम का नाम (4)
1	SCH-4/Cert/00077/2003	श्रीमती अर्चना नखाते पति श्री विष्णु कुमार नखाते.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबोरेटरी टैक्निशियन 16-6-2002
2	SCH-4/Cert/00131/2003	रामसनेही रघुवंशी पिता स्व. श्री बी. के. रघुवंशी.	आल इंडिया कॉसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन (AICTE) लेबोरेटरी टैक्नी. 29-11-2001
3	SCH-4/Cert/00435/2003	शोभित जैन पिता श्री सुभाष जैन	आल इंडिया कॉसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन लेबोरेटरी टैक्नी. 17-7-2001.
4	SCH-5/Cert/00476/2003	ए. पी. बाजपेयी पिता देवदत्त बाजपेयी	ए.आई.सी.टी.ई. 20-4-2001 एक्स रे टैक्नी.
5	SCH-4/Cert/00545/2003	जितेन्द्र कुमार निगम	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 30-11-2001
6	SCH-4/Cert/00550/2003	अशोक कुमार पटेल पिता शंकर लाल पटेल.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 17-7-2001.
7	SCH-4/Cert/00561/2003	राजेश तिवारी पिता शशि शंकर तिवारी.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 4-4-2000
8	SCH-4/Cert/00569/2003	सहस राम डहेरिया पिता गण्डूलाल डहेरिया.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 5-47-1999
9	SCH-4/Cert/00651/2003	चन्दन झा पिता-जी.एन.झा	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 30-11-2001
10	SCH-4/Cert/00657/2003	राजीव कुमार मिश्रा पिता अर्जुन प्रसाद मिश्रा.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टैक्नी. 12-8-2002

(1)	(2)	(3)	(4)
11	SCH-4/Cert/00681/2003	योगेश कुमार विश्वकर्मा पिता छविलाल विश्वकर्मा.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टेक्नी. 30-4-2001
12	SCH-4/Cert/00682/2003	ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता तुलसीराम.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टेक्नी. 4-4-2001
13	SCH-04/Crti/0709/2003	आरिफ खान पिता युसूफ मो. खान.	AICTE लेबो. टेक्नी. 29-11-2001
14	SCH-04/Cert./00751/2003	पवन कुमार नागेश पिता गणेश प्रसाद.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टेक्नी. 18-4-2001
15	SCH-04/Cir./00760/2003	भास्कर दत्त तिवारी पिता चिन्तामणि तिवारी.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टेक्नी. 12-8-2002
16	SCH-04/Cir./00784/2004	राकेश मोहन शुक्ल पिता जबाहर प्रसाद शुक्ल.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. टेक्नी. 17-6-2002
17	SCH-04/Cir./1117/2004	शैलेन्द्र प्रसाद मिश्रा पिता वासुदेव मिश्रा.	ए.आई.सी.टी.ई. 18-4-2001 लेबो. (पैथा.) टेक्नी.
18	SCH-04/Cir./1147/2004	सुनील राणा पिता समोदा राणा	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 29-9-2004
19	SCH-04/Cir./1151/2004	विशाल कुमार बिसेन पिता स्व. श्री देवेन्द्र कुमार बिसेन.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 16-2-2002
20	SCH-04/Cir./1181/2004	शशि भूषण भण्डारी पिता शिव सिंह भण्डारी.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. पैथा. टेक्नीशियन 30-11-2001.
21	SCH-04/Cir./1200/2004	अंबिका प्रसाद वाजपेयी पिता स्व. श्री देव दत्त वाजपेई	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 3/01
22	SCH-04/Cir./1203/2004	शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता श्री राम श्रीवास्तव.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 10-5-2001
23	SCH-04/Cir./1204/2004	अजय कुमार गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 30-11-2001
24	SCH-04/Cir./1216/2004	इमरान अहमद पिता शकील शेख.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 2001-2002
25	SCH-04/Cir./1227/2004	कौशल कुमार बघेल पिता मोहन सिंह बघेल.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 18-4-2001
26	SCH-04/Cir./1228/2004	संतोष कुमार शर्मा पिता स्व. श्री विश्राम प्रसाद शर्मा.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 17-6-2002
27	SCH-04/Cir./1129/2004	नीतिराज सिंह राठौर पिता गोपाल सिंह राठौर.	ए.आई.सी.टी.ई. लेबो. (पैथा.) टेक्नी. 23-4-2001

उपरोक्त पंजीयनधारियों को परिषद् द्वारा प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय में मूलतः जमा करना आवश्यक है।

पूजा शुक्ला, प्रभारी रजिस्ट्रार.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. एफ 6-16-2018-सात-नजूल-21-3-2008-पुनर्वास

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

**प्रति**

समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश

**विषय :** मध्यप्रदेश में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लंबित मामलों के निराकरण के संबंध में परिपत्र.

**संदर्भ :** विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 6-115/आठ(9) 77, दिनांक 09 जुलाई, 1986 एवं परिपत्र क्रमांक 6-144/सात/नजूल/1989, दिनांक 18 फरवरी, 1994.

राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि संदर्भित ज्ञाप क्र. एफ-6-115/आठ(9) 77, दिनांक 09 जुलाई, 1986 एवं परिपत्र क्रमांक 6-144/सात/नजूल/1989, दिनांक 18 फरवरी, 1994 एवं विषय से संबंधित समय-समय पर जारी किए निर्देशों के बाद भी पश्चिम पाकिस्तान से आये सिंधी विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है।

2. पश्चिम पाकिस्तान से आए सिंधी विस्थापितों की ओर से राज्य शासन को प्राप्त मांगपत्रों और उन पर विभिन्न जिलों से समय-समय पर प्राप्त प्रतिवेदनों के अध्ययन से यह तथ्य उपर कर आये हैं कि ऐसे मामलों के निराकरण के संबंध में प्रमुखतः निम्न समस्याएं हैं:-

- (1) कतिपय स्थानों पर विस्थापितों को संदर्भित ज्ञापों/परिपत्रों के अन्तर्गत व्यवस्थापित कर कन्वेयन्स डीड निष्पादित की गयी है, किन्तु इन्हें भू-अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है और ऐसे भू-खंडों को नजूल भूमि के रूप में अंकित किया गया है, जिस कारण ऐसे व्यवस्थापितों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- (2) कतिपय विस्थापितों का, उन्हें संदर्भित ज्ञापों/परिपत्रों के अनुक्रम में व्यवस्थापन के लिये निर्धारित पात्रता से अधिक, भू-खंडों पर आधिपत्य है जिस कारण उन्हें उक्त परिपत्रों के अनुक्रम में व्यवस्थापित नहीं किया जा सका है।
- (3) कतिपय विस्थापितों द्वारा उन्हें दिए गए भू-खंड का उपयोग आवासीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है, जिस कारण स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें विधिवत् स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हो रही हैं।
- (4) कतिपय विस्थापितों द्वारा उन्हें आवंटित भू-खंड का स्थल पर भूमि उपयोग परिवर्तन किया गया है, जिसकी कोई विधिक अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।
- (5) कतिपय विस्थापित व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके पास न तो रिफ्जूजी कार्ड है और न ही स्थल पर उनके द्वारा कब्जे में रखे गये भू-खंड के संबंध में कोई दस्तावेज है, किन्तु मौके पर वह आवासीय या अन्य प्रयोजन में भू-खंड का उपयोग कर रहे हैं।

3. इस कारण राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसरण में संदर्भित ज्ञापों/परिपत्रों एवं विषय से संबंधित अन्य समस्त निर्देशों के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- (1) ऐसे मामलों में जहां संदर्भित ज्ञापों एवं राज्य शासन के समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के अनुक्रम में विस्थापितों को व्यवस्थापित करते हुए कन्वेयन्स डीड (सनद) निष्पादित की गयी है, उन मामलों में ऐसे कन्वेयन्स डीड के आधार पर भू-खण्ड धारकों को ऐसे प्रयोजन के लिये, जिस हेतु उन्हें डीड के अनुसार भू-खंड आवंटित रहा है, भूमिस्वामी मान्य किया जाए और तदनुसार भू-अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित की जाए।

- (2) ऐसे विस्थापितों को जिन्होंने आबंटित भू-खंड के भूमि उपयोग में बिना किसी विधिक अनुज्ञा के परिवर्तन कर लिया है, और ऐसा परिवर्तन तत्स्थानी विकास योजना में ऐसे भू-खंड के लिये निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप है, वहां ऐसे परिवर्तन को इस शर्त पर मान्य किया जाए कि भू-खंड धारक ऐसे भूमि उपयोग परिवर्तन के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अधीन बने नियमों के अनुक्रम में वर्तमान प्रचलित देय प्रीमियम एवं संगणित वार्षिक भू-राजस्व के भुगतान के लिये सहमत हों और आदेश दिनांक तक की बकाया राशि की एकमुश्त भुगतान की अदायगी करे। ऐसे मामलों में देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की संगणना आदेश दिनांक को लागू दरों के आधार पर की जाएगी, किन्तु बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (3) ऐसे व्यवस्थापितों के संबंध में, जिनके द्वारा संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में आबंटित भू-खंड से अधिक क्षेत्रफल पर आधिपत्य किया जाकर उपयोग किया जा रहा है, उन्हें ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिये वर्तमान वर्ष का कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर आवासीय प्रयोजन हेतु संगणित बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि और इस प्रकार संगणित प्रब्याजि की राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से भू-भाटक ले रहे हुए और आवासीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये वर्तमान वर्ष की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर संगणित बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि और इस प्रकार संगणित प्रब्याजि की राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से भू-भाटक निर्धारित करते हुए ऐसे आधिपत्य की दिनांक से 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटित की जाए जो पट्टे की अवधि समाप्ति पर नवकरणीय होगा। ऐसा आबंटन तत्स्थानी विकास योजना में अनुमत प्रयोजन के अनुरूप ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा आबंटिती भूखण्ड के इस प्रकार आबंटित क्षेत्रफल के मामले में सरकारी पट्टेदार समझा एवं माना जाएगा तथा उस पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 182 के प्रावधान तथा नवीकरण के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 के अन्तर्गत दिए गए स्थायी पट्टों के नवीकरण के लिए प्रभावशील परिपत्र/ज्ञाप के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, मानों कि ऐसा पट्टा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 के अथवा तत्संबंधी विषयक मामलों के लिए जारी किए गए हैं। आबंटन के फलस्वरूप भू-खंडधारी से उस अवधि का भू-भाटक वसूल किया जाएगा, जबसे वे ऐसे अतिरिक्त भू-खंड का उपयोग करते आ रहे हैं, किन्तु कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- (4) ऐसे विस्थापितों द्वारा जिन्हें आबंटित भू-खंड का उपयोग उनके अथवा वैधानिक अंतरिती कब्जाधारी द्वारा ऐसे भूमि उपयोग से भिन्न उपयोग में किया जा रहा है, जिसके लिये ऐसा भू-खंड आबंटित था, उनके विषय में तत्स्थानी विकास योजना के अध्यधीन रहते हुए भूमि उपयोग परिवर्तन मान्य किया जाए। ऐसा भूमि उपयोग परिवर्तन सर्वप्रथम उपरोक्त उपकंडिका (1) से (3) के अनुसरण में विधिमान्य किये जाने के उपरान्त ही अनुज्ञय होगा।

4. इस परिपत्र के प्रयोजन के लिये विस्थापित व्यक्ति से तात्पर्य है भारत-पाक विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से आए 'रिफ्यूजी कार्डधारी' सिंधी विस्थापित व्यक्ति और 'रिफ्यूजी कार्डधारी' में उनके वैध उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जाएंगे।

5. कण्डिका 3 की उपकण्डिका (3) एवं (4) के प्रयोजनों के लिये 'अंतरिती' में यथास्थिति ऐसे अंतरिती के वैध उत्तराधिकारी या वसीयती सम्मिलित माने जाएंगे।

6. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 का अतिरिक्त भाग होगा।

7. संदर्भित परिपत्र/ज्ञाप दिनांक 09 जुलाई, 1986 तथा दिनांक 18 फरवरी, 1994 के प्रावधानों पर इस परिपत्र के प्रावधान/निर्देश अध्यारोही प्रभाव रखेंगे अर्थात् संदर्भित परिपत्र इस परिपत्र के प्रावधानों के निर्देशों की सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

अस्त्रण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

**परिवहन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ 22-10-2018-आठ.—मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2018 में प्रकाशित अधिसूचना की पंक्ति 9 में प्रदर्शित “सहायक निरीक्षक” को “सहायक उप निरीक्षक” पढ़ा जावे।

कमल नागर, उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 29 अ-82-17-18-4033.

बैतूल, दिनांक 28 मार्च 2018

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शवितयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हैंडमें)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	गौला	59.835	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसङ्घोह उद्वहन परियोजना मध्यम सिंचाई

**अनुसूची - 2**

(प्रभावित धारकों की सूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	सुनील व. साहेबराव कुन्ही सा. देह	610/3	0.417	0.417
2	गया बेवा साहेबराव सुनिल गजानंद व० साहेबराव अनिता बेवा अनिल अनामिका ना.बा.पि. अनिल कुन्ही सा०देह	606/1 610/2	0.449 0.202	0.449 0.202
3	गया बेवा साहेबराव सुनिल गजानंद व० साहेबराव अनिता बेवा अनिल अनामिका ना०बा.पि. अनिल कुन्ही सा०देह	618/3	1.084	1.084
4	गयाबाई बेवा नाथुराम कुन्ही सा. बैतूलबाजार	610/1	0.619	0.619
5	बारक्या रामजी किसना व. गणबा शान्ता तीरा ईठा गुन्ता जनु गीता निर्मला पिता कचरा पिखा बेवा कचरा गणबा व. सोनबा हेमराज पर्वतराव व. भीमराव इमला देविका पिता भीमराव मंजी बेवा लक्ष्मण पांडूरंग पंजाबराव भोजराव बुधराव व. लक्ष्मण तुलसा शान्ता पिता लक्ष्मण चन्द्रभागा बेवा संपत्ति कृष्णराव, सुदामा व. संपत्ति वंदना पिता संपत्ति कुन्ही सा. देह	407/1 429/1 597/1 621/1 625/1	0.057 0.316 0.085 0.121 1.021	0.057 0.316 0.085 0.121 0.951
6	संतोषराव अजाबराव चांगदेव व. बारू कुन्ही सा. देह	525/6 535/2	0.773 0.599	0.773 0.599

7	श्यामजी व. तीमा कुन्बी सा. देह	542	0.142	0.142
		545	0.567	0.567 *
		548	0.093	0.093
		553	0.121	0.121
		555	0.486	0.486
8	जयप्रकाश, राजेन्द्र व. किसना उर्मिला पिता किसना बेबी पिता बारक्या कला, फूला पिता ढोंड्या मूली जौ. गणपती गुलाबराव बाबूराव व. नथ्या शांता कला बला फूला पिता नथ्या पूर्णा बेवा नथ्या बकाराम टेनू सीताराम व. रामजी गुन्ता कान्ता सिंघू इंदू पिता रामजी कुन्बी सा. यायगांव	618/1	1.328	1.328
		618/5	0.449	0.449
9	तुकाराम व. बकाराम रामा गोबरया लक्षण सोनबा बारक्या व. रामजी बामजी बेवा रामजी गुलाबराव गेंदू हेमराज पर्वतराव व. भीमराव इमलाबाई देवकी पिता भीमराव कुन्बी सा. देह	409/1	0.097	0.097
10	अजाबराव हेमराज व0 तुकाराम कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	481/1	2.400	2.400
11	बाबूराव व0 तुकाराम कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	452/1	2.526	0.500
12	गुलाबराव व0 बंगाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	462/2	0.045	0.045
		454/1	0.462	0.462
		455/2	0.141	0.141
		454/4	0.022	0.022
13	मुकिंदराव व0 बंगाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	462/1	0.036	0.036
		454/2	0.402	0.402
		455/1	0.259	0.259
14	महादेव व0 बंगाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	462/3	0.073	0.073
		454/3	0.283	0.283
		455/3	0.073	0.073
15	अंजी बेवा गणपति हेमराज धनराज नामदेव व0 गणपति तुलसी उर्फ राधा पिता गणपति जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	456/1	0.016	0.016
16	सरू बेवा सिरपति ज्ञानदेव व0 सिरपति आशा सुनिता सरिता पिता सिरपति जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	456/2	0.033	0.033
17	गुलाबराव देवराव व0 लाहनू जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	579	0.364	0.364
18	माधोराव उर्फ डी.एस.पंडाग्रे हेमराज व0 सखाराम लंका उर्फ अलका जैयवंती उर्फ कातापि सखाराम डोमा महादेव व0 तुकाराम सहदेव श्यामराव व0 केशोराव अंजी पूंजी उर्फ तुलसा पिता केशोराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	578	3.278	3.278
19	हेमराज ओमप्रकाश व0 गेंदराव इमलाबाई बेवा गेंदराव शांता पिता गेंदराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	583	0.648	0.648
		580	0.243	0.243
20	दौलतराव व0 सक्या जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	581/8	2.206	0.760
		581/1	2.200	0.170
21	गोविंदराव व0 आत्माराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	581/9	0.606	0.606
		581/11	0.044	0.044
		581/13	0.029	0.029

22	शेषराव व0 आत्माराम जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	581/12	0.029	0.029
23	शंकरराव व0 आत्माराम जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	581/10	0.357	0.070
24	किसना मानिकराव जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	628/6	0.800	0.300
25	शिवशंकर व0 मानिकराव जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	628/4	1.345	0.883
26	सुनिल व0 मानिकराव जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	628/5	1.345	0.882
27	गुणवंतराव व0 घुस्या जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	581/2	0.265	0.265
28	दौलतराव व0 भिवसन जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	593/3	0.557	0.080
		594/1	0.455	0.365
29	बेबोबाई जौ० मूंगाजी जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	596/3	0.133	0.133
		596/4	0.132	0.132
		596/5	0.045	0.045
		596/7	0.053	0.053
30	वामनराव व0 भगवान जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	596/1	0.186	0.186
31	सुशिला पिता दाढू जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	596/2	0.158	0.158
		428/3	0.259	0.209
32	विमला जौ तुकाराम जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	596/6	0.022	0.022
33	महादेव व. पुंज्या अंजी पिता पुंज्या कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	428/1	0.481	0.441
34	मूंगा व0 उमराव जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	428/2	0.123	0.038
35	गुलाबराव व0 गोंदू कोटीका पिता गोंदू जाति कुंबी पता सादेह भूमिस्वामी	428/4	0.303	0.303
36	माधो व0 मारीती साकरु उर्फ कमला पिता विरजा चंद्रकला बेवा यादोराव संदीप सुनील व. यादोराव रेखा पिता यादोराव कलिराम बलीराम पिता झिंगू सुशिला लता उर्फ पार्वती पिता झिंगू सा०देह भूमिस्वामी	529	2.833	0.690
37	उर्मिला मुन्नी कमलू पिता कोंडया नाई सा०देह भूमिस्वामी	518/1	0.972	0.972
38	झानू व0 संतोषराव चांगदेव व0 वारू जाति कुंबी सा०देह भूमिस्वामी	520	0.809	0.809
39	गुलाबराव व0 भिल्या पारबती बेवा मिट्ठू गुंता पिता मिट्ठू वामनराव व0 मिट्ठू विद्या बेवा भाऊराव करुण गुलशन व0 भाऊराव मनीषा निशा पिता भाऊराव जाति कुंबी सा०देह भूमिस्वामी	501	0.668	0.628
40	रामराव भीमराव व0 बंगाली अनिल सुनिल गजानंद व0 साहेबराव गया बेवा साहेबराव अजाबराव गुणवंतराव मुन्ना व0 दशरथा मंजूरी मीरा पिता दशरथा सा०देह भूमिस्वामी	488/1	0.386	0.386
41	गुणवंतराव व0 दशरथा जाति कुंबी सा०देह भूमिस्वामी	473/1	0.446	0.180
42	वासूदेव गुलाबराव काशीनाथ व0 नथ्या देवकू पिता नथ्या मधु व0 नन्दा जाति कुंबी पता सा० देह भूमिस्वामी	433	4.873	0.990
		440	1.222	0.500

43	पूनाजी खेमराव व0 माणिकराव भूरो निर्मला उर्मिला पिता माणिकराव पता सा0 देह भूमिस्वामी	443/1	1.383	1.383
44	पंजाबराव व0 नारायण बकुला पिता नारायण जाति कुंबी सा0 देह भूमिस्वामी	468/3	0.178	0.158
		468/4	0.094	0.094
45	शंकर पंजाबराव व0 नारायण बुंदरी बकुला पिता नारायण, महादेव मुकिंदराव सुभाष गुलाबराव व0 बंगाली सकु पिता बंगाली सा0 देह भूमिस्वामी	461	0.494	0.430
46	सरू बेवा श्रीपति ज्ञानदेव व0 श्रीपति आशा, सुनिता, सरिता पिता श्रीपति जाति कुंबी सा0 देह भूमिस्वामी	463/3	0.164	0.164
		465/1	0.202	0.202
		467/3	0.237	0.237
47	गुलाबराव देवराव व0 लाहनू पता सा0 देह भूमिस्वामी	582	2.792	1.270
48	गुणवंतराव व0 घुस्या सा0 देह भूमिस्वामी	581/2	0.265	0.180
		601/2	0.324	0.040
49	महादेव उर्फ डी. एस. पंडाग्रे हेमराज व0 सकरया लंका उर्फ अल्का जयवंती उर्फ कांता पिता सकरया अंजी मंजी पिता तुका गुलाबराव देवराव व0 लाहनू चिंधी पिता तुकाराम तुरजा बेवा घुस्या बसंतया बाज्या व0 देवबा तुरजा पिता सरावन सा.देह तानी पिता सरावन सा0 सोनोरी सहदेव श्यामराव व0 केशोराव पूजी उर्फ तुरसा अंजी पिता केशोराव चिंधी पिता तुकाराम तुरजा बेवा घुस्या बसंतया बाज्या व0 देवबा तुरजा पिता सरावन ईमला -बेवा गेंदराव शांता पिता गेंदराव हेमराज ओमप्रकाश व0 गेंदराव भूमिस्वामी	614	1.619	1.619
50	पूर्णा बेवा चिन्ध्या नारायण शेषराव रमेश व0 चिन्ध्या शांता गुंता कमला पिता चिंध्या कुंबी सा देह भूमिस्वामी	601/1	0.324	0.200
		602	0.599	0.550
		605	0.818	0.607
		606/2	0.449	0.449
		608	0.162	0.162
		609	0.478	0.478
		611	0.567	0.567
51	गुणवंतराव रघुनाथ अजाबराव व0 घुस्या गुनी बेवा घुस्या चंद्रकला इशुकला उर्फ सुशीला पिता घुस्या जाति कुंबी सा देह भूमिस्वामी	599/2	0.574	0.224
		613/1	0.222	0.222
		603/1	0.477	0.477
		603/3	0.144	0.094
52	गुलाबराव बकाराम व0 दादू कला कमरजा पिता दादू सा देह- भूमिस्वामी	616/1	1.027	1.027
53	अंजी बेवा बाबूराव पर्वतराव जयप्रकाश कृष्णा ललीत गंगाधार व0 बाबराव इंदिरा निर्मला पिता बाबूरावव्यंकटराव अशोक सूर्यभान व0 ढोड्या सा0 देह भूमिस्वामी	619	0.113	0.113
		623	0.607	0.607
		624	2.023	2.023
		639	1.060	1.060
		649/1	0.267	0.267
54	लक्ष्मण मारोती व0 सावन्या भूजली मिटको सामजी पिता सावन्या चिन्धु बाबूराव दशरथा व0 भूरा रैना बेवा सूका गुलाब पंजाबराव व0 सूका भीमराव सूरेश व0 पतिराम बैना गुंता पिता पतिराम सा देह भूमिस्वामी	636	1.113	1.113

—५—

55	मारोती केशोराव व0 श्यामराव नथी पिता श्यामराव संतोषराव अजाबराव व. गेंदराव ईठा पिता सरजेराव गुंता पिता लाहनू सूला पिता रामजी झेंगी पिता ईटू जाति कुंबी पंता नि. ग्राम भूमिस्वामी	635/1	0.793	0.793
56	नारायण पिता मिटू पारवती पिता मिटू सैजा बेवा मिटू कला बेवा काशीनाथ वच्छला ममता अनिता पिता काशीनाथ अंगूरबाला सोनू नाबा० पिता काशीनाथ वलीमां कला जाति कुंबी सा० देह भूमिस्वामी	483	1.998	1.958
57	वासुदेव बाबूराव व0 आनंदराव सा० देह भूमिस्वामी	489	1.676	0.040
58	राज्या वल्द दिन्या श्यामराव व0 निम्बा गेंदराव व0 गणपत सोना बेवा संभा गया शांता पिता संभा अंकित सूरज नाबा० वल्द मुकिंदा वली मा सुशिला बेवा मुकिंदा जाति कुंबी सा० देह भूमिस्वामी	640	0.275	0.275
59	पुनाजी खेमराज व0 मानिकराव भूरो उर्मिला निर्मला पिता मानिकराव जाति कुंबी सा० देह भूमिस्वामी	469/4	0.719	0.569
60	उकंडराव वल्द गणपतराव जाति कुंबी सा० देह	391/2	1.315	0.022
61	बाबूराव व0 गेंदराव जाति कुंबी सा० देह भूमिस्वामी	635/4	0.127	0.127
		658/3	0.445	0.445
		658/8	0.235	0.235
		658/12	0.088	0.088
62	शाताबाई पिता भैया धनराज हेमराज यादोराव व0 भीमराव कला हेमलता उर्फ मालता रेखा उर्फ सुरेखा पिता भीमराव सा० देह भूमिस्वामी	540	4.460	4.460
63	गुलाबराव व0 व्यंकटीजाति कुंबी सा० देह भूमिस्वामी	604	0.364	0.125
		607	1.736	1.736
		612	0.510	0.510
		617/1	0.991	0.991
64	मारोती व0 गणपति सा० देह भूमिस्वामी	617/3	1.800	1.800
65	गजानन्द सेवानन्द सुनिल राजेश राजकुमार पप्पू व0 धून्धू प्रचि सुरजा बाई पिता ढोंडया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/4	0.052	0.052
	कुल योग :-	116	81.032	59.835

1— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया

जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

3— सम्रचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 26 आ-82-17-18-4039.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	डोहलन	19.374	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	नामदेव व. बालाराम किराड़ सा. देह	117/1 192/4 118/1 192/5	0.210 0.246 0.405 0.026	0.210 0.246 0.405 0.026
2	गुणवंत व. टीकाराम कुन्ही सा. देह	70/1	0.405	0.405
3	ज्ञानराव बलवंत व. राजेराम उमा कमला पिता राजेराम कुन्ही सा. देह	100/3	0.906	0.040
4	किसना साहेबराव आनंदराव व. लाहनू बहना बेवा लाहनू गजानंद व. रामू नारायण व. रावजी गीता इठा पिता रावजी चिन्धू अजाब, बाला उर्फ बाबूराव वो फुन्दू बाया पिता फुन्दू संतोष व. बाजेराव, बहना कमरजा पिता ढोङ्या जाति कुन्ही पता निरो ग्राम भूमिस्वामी चिन्धी बेवा पांडुरंग सरीता पिता पांडुरंग मोना नाबा. पिता पांडुरंग वली मा चिन्धी इमला पिता गेंदू मीरा बेवा शिवा उमेश भाऊराव व. शिवा कुन्ही पता निरोग्राम भूमिस्वामी	46/2	0.280	0.280
5	मोतीराम वो राजेराम जाति कुन्ही पता निरोग्राम भूमिस्वामी	46/3	0.121	0.121

6	सुरेश व. तिलकचंद किराड सा. देह	114/1	0.012	मद.।
7	राजेश व. तिलकचंद किराड सा. देह	114/3	0.012	मकान
8	सुरेशचंद व. तिलकचंद किराड सा. देह	114/4	0.012	मकान
9	शिवली व. तिलकचंद किराड सा. देह	114/5	0.012	मकान
10	सरावन व. गंगाराम काशी भाग कौशु पिता गंगाराम गुना बेवा माध्या गुलाबराव अजाबराव व. माध्या मंजूरी रेखा वंदना पिता माध्या कुन्ची सा. कुटखेड़ी	2/1	1.709	0.497
11	किसन व. गणपती जनू बेवा गणपती कुन्ची सा. कुटखेड़ी	2/2 51/4	1.829 2.306	0.457 0.170
12	संतोषराव व. धुडल्या कुन्ची सा. देह	19 18 31	0.902 0.235 1.672	0.150 0.235 0.212
13	बाबू व. लक्ष्मण चंद्रकला पिता लक्ष्मण कुन्ची	38	0.829	0.464
14	अजाबराव व. मारोती कुन्ची सा. कुटखेड़ी	36	0.437	0.080
15	भैयालाल मिट्टू व. हरिराम रामपायरी बेवा हरिराम पावती इमला पिता हरिराम किराड सा. देह	166/3	1.943	0.170
16	राधे बेवा लंगसी मिश्री झनक व. लंगसी सा. बोरगाव हेमत गब्बू ललीता अनीता संगीता अन्नी पिता गब्बू किराड सा. रम्पाखेड़ी	169/1	1.139	0.283
17	राजेश व. सम्पति जाति कुन्ची सा. कुटखेड़ी	49 50/2	0.603 2.430	0.603 0.841
18	साहेबराव व. सम्पति जाति कुन्ची सा. कुटखेड़ी	3 4/1 5	0.664 0.825 0.777	0.664 0.825 0.100
19	आनंदराव व. सम्पति जाति कुन्ची सा. कुटखेड़ी	7 4/3 6	0.850 1.104 0.526	0.850 1.104 0.060
20	राजकुमार उर्फ धनाराम व. सम्पति जाति कुन्ची सा. कुटखेड़ी	50/1 48 46/1	3.356 0.247 0.243	2.924 0.247 0.243
21	बाला उर्फ बाबुराव व. फुट्टु जाति कुन्ची सा. देह	52/3	1.451	0.768
22	विरोजी व. नथू तेली सा. बोरगाव	211/2 215	0.498 0.287	0.498 0.287
23	मनु, बसंती, सुरांती, पिता नथू ग्यारसी बेवा गोंदू गोमा पिता गोंदू मुन्नी सुमन अनुसया पिता गोंदू तेली सा. देह	217	0.081	0.081
24	गंगाधर व. पंचम जाति तेली सा. बोरगाव	153/5 154/3 160/3	0.452 0.457 0.606	0.452 0.457 0.606
25	नंदकिशोर व. छोटेलाल जाति तेली सा. बोरगाव	120	1.153	1.153
26	तीतलाल व. छोटेलाल जाति तेली सा. देह	128/1	0.821	0.821
27	हसला शकुन उमा सुनिता उर्फ प्रमिला सावित्री पिता छोटेलाल सुनील अनील व. साहबू ग्यारसी बेवा गोंदू गोमा व. गोंदू मुन्नी सुमन अनुसया पिता गोंदू जाति तेली सा. बोरगाव	160/2	0.157	0.157
28	मानक, व. कपूरचंद विरोजी व. नथू तीतलाल नंदकिशोर व. छोटेलाल हसला शकुन उमा सुनिता उर्फ प्रमिला सावित्री पिता छोटेलाल सुनील अनील व. साहबू ग्यारसी बेवा गोंदू गोमा व. गोंदू मुन्नी सुमन अनुसया पिता गोंदू जाति तेली सा. बोरगाव	212/1 216	0.757 0.364	0.757 0.364
29	धनराज देवराव व० माखन पारवती शिवरती पिता माखन जाति किराड सा. नांदकुड़ी	214	0.061	0.061
	महायोग	46	34.418	19.374

1— भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (ए) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगन सृजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 22 अ-82-17-18-4040.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हैरोमें)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	देवडोंगरी	34.447	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसङ्घोह मध्यम उद्वह सिंचाई परियोजना

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारको की सूची)

पारसङ्घोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम देवडोंगरी की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भीमराज व. देवसिंग गुलाबराव पंजाबराव, छोटेलाल व. दयाराम जाति किराड़ पता सा.देह. भूमि स्वामी	68	0.081	0.081
2	भद्रा व. फगन्या, सारजी बेवा फगन्या पता सा.देह भूमि स्वामी	104	0.979	0.979
3	बाबूराव, बुधराव, दादूराव, पंडरी, प्रकाश व. दौलत, कोल्ही वे. दौलत, पूला, निर्मला पिता दौलत वच्छला इन्दिरा पिता चिन्ध्या, वारू व. दयाल मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178	1.011	0.350
		180	3.925	0.200
4	तुलसी व. रामा तुमड़ी वे. चिन्ध्या पता सा.गुढ़ी भूमि स्वामी	79	0.045	0.045

-2-

5	श्रीराम, किशोरी, हरीराम, दिनू, वल्द नथ्यु अच्छी, पूरमा, प्रमीला पिता नथ्यु मंगली, कला पिता अंछाराम, सुखदेव, हेमराज, धनराज उर्फ सिही, बिसन, + किसनलाल, व0 तुलसीराम, मीरा, सूगन्ती, रामरती, फुलवंती, कलावंती, निर्मला पिता तुलसीराम पूँजी बेवा बालाराम शांता बे0 विजय शंकर सुदन अभिराम व0 बालाराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अमला लीला उर्मिला रमल सुनिता पिता बालाराम उर्फ प्यारेलाल किराड भजनलाल व0 विजयशंकर मिना उमा पिता विजयशंकर पता निवासी ग्राम नांदकुड़ी भूमिस्वामी रामकिशन मनोहर, जवाहरलाल, चन्द्रभान व. फत्या, रामप्यारी, अनुसया, निर्मला पिता फत्या सावजी व0 परसराम सुनिता जौ0 गुलाबराव निवासी बोरडा महाराष्ट्र जाति किराड पता निवासी नांदकुड़ी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	6	3.088	3.088
		10	1.777	1.777
		12	4.532	0.370
		14/1	1.562	1.562
		16	2.380	2.380
		20	0.684	0.684
6	अनिल सुभाष व0 सुखदेव किराड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	2.025	1.525
7	सूर्यकांत व0 खेमराज जाति किराड पता निवासी ग्राम भैसदेही भूमि स्वामी	4/4	2.500	2.500
		12/2	0.607	0.607
8	किसनलाल व0 तुलसीराम मीरा सुगंती रामरती फुलवंती कलावंती निर्मला पिता तुलसीराम पता सा0 नांदकुड़ी भूमि स्वामी	4/1	13.970	7.085
9	रामकिशन व0 श्यामराव पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार ग्राम नौकर भू राजस्व शामिल लगानमुक्त	93	2.197	2.197
10	रामकिशोर रामराव व. भीमराज हैबती मीरा पिता भीमराज जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	26/2	0.101	0.101
		44/2	0.433	0.433
		45/2	0.522	0.522
		52/2	0.554	0.554
		74/2	0.009	0.009
		86/2	0.036	0.036
		89/2	0.044	0.044
11	पंजाबराव व. चिंध्या फुलवा कांता द्वारकी पिता चिंध्या संगीता जौ दिलिप जाति मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी	77	0.016	0.016
12	सावन्या मंगल व. चैतराम फगनी पिता चैतराम फुलवंती बेवा महेंगया रामदयाल दिनदयाल पिंटू उर्फ सतोष व0 मंहेंगया सुमत्री भागरती सावित्री अनीता इमला उर्फ विमला पिमा महेंगया जाति ढिमर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	69	0.057	0.057
13	कला सयजा देवकी पिता चिंधू पता सा. देह भूमिस्वामी	76	0.016	0.016
14	सुशिला उर्मिला पिता रतिराम किराड पता नि. नांदकुड़ी	30/5	1.547	1.070
		31/1	0.721	0.050
15	पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड सा. देह भूमिस्वामी	37/6	0.677	0.150
		39/1	0.485	0.262
		39/5	0.545	0.372
		40/1	0.258	0.258

		40/5	0.607	0.607
		73/1	0.016	0.016
		87/1	0.072	0.072
		90/1	0.101	0.101
16	छोटेलाल व. दयाराम सा. देह भूमिस्वामी	34/4	0.596	0.190
		39/2	0.750	0.392
		39/4	0.450	0.302
		40/2	0.258	0.258
		40/4	0.587	0.587
		40/7	0.258	0.258
		73/2	0.016	0.016
		87/2	0.045	0.045
		90/2	0.126	0.126
17	गुलाबराव व. दयाराम सा. देह भूमिस्वामी	37/5	0.474	0.380
		39/3	1.085	0.442
		40/3	0.815	0.815
		40/6	0.318	0.318
		73/3	0.017	0.017
		87/3	0.045	0.045
		90/3	0.080	0.080
	योग	52	54.100	34.447

- 1— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 3— समृच्छित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 24 अ-82-17-18-4041.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	गरव्हा	30.986	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसंडोह मध्यम उद्वह सिंचाई परियोजना

### अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची)

(पारसंडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम गरव्हा की नीजि भूमि प्रभावित होने से )

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कला बेवा अमरलाल, सुरजलाल व. गेंदू पता सा.पचाधार भूमिस्वामी	150	0.631	0.631
		151	0.380	0.380
2	सुखदेव व. भमूत्या किराड़ सा. देवडोंगरी	176	1.149	0.150
		168/5	0.300	0.300
		168/6	0.306	0.306
3	सुखदेव पिता भमूत्या पता नि. देवडोंगरी	178/1	0.522	0.522
4	दयानंद, सुखदेव, नामदेव व. भमूत्या किराड़ सा. देवडोंगरी	168/2	0.364	0.364
		180/2	0.445	0.445
5	सुन्दा पिता लक्ष्मी धुड़या पिता रमचंद गोड़ सा. देह भूमिस्वामी	435	2.133	0.060

6	रामदास दिनेश पिता मारोती चंद्री सुगन्ती पिता मारोती जसोडा माणिकराव पिता बंगाली पता नि० ग्राम समान भाग बहना बेवा गणपती दशरथ शिवा वारू व. गणपती काशी पिता गणपती जाति मेहरा सा. नांदकुड़ी भूमिस्वामी	293/1 293/3	1.924 0.202	1.924 0.202
7	हेमराज_व. गणपती कुन्बी सा. देह	67/2 157/1 122/2	1.256 3.438 0.368	1.256 3.030 0.368
8	कला बेवा अमरलाल कविता इश्वरी उर्फ प्रभिला पति धनराज, पिता अमरलाल सुरजलाल व. गेंदू भूता उर्फ शास्त्री पति किशोरी अंजीरा पिता गेंदू सा. पचधार भूमिस्वामी	135/6 135/10 135/12	0.405 1.011 0.202	0.405 1.011 0.202
9	गेंदराम व. तुकाराम घुरु घुस्या व. बकाराम कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	164/1	3.793	3.793
10	मानिकराव व. श्यामू जाति कुन्बी पता नि ग्राम भूमिस्वामी	18/2 33/2 447/3 448/5	0.113 0.505 0.202 1.862	0.080 0.340 0.110 0.250
11	रामराव व. श्यामू जाति कुन्बी पता नि ग्राम भूमिस्वामी	18/3 33/1 447/1	0.114 0.510 2.275	0.080 0.385 0.440
12	मोरेश्वर व. तीमा चंद्रकला सुमन बच्छला उर्फ राधिका पिता तीमा पति तुलसीराम इदिरा उर्फ कमला पिता तीमा पति धनश्याम जाति कुन्बी पता नि ग्राम भूमिस्वामी	18/1 33/3	0.113 0.479	0.080 0.375
13	मोरेश्वर व. तीमा कुन्बी पता नि ग्राम भूमिस्वामी	447/2	0.607	0.430
14	रेना, चैना, पिता रामचंद्र रामदास दिनेश पिता मारोती चन्द्ररा सुगन्ती पिता मारोती नामदेव व. मोहन्या गरीबदास पंचफूला पिता दयाल शिवा दशरथ वारू पिता गणपती जाति मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	146	1.424	1.424
15	किसना साहेबराव, सुरेश, गुणवंत, वासुदेव व. भूरा दादू सुशीला पिता भूरा गेंदा, चिंध्या व. गणपत बाया अलाखी पिता गणपत कुन्बी पता नि. गौला भूमिस्वामी	168/1 180/1 180/4	0.578 0.405 0.359	0.578 0.405 0.359
16	गया बेवा गोविंदराव निर्मला बेवा सीताराम सुशे योगेश पिता सीताराम रेखा कविता पिता सीताराम काशीनाथ जगन्नाथ व. गोविंदराव दशरथ व. तुनका जनु बेवा पंजसबासव निर्मला गीता पिता पंजाबराव अंजू उर्फ पारबती पिता तुनका पति वामनराव गीता बेवा बाबाराव सनी व. बाबाराव कलीराम वामनराव व. तुनका मालता पिता तुनका सुभाष माधोराव व. तुनु रमेश, दिनेश, निलेश अर्नील व. धर्मराव कुन्बी पता नि. गौला भूमिस्वामी	88/1 88/36	0.211 0.121	0.211 0.121
17	मालती पति सायबू किराड पता नि. पचधार भूमिस्वामी	133/1 145/10	1.032 0.202	0.422 0.202
18	सुशीला पिता चैतराम पति गरीबदास नि. नांदकुड़ी भूमिस्वामी	274/2	0.405	0.405
19	नत्थू नारायण व. गज्या बाया कमला पिता गज्या जाति कुन्बी पता नि. जामगांव	178/2	0.522	0.522

20	मखुबाई पति पुंज्या कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	200/9	0.405	0.405
21	रासमदास दिनेश व. मारोती चंद्री भगुन्ती पिता मारोती बहना बेवा गणपती दशरथ वारू व. गणपती काशी पिता गणपती रैना चैना पिता रामचन्द्र गरीबदास व. दयाल पंचफूल पिता दयाल जाति मेहरा पता नि. नांदकुड़ी भूमिस्वामी	294	0.571	0.571
22	अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव पिता चुन्नी जाति कुन्बी पता नि. ग्राम	58/2 49/2 51/2 51/4	0.382 0.259 0.185 0.648	0.140 0.259 0.185 0.648
23	मानिकराव व. सम्पत्ती प्रीति वर्षा उर्फ वैशाली पिता गोविंदराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	72/1 91/2 93/1 94/1 96/2 100/1 103/2	0.313 0.498 0.202 0.033 0.085 0.168 0.196	0.313 0.498 0.202 0.033 0.085 0.168 0.196
24	फूलचंद विनोदी भूरा व. भाकचंद फुल्लु पिता भाकचंद साहेबलाल दुल्ली तिलकचंद व. गणपत झापू पिता श्यामलाल पता नि. बोरगाव भूमिस्वामी	309 310	3.209 0.263	0.560 0.050
25	सन्तोषराव व. लक्ष्मण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	200/1	0.201	0.201
26	सुभाष व. रामू सुमित्रा सुनिता पिता रामू कौशु बेवा रामू श्यामू व. धनसा मुशिया पिता धनसा गोड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	256	2.914	2.664
27	भीमराव व. बाबूजी जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	252/2	0.767	0.390
28	नारायण पिता भीमराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	257/1	3.966	0.850
	योग	57	46.133	30.986

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 27 आ-82-17-18-4044.

चौंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेएम)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र)	मुलताई	काजली	1.509	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभुग मुलताई जिला बैतूल	पारसङ्घोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

### अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची)

पारसङ्घोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम काजली की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	उमा उर्फ कमलती पिता कारु अजाबराव राजेन्द्र रामेश्वर राजू व. महादेव कान्ता उर्फ मीरा पिता महादेव तेली सा. देह	25/1	0.405	0.405
2	जीवनदास धनराज व. आशाराम प्रेमा शोभा रेखा पिता आशाराम प्रफुल व. मुकेश आरती पिता मुकेश किराड सा. नांदकुड़ी	10/3	1.631	0.202
3	जयवंती, जमना पिता टेनी कारु पिता गौली रघु पिता तानू सावला गीरजा गया पिता तानू सा. नांदकुड़ी	8	1.538	0.700
4	गबल वल्द अमृत किराड सा. देह भूमि स्वामी	20/2	1.513	0.101
5	नारायण वल्द दशरू किराड सा. देह भूमि स्वामी	45/1	2.485	0.101
कुलयोग :-		5	7.572	1.509

1— भूमि का नक्शा (एलान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 33 अ-82-17-18- मौजा जामगांव 4147.

बैतूल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	रकम धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	जामगांव	68.609	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	लिहवा लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकम	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	कान्ताबाई जौजे बाबूराव कुन्ही पता सा. देह	5	1.254	0.161
2	गया पिता केशा संतोषराव व. भूरा, सया पिता भूरा तापी बेवा डोमा कान्ता बेवा बाबूराव, राजा, अखिलेश व. गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी भीरा, बेवा गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी सहादेव बलदेव व अजाब सूमन बेवा अजाबराव दौलत तुलसीराम पिता मुगस्या गनी तानी, सया पिता मुगस्या, सुरेश रमेश वल्द बाबूराव, शीला, रेखा लीला पिता बाबूराव पता सा. देह भूमि स्वामी	6	0.182	0.081
		27/3	0.136	0.136
3	तुलसीराम वल्द मूगस्या, मनी, तानी, सया, पिता मुगस्या, भीरा बेवा गुलाबराव, राजा, अखिलेख पिता गुलाबराव पता सा. देह भूमि स्वामी सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव, शीला, लीला, रेखा पिता बाबूराव कांता बेवा बाबूराव, द्वारका पिता दौलतराव, लाहनी बेवा दौलतराव सा. देह मनोज, आशीष व. बलवंत, पूनम पिता बलवंत कुन्ही सा. मलाजपुर पिता मुगस्या भीरा बेवा गुलाबराव राजा अखिलेख पिता गुलाबराव जाति कुन्ही पता निवासी	8/1	0.110	0.012
		36/1	1.514	1.514

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा ₹	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
4	दोलत वल्द मुंगस्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/4	1.279	0.101
		36/3	0.283	0.283
5	दादू आकोशराव वल्द मारोती बयना पिता मारोती, मीरू बेवा लाहन्या, दिनेश कमलेश वल्द लाहन्या नाबा वली माँ मीरू पता सा.देह भूमि स्वामी	9/1	0.640	0.364
		25/1	0.091	0.091
		33/2	0.365	0.365
		33/4	0.556	0.556
6	नागोराव वल्द जैराम जाति कुच्ची पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/2	0.656	0.041
		33/7	0.584	0.584
		40/2	0.051	0.051
7	सित्तु वल्द झिपरया कुच्ची पता सा. देह भूमि	9/4	0.325	0.012
		33/3	0.331	0.331
		33/5	0.557	0.557
		33/12	0.234	0.234
8	गोविन्दराव, देवराव व. किसना सया बेवा गणेश, चन्द्रकांत वल्द गणेश संगीता पुष्पा, शशीकला, प्रमिला पिता गणेश शांता पिता किसना पता सा.देह भूमि स्वामी	9/7	0.722	0.081
		25/4	0.091	0.091
		33/1	0.422	0.422
		33/8	0.655	0.655
		33/9	0.080	0.080
9	किसना, मधु गोन्दा सया पिता गोन्दा, सोना, भूली, पिता गन्नू श्यमू वल्द गन्नूगुनी बनी जनी पिता चेपट्या पता सा. देह भूमि स्वामी नारायण, व्यंकटी वल्द भूरा अनू पिता भूरा श्यामू वल्द गन्नूगुनी बनी, जनी पिता चेपट्या जाति कुच्ची पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10	2.044	0.162
		32	1.793	1.793
		44	0.214	0.214
10	आकोशराव वल्द जागो मेना, अजू पिता जागो कुच्ची पता सा.देह भूमि स्वामी	15	1.202	0.919
		16	2.295	0.567
		30	1.085	1.085
		43	0.231	0.231
11	आनंदराव व. केशो कुच्ची पता सा.देह	17	0.781	0.781
		19	0.388	0.388
		27/2	0.045	0.045
		95/2	1.000	1.000
12	यादोराव व. सीताराम जाति कुच्ची पता सा. देह भूमि स्वामी	18/1	0.809	0.809
		20/1	0.060	0.060
		31	2.023	2.023

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे	कुल अर्जितहे
1	2	3	4	5
13	भाऊराव वल्द जन्या, बाजीराव, गुलाबराव वल्द भैया, बायजा पिता भैया, सुपा बेवा शेषराव, रामु पिता शेषराव, सुधा, अनिता, कल्पना पिता शेषराव, पता सा.देह भूमि स्वामी कृष्णकांत वल्द बाबूराव, ललीता बेवा बाबूराव, पिता भैया सुपा बेवा शेषराव, सुधा, अनिता, कल्पना पिता शेषराव पता निवासी भूमि स्वामी	18/2	0.567	0.567
		20/2	0.539	0.539
		28	0.081	0.081
14	गनपती वल्द सम्पत्ति, जनी पिता सम्पत्ती जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	23	0.251	0.251
		35	1.311	1.311
15	नथू नारायण व. गज्जा, कमला, बाया पिता गज्जा जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	24	0.138	0.138
		34/1	0.332	0.332
		46/2	0.498	0.498
16	नथू, फथू सितु वल्द झिप्रया चिन्धी पिता झिप्रया, पता सा.देह भूमि स्वामी	25/2	0.091	0.091
		33/6	0.557	0.557
		33/11	0.081	0.081
17	कोसु पिता जैराम चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, रमा, उमा, मीरा पिता मानिकराव, नामोराव व. जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/3	0.091	0.091
18	गन्नू वल्द गनेश कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	26	0.316	0.316
19	रैना बेवा इठोल, धनराज, बुधराव, हेमराज, साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी	27/1	0.045	0.045
		46/1	0.498	0.498
20	भीमराव वल्द केशो पता सा. देह भूमि स्वामी	27/4	0.045	0.045
		37/3	0.150	0.150
		95/1	1.023	1.023
21	बन्धु उर्फ यशवन्तराव सुरेश वल्द मानिकराव, जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/10	0.081	0.081
		40/1	0.050	0.050
22	बलवन्त वल्द सिरपत कर्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	34/2	0.465	0.465
23	गेंदराव, प्रयागराव, कम्भाराव वल्द रधूबल्लो, मालता पिता रधू पता सा. दे भूमि स्वामी	36/2	0.242	0.242
24	ललीता बेवा महादेव, तुलसीराम वल्द मूंगस्या, जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/4	0.581	0.581
25	सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/5	0.602	0.602
26	साहेबराव वल्द भूरा जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/1	0.676	0.676
		41/2	0.054	0.054
27	रैना बेवा इठोल, धनराज, बुधराव, हेमराज, साहेबराव, व. इठोल कुसुम पिता इठोल, पता सा. देह भूमि स्वामी	37/2	0.150	0.150
28	सहादेव वल्द अजाबराव, बलदेव नाबा व अजाबराव, वली भाई सहादेव जाति कुन्बी पता निवासी ग्रा भूमि स्वामी	37/4	0.667	0.667
		41/1	0.055	0.055

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
29	संतोषराव, गुनवत्तराव, मेश व. गनेश, सरस्वती बेवा पंजाबराव व. पंडरी, मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन, हर्षित व. बलवन्तराव, कोमल पिता बलवन्तराव, जाति कुन्बी पता सा.देह	38	2.540	2.135
30	आनन्दराव वल्द शंकरराव जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी	39	2.539	1.300
31	नागोराव वल्द जैराम केसू पिता जैराम, चन्द्रभागा बेवा मानिकराव, लता गुन्ता पिता मानिकराव, गिरजा बेवा किसना, गोविंदराव गणेश पिता किसना शांता पिता किसना, कमल बेवा देवराव, सहदेव बंडु मुन्नी पिता देवराव गुलाबराव तुलसीराम वल्द मूगस्या मनी, तनी सया पिता मूगस्या राजा अभिलेख वल्द गुलाबराव सुरेश, रमेश वल्द बाबूराव लीला, शीला रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव गेंदराव प्रयागराव कृष्ण व रघू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बल्लो मालता पिता रघु लाहनी बेवा दौलत द्वारका पिता दौलत मनोज आशीष पूनम पिता बलवंत कुन्बी सा. मलाजपुर मुन्नी पिता देवराव गुलाबराव, तुलसीराम व मूगस्या भनी तनी सया पिता मूगस्या राजा, अभिलेख व. गुलबराव सूरेश, रमेश व. बाबूराव लीला, शीला, रेखा पिता बाबूराव काता बेवा बाबूराव, प्रयागराव कृष्ण व रघू जाति कुन्बी पता निवासी भूमि स्वामी	42	0.506	0.506
32	भाउराव वल्द जन्यराम व. शेषराव, सुधा अनिता कल्पना पिता शेषराव कृष्णकांत व. बाबूराव, कोमल पिता बाबूराव, ललीता बेवा बाबूराव, यादेशराव व. सीताराम, जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	45	0.162	0.162
33	कुनाल व बाबाराव अनिता बेवा बाबाराव दादाराव गुलाबराव व मारोती अनुसया बेवा मारोती जाति मराठा पता सा. देह भूमि स्वामी	50/2	1.005	0.202
34	सहादेव, बंडु वल्द देवराव निर्मला पिता देवराव कमल बेवा देवराव जाति मराठा पता सा.देह भूमि स्वामी	50/4	1.334	1.334
35	लक्षण, कुण्डलिक वल्द पंजाबराव विश्वकला, उर्मिला, बीना पिता पंजाबराव, जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	55	1.874	0.364
36	गोविन्दराव वल्द किसना, शकुन्तला, विश्वकला पिता किसना पता सा.देह भूमि स्वामी	56	2.181	0.263
37	संतोषराव, गुनवत्तराव, रमेश सुरेश व. गनेश, सरस्वती बेवा गनेश, भीरा, रेखा पिता गनेश भीरा, रेखा, पिता गनेश, अंजीबाई बेवा पंडरी, पंजाबराव, अनिल वल्द पंडरी मोलाबाई बेवा बलवन्तराव नितिन, हर्षित ना बा कोमल नाया वली मां मोलाबाई बेवा बलवन्तराव, जाति कुन्बी पता सा.देह	92	1.943	0.061
		93	0.243	0.143

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा ₹	कुल अर्जित	
1		2	3	4	5
38	सुखदेव वल्द पुन्या ललिता पिता पुन्या, जैना बेवा तुन्या, रमेश सुरेश वल्द तुन्या, काशी, सुमन, बेबी निर्मला, पिता तुन्या जाति कुन्ही पता सा. देह भूमि स्वामी	94	0.688	0.141	
39	किशोर उर्फ कृष्ण वल्द सहादेव पता निवासी ग्राम सा. देह भूमि स्वामी	96/1	1.415	1.415	
		111/4	0.423	0.423	
40	प्रभिलालाई जौर्ज बाबूराव जयवत कुमार वल्द बाबूराव, पता सा. देह भूमि स्वामी	96/2	2.023	2.023	
41	प्रतापराव वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/3	0.605	0.605	
42	प्रयागराव वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/4	0.606	0.606	
43	सन्तोष उर्फ उत्तम वल्द महोदेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/5	0.607	0.607	
44	मनोज वल्द हरि, सरिता पिता हरि पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/7	1.417	1.417	
		111/3	0.421	0.421	
45	राजु वल्द सहादेव, जाति कुन्ही पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/8	1.420	1.42	
		111/2	0.419	0.318	
46	लीला, माला पिता महादेव, द्वारका बेवा महादेव जया सया पिता भादू, इन्दिरा बेवा हरी बाया, प्रभा, शोभा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव, रेणुका बेवा सहादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/1	0.154	0.154	
		111/1	0.202	0.141	
47	अन्जुबाई जौरे भीमराव, पता सा. देह भूमि स्वामी	97/2	0.809	0.809	
		98/3	0.652	0.652	
48	राधिका जाजे भीमराव पता सा. देह भूमि स्वामी	97/3	0.809	0.809	
49	डोमा वल्द नारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	98/1	0.648	0.648	
50	सया पिता कुशना पता सा. देह भूमि स्वामी	98/2	0.405	0.405	
		113	2.048	1.048	
51	बुधराव वल्द नागोराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98/4	0.646	0.646	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा	कुल अजित
		2 3	4	5
52	नया बेवा गोविन्दराव जाति कुन्ही पता सा.देह भूमि स्वामी	99/1	1.220	1.220
		100/1	1.193	1.193
		102/1	0.437	0.437
		104/1	0.603	0.603
		110/1	1.242	1.242
		112/1	1.165	0.202
53	चन्द्रेश वल्द गोविन्दराव कुन्ही पता सा.देह भूमि स्वामी	99/2	0.610	0.610
		100/2	0.596	0.596
		102/2	0.218	0.218
		104/2	0.301	0.301
		110/2	0.622	0.622
54	कृष्णराव वल्द महादेव कुन्ही पता सा.देह भूमि स्वामी	96/6	0.608	0.608
		99/3	0.610	0.610
		100/3	0.597	0.597
		102/3	0.219	0.219
		104/3	0.302	0.302
		110/3	0.621	0.321
55	बलवन्त, उर्त्तम, कृष्णा प्रयाण, प्रताप वल्द महादेव लीला माला पिता महादेव द्वारका बेवा महादेव राजू कृष्णा वल्द महादेव भनोज वल्द हरि पता सा. देह भूमि स्वामी सरिता पिता हरि इदिरा बेवा हरि बाया, प्रगता योगा, सुधा संगीता, कल्पना पिता सहादेव रेणुका बेवा सहादेव शरद छुट्टदन वल्द पंजाब कंचना रंजना पिता पंजाब लीला, माला पिता महादेव द्वारका बेवा महादेव राजू, कृष्णा वल्द महादेव भनोज वल्द हरि जाति कुन्ही पता निवासी भूमि स्वामी	103	0.753	0.753
56	बाबू वल्द डोमा कुन्ही पता सा.देह भूमि स्वामी	105	0.498	0.498
		106	0.749	0.749
57	रामकली बेवा रामचन्द्र अजावराव साहेबराव, पंजाबराव सुभाष वल्द रामचन्द्र, सुरीला पिता रामचन्द्र पता सा.देह भूमि स्वामी	107	0.939	0.939
		108	0.571	0.571
58	मालता जो संतोष कुन्ही पता सा. लिहदा भूमि स्वामी	109	1.951	1.951
59	पार्वती बेवा गणपति, आकोशराव, शंखराव गोदराव, कृष्णराव पिता गणपती शांता, रेखा पिता गणपती जाति कुन्ही पता निवासी भूमि स्वामी	114/1	0.451	0.451
		114/3	0.455	0.455
60	संतोष वल्द रामजी जाति कुन्ही पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114/2	0.453	0.453
		122/2	0.202	0.202
		122/3	0.101	0.101
61	रामराव वल्द गनपतराव डेवी पिता पता सा.देह भूमि स्वामी	121	1.655	1.331
62	आकोशराव वल्द बाबूराव गेंदराव कृष्णा वल्द गणपती शांता, रेखा पिता गणपती शांता, रेखा पिता गणपती जाति कुन्ही पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/1	0.948	0.948
63	डोमा वल्द नागोराव जाति मराठा पता सा.देह भूमि स्वामी	122/4	0.202	0.202
		122/5	0.202	0.202
	योग		88.776	68.609

1— चूके लिहदा लघु जलाशय हेतु वितरद्वय व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2— भूमि का नवशा (लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कैलेटर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुभति के बिना कोई संव्याहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्टंगमन सृजित नहीं करेगा।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 32 अ-82-वर्ष-17-18- मौजा लिहदा-4148.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकमा लगभग क्षेत्रफल(हेमें)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	लिहदा	113.728	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	लिहदा लघु जलाशय

#### अनुसूची - 2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकमा हेठो	कुल अर्जित रकमा हे.
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव व भीमराव जाति कुन्ही सा. देह भूमि	54 / 8 89 / 4	0.267 0.445	0.167 0.060
2	रामकृष्णा व रावजी सा.देह भूमि स्वामी	87	0.546	0.546
3	आनंदराव उर्फ सुरेश वल्द चिन्हु जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	90 / 8 90 / 1 442 / 2 443 / 2 443 / 5 455 / 1	0.276 0.224 0.154 0.304 0.086 0.580	0.276 0.224 0.154 0.304 0.086 0.580
4	रमेश वल्द चिन्हु जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	90 / 2 90 / 7 442 / 1 443 / 2 443 / 4 455 / 2	0.297 0.453 0.155 0.305 0.085 0.541	0.297 0.453 0.155 0.305 0.085 0.541

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०	
1		2	3	4	5
5	भागरती बेवा काशीराम, प्रकाश सुभाष, कैलाश वल्द काशीराम इन्दिरा, सुनिता बाली काशी पुन्जी गुन्ता मालता ललीता पिता काशीराम जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	90 / 3	0.269	0.200	
6	उत्तमराव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	90 / 4	0.335	0.150	
		90 / 6	0.178	0.178	
7	हेमराज वल्द किसना जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	90 / 5	0.380	0.380	
		91 / 8	0.360	0.060	
		456 / 1	0.575	0.575	
8	नत्थू वल्द हिरु सा.देह भूमि स्वामी	92 / 1	2.175	1.000	
		143	2.797	2.797	
		145	0.324	0.324	
9	शान्ता जौ सदाराम सा.देह भूमि स्वामी	92 / 2	0.081	0.041	
		146	0.486	0.243	
10	सुभाष वल्द गोन्दया जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	94 / 1	1.134	1.134	
11	सहादेव वल्द राधो सा.देह भूमि स्वामी	94 / 2	4.767	4.160	
12	अजाबराव वल्द संतोषराव जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	94 / 3	1.011	1.011	
13	राजेश वल्द महादेव कोल्ही मकू पिता महादेव तानी बेवा महादेव पता साणदेह भूमि स्वामी लहेजा बेवा सहादेव बाबूराव सा.देह भूमि स्वामी	96	0.077	0.039	
		99	2.205	0.445	
14	विश्वनाथ वल्द श्यामराव जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	108 / 2	0.372	0.186	
15	परसराम वल्द बाबूराव जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	108 / 3	0.971	0.081	
		108 / 4	0.790	0.141	
16	पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्जी सा.देह भूमि स्वामी	110 / 2	0.345	0.345	
		116 / 6	0.109	0.109	
17	गंगाराम वल्द मारोती सा.देह भूमि स्वामी	116 / 2	0.214	0.214	
		110 / 4	0.247	0.247	
		114 / 2	0.053	0.053	
		116 / 5	0.121	0.121	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेठो	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	सहादेव, सदाराम वल्द गामा सा.देह भूमि स्वामी	149 / 1	0.089	0.041
19	मन्याव शिवराम सा.देह भूमि स्वामी	406	0.971	0.141
20	मानिकराव वल्द बाबूराव जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	144	0.713	0.713
21	मितूव, मारोती सा.देह भूमि स्वामी	41	0.109	0.109
22	हरिशंकर, सुखदेव वल्द महादेव, सिञ्चु उर्फ इन्दु बाला पिता महादेव नथू वल्द नागो सा.देह भूमि स्वामी	147	0.906	0.800
23	विजय व गुलाब सा.देह भूमि स्वामी	162	1.870	0.101
24	भगवन्तराव वल्द अनन्दा इंठाबा आनन्दा दुर्गा पिता अनन्दा जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	163 417	1.012 0.202	0.303 0.041
25	रामकृष्ण वल्द माधोराव सा.देह भूमि स्वामी	164 / 2 415	0.202 0.315	0.202 0.315
26	गुलाबराव, गेंदराव वण गना सा.देह भूमि स्वामी	112 113 115 117	0.923 0.538 1.724 1.085	0.923 0.538 1.724 1.085
27	तानी बेवा गनपति जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	116 / 8 116 / 1	0.316 0.316	0.316 0.316
28	संतोष वल्द बारल्या जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	135 / 2	1.085	1.085
29	कोडया व बारल्या जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	135 / 1	1.412	1.412
30	भूरा वल्द शिवराम जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	131 132 133 / 2	1.922 1.841 0.081	1.922 1.841 0.081
31	ज्ञानराव, बाबूराव वल्द नथ्या सुशीला चंद्रकला पिता नथ्या जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	130 133 / 1	2.493 1.574	2.493 1.574
32	तानी बेवा गनपति जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	129 / 1	0.950	0.950

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेठो	कुल अर्जित रकबा हे.	
1		2	3	4	5
33	पाण्डूरंग व मारोती मनी पिता सोनया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	129 / 2	0.204	0.204	
		116 / 3	0.211	0.211	
		111 / 2	0.280	0.280	
34	गंगाधर वल्द मारोती जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	129 / 3	0.398	0.398	
35	लिलाझर वल्द मारोती	129 / 4	0.297	0.297	
		116 / 7	0.109	0.109	
		116 / 4	0.210	0.210	
		129 / 6	0.053	0.053	
36	अजाबराव वल्द सीताराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	128 / 5	2.008	0.081	
37	दयाराम वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	128 / 7	0.434	0.041	
38	यादोराव वल्द गेन्दु कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	128 / 11	0.271	0.271	
39	माधोराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	128 / 10	0.263	0.240	
40	भीमराव वल्द गेन्दु जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	128 / 9	0.271	0.135	
41	जगन्नाथ, लुंगा सा.देह भूमि स्वामी	136	3.472	3.270	
42	प्रकाश, सुभाष कैलाश वल्द काशीराम भागरती बेवा काशीराम पुंजी, गुन्ता मालता, ललीता, इन्द्रा, सुनिता बाली पिता काशीराम व मनाजी जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	140	2.237	2.237	
		139	1.461	1.097	
43	कमला जौ रघुनाथ सा.देह भूमि स्वामी	141 / 4	0.270	0.270	
44	सिंचु जौ काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	141 / 3	0.405	0.405	
45	सुरेश व गेन्दुअंजीरा, हिरा पिता गेन्दा सा.देह भूमि स्वामी	141 / 2	0.134	0.134	
46	रघुनाथ, काशीनाथ व गना सा.देह भूमि स्वामी	141 / 1	1.700	1.700	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
47	तुरसी बेवा गंगाराम, धनराज वल्द गंगाराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	149 / 2	0.089	0.061
48	देवेन्द्र कुमार व भूरा सा.देह भूमि स्वामी	150	0.174	0.008
49	गना वल्द पुञ्ज्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	407 / 1	0.445	0.445
50	कमरजा बेवा भूरा गोविन्दराव अनिल वण भूरा कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	407 / 2	0.474	0.303
		494 / 1	1.616	0.546
		463 / 2	0.599	0.599
51	कमरजा बेवा विट्ठलराव किसना, दशरथ वल्द विट्ठलराव मीना, शीला पिता विट्ठलराव जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	408	0.623	0.623
		433	0.202	0.202
		436	0.822	0.822
		438	1.182	1.182
		520	0.809	0.647
		451	0.336	0.336
		518	0.376	0.202
52	दिनेश, रामनाथ वल्द दयाराम सा.देह भूमि स्वामी	409 / 1	0.296	0.296
		409 / 2	0.149	0.149
		409 / 3	0.150	0.150
		434 / 1	0.022	0.022
		434 / 2	0.023	0.023
		435 / 1	0.497	0.497
		435 / 2	0.450	0.450
53	शांताबाई बेवा सेवाराम सीमा पिता सेवाराम वगैरह सा.देह भूमि स्वामी	410	0.113	0.113
		414	0.097	0.097
		416	0.316	0.162
54	चिन्धु बेवा यादोराव सुनील, सतीश वल्द यादोराव वगैरह सा.देह भूमि स्वामी	412	0.093	0.093
55	रामराव वल्द श्यामराव	413	0.093	0.093

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०	
1		2	3	4	5
56	चन्द्रभाग बेवा गंगाराम चन्द्रकिशोर, हरिशंकर कान्तेश्वर, सुरेश कुमार वल्द गंगाराम प्रभीला पिता गंगाराम सा.देह भूमि स्वामी	411	0.097	0.097	
57	नागोराव वल्द मल्लू जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	431	1.158	1.000	
58	दिनेश, प्रदीप वल्द सोनबा कौसु, सुमित्रा पिता सोनबा सोनबा वल्द बकाराम जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	481 / 2	0.648	0.648	
		487	0.732	0.732	
		489 / 2	1.060	1.060	
		491 / 2	0.478	0.478	
		514 / 2	0.768	0.768	
		514 / 3	0.526	0.526	
59	रघुनाथ वल्द माध्या, कोसु, जेबती पिता माध्या, भूरा व० लक्ष्मण, सादे, महादेव व० गजमल, आनंदराव व० शिवराम, बाया, सया, पिता शिवराम, जैनू, नकोली पिता गजमल, सकु बेवा गेंदू, गजानंद व. गेंदू, बाला, जयमाला पिता गेंदू सा.देह	484	0.130	0.130	
		486	1.562	1.562	
		492	1.077	1.077	
60	तानबा वल्द भूरा जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	481 / 1	0.176	0.176	
		488 / 2	0.623	0.623	
		489 / 1	0.790	0.790	
		491 / 1	0.048	0.048	
		493 / 3	0.486	0.202	
		514 / 1	0.526	0.526	
61	चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिंधू पिता बेनी सा.देह भूमि स्वामी	457 / 2	0.849	0.849	
62	गोमा वल्द तुकाराम किसनी सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	482	0.158	0.158	
		483	0.113	0.113	
		488 / 1	0.765	0.765	
		489 / 4	0.818	0.818	
		490	1.481	1.481	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०		कुल अर्जित रकबा हे०
			2	3	4
63	अंजी बेवा जनबा वासुदेव गणपतराव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्ची	481 / 4	0.224	0.224	
		489 / 3	1.040	1.040	
64	चन्द्रभानसिंह, गम्भीरसिंह गवनसिंह वल्द भैया जाति राजपूत पता निवासी	481 / 3	0.555	0.555	
65	महादेव, सहादेव व० गजमल, शंकरराव, गेंदराव व० महादेव पता सा०देह भूमि स्वामी भागरती जौजे महोदव पता सा०देह भूमि स्वामी	480 / 2	0.581	0.581	
66	कमरजा बेवा गोविन्दराव, अनिल व० भूरा कुन्ची सा देह	480 / 1	0.162	0.162	
		476/1	0.991	0.991	
		502 / 1	0.567	0.567	
		502 / 2	0.550	0.265	
67	कमला बेवा गेंदलाल, हरिशंकर अशोक वल्द गेंदलाल निर्मला, चिन्धी सुनीता अनीता पिता गेंदलाल पता साण्डेह	478	0.364	0.364	
		479	0.526	0.526	
		429	1.416	1.113	
68	सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्ची	476 / 2	0.429	0.429	
		477	0.546	0.546	
69	संतोष वल्द वरल्या जाति कुन्ची सा.देह भूमि स्वामी	475 / 1	0.716	0.716	
70	नथु वल्द लख्या सा.देह भूमि स्वामी	474	0.567	0.567	
71	सोनी बेवा चिन्धा उर्मिला बेवा भीमराव पूर्वेश, राजु नीतश, भीमराव सा.देह भूमि स्वामी	473	0.567	0.567	
72	माधोराव, लाहनू सकू, बनी, पुनी पिता लाहनू कुडलिक, रमेश नथ्या वल्द झागो गया पिता झागो पता सा०देह	472	0.450	0.450	
73	तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्ची	462 / 4	0.400	0.400	
74	मिट्ठू वल्द सखाराम कौसू पिता सखाराम जाति कुन्ची	469 / 2	0.150	0.150	
75	गोविन्दराव यादोराव वल्द दौलत, यशोदाबाईवंदनाबाई पिता दौलत जाति कुन्ची	441 / 1	0.105	0.105	
		441 / 2	0.105	0.105	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे0	कुल अर्जित रकबा हे.	
1		2	3	4	5
76	दौलत वल्द मारोती	440	0.571	0.479	
77	पारवती बेवा लक्ष्मण, सिंधू कमला पिता लक्ष्मण जाति कुन्डी	439	0.761	0.761	
		452	0.214	0.214	
		432	0.850	0.850	
78	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्डी	443 / 1	0.550	0.550	
		442 / 3	0.310	0.210	
79	रमेश वल्द चिन्हू जाति कुन्डी	442 / 1	0.155	0.155	
		443 / 3	0.305	0.305	
		443 / 4	0.085	0.085	
80	तृष्णि पति किशोर कुमार जाति बढ़ई पता निवासी	445 / 2	0.405	0.405	
81	नागोराव वल्द मल्लू भीरु चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्डी	445 / 1	0.999	0.999	
82	तानी बेवा महोदेव सन्तोषी, मरदरिया पिता महादेव पता साणदेह भूमि स्वामी राजेश नाण्डाण महादेव वली मां तानी अजा बेवा महादेव, बाबूराव वल्द सहादेव पता सा.देह	444 / 3	0.243	0.243	
83	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्डी पता निवासी	443 / 6	0.171	0.171	
84	मीरा, चन्द्रकला पिता मल्लू जाति कुन्डी	444 / 1	0.157	0.157	
85	गोविन्दराव, यादोराव वल्द दौलत यशादोबाई , वन्दना बाई पिता दौलत जाति कुन्डी सा० देह	447 / 1	0.031	0.031	
		453 / 1	0.099	0.099	
		453 / 2	0.099	0.099	
86	दौलत वल्द मारोती पता सा०देह	450 / 1	0.072	0.072	
87	गोविन्दराव, यादोराव वल्द दौलत यशादोबाई वन्दना बाई पिता दौलत जाति कुन्डी सा देह	447 / 2	0.030	0.030	
		450 / 2	0.185	0.185	
		450 / 3	0.184	0.184	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०	
1		2	3	4	5
88	कृष्णराव वल्द बोन्दरराया जाति कुन्बी	463 / 1	0.432	0.432	
89	यादोराव, गोविन्दराव वल्द दौलत सा० देह	458	1.299	1.299	
90	दौलत वल्द मारोती, महादेव, सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी	459 / 1	0.691	0.691	
91	महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी	459 / 2	0.345	0.345	
92	तुकाराम वल्द इठोबा जाति कुन्बी	459 / 3	0.344	0.344	
93	बेनी वल्द भड़ाजी पता सा.देह	435 / 3	0.081	0.081	
94	वासुदेव वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी	456 / 2	0.550	0.550	
95	मंजी बेवा अमृतराव चिन्धु सुरेश वल्द अमृतराव , चन्द्रकला पंचफुला उर्मिला पिता अमृतराव तानी, सोनी, काल्ही पिता धुन्धराव, आनंदा बेवा धुन्धराव , भागरती बेवा पंजाबराव, सरस्वती बेवा अर्जुन नस्थ्या वासुदेव, गणपति वा० अर्जुन देवकू पिता अर्जुन बला, शिवकांत, सिन्धु चिन्धु पिता पंजाबराव अनिता, सुनिता ना बा पिता पंजाबराव वली माँ भागरती सा० देह जाति कुन्बी सा० देह	457 / 1	1.304	1.304	
96	चन्द्रभागा बेवा बेनी, राजेन्द्र वल्द बेनी सिन्धु पिता बेनी पता निवासी	457 / 2	0.849	0.849	
97	सरस्वती जौजे अर्जुन पता सा. देह	457 / 3	0.809	0.809	
98	महादेव वल्द इठोबा जाति कुन्बी	462 / 3	0.401	0.401	
99	मिट्टू वल्द सखाराम कोसू पिता सखाराम	460 / 1	0.353	0.353	
100	यूनू बेवा गेन्दू राम किसना वल्द गेन्दू प्रवीण धन्नू वल्द गेन्दू निर्मला पिता गेन्दू जाति कुन्बी	460 / 2 469 / 1 461 / 2	0.375 0.158 0.368	0.375 0.158 0.368	
101	महादेव, सहादेव व.गजमल सा.देह भूमि स्वामी	463 / 4	0.599	0.599	
102	उमेश वल्द गोविन्दराव जाति कुन्बी	463 / 5	0.405	0.405	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
103	माधोराव लाहनू सकू बनी पुनी पिता लाहनू कुड़लिक रमेश नथ्या व० झागो गया पिता झागो	464	0.834	0.834
104	सोनी बेवा चिन्धा उर्मिला बेवा भीमराव पूर्वेश, राजू नीतेश व० भीमराव सा०देह	465	0.559	0.559
105	प्रभिला जौजे आनंदराव जाति कुन्बी	466	0.773	0.773
106	कमरजी बेवा विट्ठल, किसना दशरथ व० विट्ठल, भीना, शीला पिता विट्ठल जाति कुन्बी सा देह	467	0.531	0.531
107	साहेबराव वल्द मारोती सिया पिता मारोती सा.देह भूमि स्वामी	430	1.218	0.283
108	विमा देवी बेवा बाबूराव विजय प्रवीण अजय पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता निवासी	493 / 2	0.607	0.405
109	सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी	494 / 2	0.808	0.041
110	गोमा वल्द तुकाराम किसना सोनी पिता तुकाराम जाति कुन्बी	514 / 4	0.862	0.862
111	अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपत राव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी	493 / 1	0.259	0.259
112	भूरा वल्द दाजिबा पता साणदेह	515	0.575	0.575
113	अंजी बेवा जानबा वासुदेव गणपत राव सम्पत वल्द जानबा कुसुम पिता जानबा जाति कुन्बी	514 / 5	0.446	0.446
114	कमरजा बेवा ईठोल, किसना, दशरथ व० ईठोल, भीना संतरी, पिता ईठोल हेमराज, फत्तू मनचित गनेश मनोहर व. गेंदू रेखा पिता अनानंदराव मैना बेवा गेंदू जाति कुन्बी सा देह	516	0.579	0.579
115	भूरा व बाजीराव पता सा०देह	509	0.563	0.462
116	यूनू बेवा लक्ष्मण सरू गया शकुन्तला पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी	511 / 1	0.093	0.093
117	गुलाबराव वल्द भीमराव जाति कुन्बी पता निवासी	511 / 2	0.040	0.040

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०	
1		2	3	4	5
118	भगवान वल्द मारोती पता साण्डेह	513	1.060	1.000	
		510	0.158	0.158	
119	शंकराव वल्द मोतीराम नीलकंठराव, गुलाबराव वल्द जैराम वगैरह	512	0.162	0.162	
120	सहादेव, सदाराम वल्द गामाजी पिंखी कासी, पिता गमाजी गर्या व० पुन्ज्या धनराज व० गंगाराम हेमलता पुष्पलता पिता गंगाराम हंसी उर्फ काशी पिता गंगाराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	503	0.554	0.554	
121	मधुकर वल्द भीमराव	511 /3	0.047	0.047	
122	माध्या वल्द सरावन, महादेव, सहादेव व० गजमल, सहादेव, सदाराम, व० गमाजी, पिंखी, काशी पिता गमाजी जैनू नावोली, पिता गजमल इठोल बोन्दरया व. आत्माराम रामजी, बया पिता आत्माराम गिरजा बेवा दादू सुमन, कुसमु कला पिता दादू सुरेखा ना बा पिता दादू वली मां गिरजा तुरमी बेवा गंगाराम हन्सी उर्फ काशी पिता गंगाराम धनराज ना बा गंगाराम हेमलता पुष्पलता ना बा पिता गंगाराम वली मां तुरमी सा० देह भूमिस्वामी	504	0.643	0.121	
123	सहादेव वल्द गजमल जाति कुन्बी	508 /3	0.714	0.303	
124	रघुनाथ वल्द माध्या, कोसू जेबती पिता माध्या, कमरजा बेवा भूरा गोविंदराव अनिल व० भूरा सा० देह भूमिस्वामी	521	0.943	0.445	
		463 /3	0.599	0.599	
125	चैतराम वल्द बाजेराव	148 /1	0.528	0.528	
126	कमलेश वल्द चैत्या	148 /2	0.524	0.524	
127	गोपीका वल्द मारोती	152	1.376	1.376	
128	बलवन्त वल्द बेनी	468	1.538	1.538	
129	मिट्ठू वल्द सकाराम	461 /1	0.368	0.368	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे0	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
130	अशोक, भूरा बल्द गणपती	111 / 1	0.279	0.279
		110 / 1	0.608	0.608
		110 / 3	0.370	0.370
		114 / 1	0.052	0.052
			133.666	113.728

1— चूंकि लिहदा जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 20 अ-82-17-18-4176

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की सम्भावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30- सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	पचधार	5.603	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पारसरोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2  
**( प्रभावित धारको की सूची )**

(पारसंडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम पचासर की निजी भूमि प्रभावित होने से)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा
1	2	3	4	5
1	कैलाश व मुन्नालाल, लवलेश उर्फ लवकेश, मुकेश व0 मुन्नालाल, सुनिता रोशनी उर्फ रजनी व0 मुन्नालाल बेवी उर्फ संतरी पिता श्रीराम जाति किराड सा देह	256/6	1.068	0.008
2	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड सा देह	296/4	1.335	1.24
3	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड सा देह	297/6	0.648	0.085
4	भागचंद नामदेव व. टीका मिठठो साकरो बुन्दन पिता टिका कौशल बेवा शान्तीलाल राजेश मुकेश किरण संगीता मंजू पिता शांतीलाल जाति मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	275/2 290/1	0.162 1.239	0.162 1.239
5	शंकर व. बग्या शिवकला पिता बग्या जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	296/7	0.283	0.283
6	महादेव व. बग्या शिवकला पिता बग्या जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	296/8 297/1	0.636 0.405	0.636 0.405
7	रमेश, दिलिप, दिनेश सुरेश रवि अनील सुनील पिता पुरणलाल करुणसिंहु लक्ष्मीनारायण, भवानीशंकर राजाराम व. शिवकिशोर अरुणा पिता शिवकिशोर जाति कलार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	272/1	0.516	0.516
8	सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचन्द रामकला पिता अमरचंद, कमलू बेवा उदेराम चटर दिपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेश अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेश जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	294/1	2.572	0.750
9	दिलिप व. रामचरण जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	256/11	0.179	0.179
10	रामदयाल व. श्रीराम देवकी पिता श्रीराम जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	262/8	0.090	0.090
11	सुरजलाल व. गेंदू भूता उर्फ शास्त्री पिता गेंदू पति किशोरी अंजीरा पिता गेंदू कला बेवा अमरलाल इश्वरी उर्फ प्रभिला कविता पिता अमरलाल जाति किराड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	260/1	0.648	0.010
	कुलयोग	13	9.781	5.603

1— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 21 अ-82-17-18-4215.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हैरोमें)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
1	2	3	4	5	6	
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	नांदकुड़ी	39.274	कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसडोह उद्वह परियोजना	मध्यम सिंचाई

### अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम नांदकुड़ी की निजी भूमि प्रभावित होने से		खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	3	4	5
1	सुकचंद तिलक व दमझू सुगंती, धुरवंती, शांता पिता दमझू पता सा.देह भूमि स्वामी	37/2	1.092	1.092
		37/4	0.121	0.121
		38/1	0.202	0.202
		38/3	0.447	0.447
		51	0.275	0.275
		54/1	0.632	0.632
		54/3	0.291	0.291
2	रामकिशन, मनोहर, जवाहर, चन्द्रभान, रामप्यारी, अनुस्या, निर्मला व. फत्या श्रीराम किशोरी हरीराम, दीनू व. नथू अंजीरा, प्रमिला, पूरभा पिता नथू पूंजी बेवा प्यारेलाल, सूदन अभिराम इमला, लीला, उर्मिला रमल, शुशीकला, मंगली पिता अंछाराम सावजी व0 परसराम, सुनिता बेवा गुलाबराव, शाता बेवा विजय शंकर, झानकलाल व0 विजयशंकर, मीना उमा पिता विजयशंकर, सुखदेव हेमराज, धनराज उर्फ सिटटी, विशनु किसनलाल, मीरा, सुगनती रामरती फुलवंती कलावन्ती निर्मला पिता तुलसीराम, भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	39	1.501	1.501
		40	0.267	0.267
		44	1.594	1.594
		47	4.067	2.220
		48	7.448	7.448
		63	4.117	3.817
		176/1	4.137	0.100
		264	0.162	0.162
		266	1.668	1.378

3	रामकिशन, मनोहर, जवाहरलाल चन्द्रभान व0 फत्या रामप्यारी, अनुसुया, निर्मला पिता फत्या श्रीराम किशोरी हरिराम, दीनू व. नथू अंजीरा, प्रमिला, पूर्ण्या पिता नथू पता सा. देह भूमि स्वामी	262	0.146	0.146
		263	0.202	0.202
		265	0.162	0.162
		267	0.129	0.129
		281/1	0.399	0.399
4	परसराम व गोन्दाजी	280	0.287	0.287
		281/5	0.204	0.204
5	भिल्लू तुलाराम व रतन मुनीराज गुड्डू व लखन रीता पिता लखन किराड सा0देह भूमिस्वामी	291/3	0.189	0.189
		288	0.162	0.162
7	लक्षण, धनश्याम व. भैया, केवल, अनोपी मंगली पिता भैया सेंगो बे0 चेपा, चन्द्रभान दिलिप व0 चेपा घुडो पिता चेपा जाति मेहरा पता सा.देह भूमि स्वामी	296/1	0.122	0.122
		308/1	1.525	1.525
		312/1	0.104	0.104
		313/1	0.040	0.040
		296/3	0.122	0.122
8	सूरतलाल पिता बलीराम जाति किराड सा0 देह	308/3	0.079	0.079
		329/2	0.433	0.303
10	शोभाराम कलीराम व. अमरलाल किराड सा. देह	37/1	0.607	0.607
		37/3	1.531	1.531
		38/2	0.299	0.299
		49	0.571	0.571
		54/2	0.291	0.291
11	सूखचंद व0 तुरसी पता सा0देह भूमिस्वामी	15	0.417	0.417
		22	0.943	0.943
		35	0.336	0.336
12	चंद्रकिशोर व0 रामदयाल किराड सा0 मांडवी	268	1.267	1.217
13	सदाराम व0 रामलाल किराड सा0देह	300	0.065	0.065
		302	0.126	0.126
		310/2	0.405	0.405
		311	0.923	0.923
14	भजनलाल नामदेव बलदेव व0 साहेबलाल विमला पिता साहेबलाल नंदकिशोर, सुदामा, सेवाराम व0 रामरतन तुलसु बेवा रामरतन लिला सुशिला पिता रामरतन हेमू हेमचंद व0 पुरुषोत्तम, कमल, रमल सुशिला पिता पुरुषोत्तम जाति किराड सा0 देह	6	0.061	0.061

15	परसराम बकाराम व0 गोदाजी तानी पिता गोदाजी सोमती बेवा फुलचंद रेखा, लली, बाली पिता फुलचंद ममता बेवा सुरेश शहुल दिटू व0 सुरेश रानू पिता सूरेश जाति किराड साठदेह	281/8	0.271	0.271	
16	खुशरंग मदन कृष्णा जितेन्द्र व0 भदया सेमती बेवा किसन ग्यारसी बेवा किसनू जाति किराड पता निं० देवडोगरी	61/1	0.540	0.540	
17	मंगली पिता तेजी जाति किराड पता निं० ग्राम भूमिस्वामी	33 61/3	0.336 0.185	0.336 0.185	
18	माखन मधुसदन ओमकार केदार व0 मल्या सोमती शाता प्रभिला पिता मल्या मालती बेवा भदया अरविद व0 भदया पुष्पा लल्ली पिता भदया साठदेह	270/1 310/1	0.073 0.701	0.073 0.073	
19	गनू धनराज वसंत व0 चैतराम सकुन द्वारका पिता चैतराम जाति मेहरा साठदेह	290 293	0.546 0.449	0.546 0.049	
20	कमला बेवा करकया हरी मधु मगन व0 करकया इन्द्रा चंद्रा सुमित्रा पिता करकया जाति किराड पता निं० ग्राम भूमिस्वामी	294 295 309/2	0.328 0.283 0.705	0.328 0.283 0.705	
21	सरोपी बेवा बलीराम संतोष बिनवंतराव सूरतलाल व0 बलीराम चैती पिता बलीराम जाति किराड	299 303/1	0.295 0.784	0.295 0.784	
22	बटन बेवा डोमा भजनलाल नामदेव बलदेव व0 साहेबलाल विमला पिता साहेबलाल तुलसु बेवा रामरतन नंदकिशोर सुदामा सेवाराम व0 रामरतन लीला सुशिला पिता रामरतन हेम हेमचंद व0 पुरुषोत्तम कमल, रमल सुशिला पिता पुरुषोत्तम साठदेह	314	0.664	0.070	
23	फत्या व0 शिवजी साठदेह भूमिस्वामी	53/1	0.601	0.040	
24	रामदीन व0 मोहन साठदेह भूमिस्वामी	76	1.206	0.040	
25	चैती जौजे मिश्री किराड साठदेह भूमिस्वामी	308/4	0.130	0.130	
26	सदाराम व0 रामलाल सरोपी बेवा बलीराम संतोष बिनवंतराव सूरतलाल व0 बलीराम चैती पिता बलीराम घनश्याम व. मलूकचंद बटन बेवा डोमा सोमदेव व0 कली सुनिता राधिका फूलवंती पिता कली माखन मधुसूदन ओमकार केदार व0 मल्या सोमती शाता प्रभिला पिता मल्या मालती बेवा भदया अरविद व0 भदया पुष्पा लल्ली पिता भदया, भद्रा हेमराज भारत व0 अंच्छाराम अनिता रामप्यारी पिता अंच्छाराम, रैना पिता दसरु जाति किराड साठदेह भूमिस्वामी	297	0.324	0.324	
27	जीवनदास धर्मराज व0 भूता उर्फ आशाराम शोभा रेखा प्रेमा पिता भूता उर्फ आशाराम प्रफुल्ल व0 मुकेश आरती पिता मुकेश साठदेह	275/2	0.081	0.081	
28	रुखमी बेवा अमरलाल कालूराम शोभाराम व0 अमरलाल दुर्गा रामकली पिता अमरलाल किराड साठ देह	67	0.494	0.020	
	कुलयोग :-	66	49.164	39.274	

1— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 23 अ-82-17-18-4216.

बैतूल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी	अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	बोरगांव	10.053	कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग जिला बैतूल	जल मुलताई	पारसडोह उद्वहन परियोजना मध्यम सिंचाई

### अनुसूची - 2 (प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम -	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	तिलक व. बली बटनी व. बिरजू नामदेव सदा, सकू व. बिरजू लाहो, गुन्ता, मुन्नी पिता बिरजू तुन्नु व. आत्माराम नरबदी शांता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम जाति किराड़ पता सा.देह भूमि स्वामी रामदयाल रामदीन वासुदेव व० आत्माराम इमला हैवती पिता आत्माराम गजरा बेवा आत्माराम सुदर्शन व० गिरधर गोदावरी पिता गिरधर भूमिस्वामी भू राजस्व	12	0.615	0.062
		14/1	0.500	0.500
2	भद्रा व. मानक रामदयाल नाबा व. भद्रा वली अजी कला जौजे मानक जाति किराड़ पता सा. देवडोगरी भूमि स्वामी	25/2	0.405	0.405
3	राजेश व. श्रीलाल जाति जाति महेरा सा. देह ग्राम कोटवार सेवा खातेदार	34	2.238	1.450
4	चन्दन पिता गेन्द्रया तेली पता नि. भूमि स्वामी .	94/1	0.201	0.201

- 2 -

5	गोपीचन्द व. लालजी किराड देह भूमि स्वामी	116/1 116/3 117/2 117/3 117/4 262/2 422/2	0.206 0.332 0.188 0.185 0.185 0.006 0.453	0.126 0.332 0.188 0.185 0.185 0.006 0.100
6	किशोर, गैदराव, गुलाबराव, गणेश, मनू अन्तू व. रोन्या, रामकलि पिता रोन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	117/1	0.183	0.183
7	कलीराम, शोभाराम व. अमरलाल किराड सा. नांदकुड़ी भूमि स्वामी	119/2	0.291	0.291
8.	नंत्यू व. बालाराम, शकुन्तला जौ. सुदन किराड राजेश महेश कृष्णा करन पिता सूदन आरती संगीता सुनिता हेमलता पिता सूदन सा. देह भूमि स्वामी	119/3	0.181	0.181
9	सुदन पिता बालाराम जाति किराड सा देह निवासी ग्राम	119/7	0.056	0.056
10	गजानन दयाराम व नग्नु जाति किराड सा. देह भूमि स्वामी	149/2 149/6	1.473 0.526	0.530 0.300
11	मोतीराम अमृत उर्फ अमरलाल सुखदेव सुदामा कृष्णा व० बाबूलाल चन्द्रा पिता बाबूलाल जाति किराड सा. नांदकुड़ी	357 363	0.995 0.591	0.250 0.591
12	झापू व. हरिराम सरवन व. झापू सुन्दरलाल व. तेजी	422/1	0.976	0.200
13	किसनलाल पिता राधा, ग्यारसी पात्राबाई पिता राधा तुलसीया बेवा रामदास धनराज बबू पिता रामदास कमलती ईमला अमलती पिता रामदास राधे बेवा लुंगसी मिश्री जगत्क व० लुंगसी अनिता ललीता अन्नी संगीता पिता गबू हेमंत पिता गबू जाति किराड सा. देह भूमि स्वामी	244	0.032	0.032
14	डोभा, माखन व. धुड़ल्या, हसला बेवा धुड़ल्या किराड सा. देह भूमि स्वामी	245	0.016	0.012
15	अमरलाल व० गंगाराम जाति किराड सा.देह	250	0.012	0.012
16	रामधरण पिता किसनलाल शाती मालती सकुनबाई सुभनबाई पिता किसनलाल तुलसीया पिता सीताराम जाति किराड सा.देह	253	0.020	0.020
17	फत्या व० तेजी, किराड सा. देह, भूमि स्वामी	254	0.012	0.012
18	रमलू व. नन्हु जाति किराड सा.देह भूमि स्वामी	255	0.008	0.008
19	झनकलाल फुलचंद व० मोतीरामनाही पिता मोतीराम जाति किराड सा.देह भूमि स्वामी	260/2	0.006	0.006
20	कलसु पिता गोपीचंद जाति किराड सा देह	260/1	0.010	0.010
21	तिजिया वे. फकिरया सा. हिवरखेड, पैकी जौ. भागचन्द सा. हिवरखेड विध्या पिता अंत्या सा. मासोद राधा बेवा बैकाराम सा. मंगोना, छोटी बेवा राजेराम तेली भूमि स्वामी	263	0.028	0.028
22	गणेशी पिता कारू, मदन रामा, किशोरी, भोला वृ. कारू, अशोक व. कारू कमला, उषा पिता कारू जगदीश, जीवन, गोलू व. टन्टू सजली गुडको, माया पिता टन्टू गबू बेवा टटू भूमिस्वामी प्यारेलाल व. शमू बुधिया बेवा आशाराम सा. देह भूमि स्वामी	264	0.016	0.016
23	चिरेजी व. नंत्यू, मनू वसन्ती, सुगती पि. नंत्यू ग्यारसी बेवा गोडू गोगा पिता गोन्दू, मुन्नी सुगन, अनुसया पिता गोडू तेली सा.देह भूमि स्वामी	265	0.008	0.008

24	दमड़ी बेवा जिवत्या, संदू व. चिन्हू दूक्कू दशरथ व. नागो मैना बेवा नागो जाति तेली सा. देह भूमि स्वामी	273	0.008	0.008
25	सन्तरी पिता सरवन इमला पि. सरवन जाति किराड़ पता सा. देह भूमि स्वामी	274/1	0.012	0.012
26	पारन्या उर्फ शंकर पंजाबराव पिता लिलकवंद जाति टेली निवासी ग्राम	269/2	0.010	0.010
27	पारबती बेवा तुकाराम, साहेबराव, पंजाबराव, गुलाबराव व. तुकाराम ढोड़ी कोड़ी लीला जाति मेहरा सा.देह	277	0.020	0.020
28	सुखदेव व0 सरवन जाति मेहरा सा देह	285/2	0.008	0.008
29	चन्दूलाल व. गणपत जाति मेहरा, सा. देह भूमि स्वामी	286/2	0.005	0.005
30	गोपी बेवा नंदलाल जाति मेहरा सा.देह भूमि स्वामी	287	0.020	0.020
31	सरस्वती जौ. अमरलाल किराड़ सा. देह भूमि स्वामी	289/1	0.004	0.004
32	सदाशिव व. माध्या, नरबदी बेवा माध्या जाति किराड़ सा.देह	293/1	0.008	0.008
33	रामजी व. हरचन्द जाति किराड़ सादेह	293/2	0.008	0.008
34	बटनी बेवा सरावन, चिन्ह्या झब्बू व. सरवन, केवल, कलसिया, द्विगरो पिता सरवन मनीराम, ढोड़या व. धना किराड़ सा.देह	294	0.016	0.016
35	रामजी व. परसराम जाति किराड़ भूमि स्वामी सा. देह	85	0.146	0.146
36	भीमा किसन व लंगडा सीता पिता लंगडा रामरती पिता कुवर जाती तेली सा देह	82/3	0.016	0.016
37	शिवजी तुलजी व0 कलीराम कासी गोदावरी फगनी पिता कलीराम गुलजा बेवा अनंत्या रतन धनराज व0 अनंत्या प्रमिला शांता निर्मला पिता अनंत्या मनोहर गुंडु व0 कुजीलाल शिवलाल गुटटू व. हरी जाति किराड़ पता निं० ग्राम भूमिस्वामी बाली योगिता पिता हरी जाति किराड़ पता निवासी	84	0.146	0.146
38	डोगा माखन सीता पिता घुडल्या शिवजी व0 दशरथा तुलसीदास हरीदास पिता सुखदेव हिरा शिवरती पिता सुखदेव नंदकिशोर व. भद्रदती कमला इमला पिता मददती किराड़ सा० देह	248	0.012	0.012
39	गेंदलाल किसनलाल व0 तानूराम झापू व0 हरीराम चैती पिता हरीराम महादेव व0 बाबूलाल गजानन्द भारत सूरपवंद लक्खू व0 दसरू कमला सुगंती पिता दसरू गेंदू चैतराम व. आत्मा रूसम छोटेलाल भिल्याव. धना भिल्लू पिता हरचंद सा० देह	252	0.061	0.061
40	शान्ता बेवा अमरलाल धनराज हेमराज व. अमरलाल सैवंती रामप्यारी गीता सुनवा ललीता पिता अमरलाल पारबती बेवा गेंदलाल जीवनलाल हीरालाल प्रेमलाल पिता गेंदलाल सुगंती लुखी रामकला चंद्रकला पिता गेंदलाल जाति नाई सा देह	268	0.020	0.020
41	गीरधर व0 गजमल बारो मगली पिता गजमल संतोष राजू अनिल पिता राजबा मैना पिता राजबा जगदीश गेंदू किसन व0 गणपति सागर भूमिस्वामी घुड़ो लक्ष्मी पिता जानबा लीला निर्मला पिता गणपति जाति मेहरा सा देह	278	0.032	0.032
42	राजकुमार सुन्दरलाल व0 गेंदू पूंजी अंजनी मंजी पिता गेंदू गीता बेवा पंजाबराव दीपक व. पंजाबराव दीपीका मोनिका पिता पंजाबराव जाति मेहरा सा देह भूमिस्वामी	281/1	0.020	0.020
43	हरीराम मल्लू व0 मल्हारी पूरभा पिता मल्हारी जाति किराड़ सा देह	291	0.016	0.016

— ५ —

44	गब्बू शिवशंकर वा० जेठू रुखमनी चंद्रकला पिता जेठू जागदीश व. शेषराव जाति तेली सा देह	76	0.040	0.040
45	गोरेलाल प्यारेलाल लक्खू वा० भगूत भागवती मैना रैना पिता भगूत जाती तेली सा देह	82/1	0.012	0.012
46	किसनलाल उर्फ किसन वा० रापा जाति किराड सा देह	276	0.028	0.028
47	गजानंद चंद्रकिशोर रामकिशोर वा० लक्ष्मण मुन्ना वा० लक्ष्मण सा०देह भूमिस्वामी	284 285/1	0.024 0.020	0.024 0.020
48	तीतलाल पिता छोटेलाल हसला पिता छोटेलाल सा देह	36/1 92/2 95 390/2	0.545 0.035 0.195 0.263	0.055 0.035 0.195 0.263
49	आशाराम वा० भगूत टीपी वा० बारीकराव भन्ना बेवा किरपाराम रामकिसन व. किरपाराम उमिला प्रमिला रुखमनी सावित्री सुशिला पिता किरपाराम सा देह	302	0.041	0.041
50	उत्तम वा० साहेबलाल शंकर वा० दुल्ली जाति किराड सा देह	274/2	0.043	0.043
51	प्रमिला पिता मिक्या शेषराव वा० कौला कृष्णा वा० झापू जाति किराड सा देह	251	0.024	0.024
52	शंकर अर्जुन रमेश गणेश वा० इसना इमला पिता इसना देवेन्द्र वा० शेषराव पारबती बेवा इसना भीमा पंजाब वा० लक्ष्मण कला भूला कोल्ही अनु पिता लक्ष्मण गुलालराव अजाबराव मानिकराव वा० गोपीचंद भीरा पिता गोपीचंद सा. देह	242	0.028	0.028
53	जगदीश जोगन गोलू वा० टंडू सयजी गुडको माया पिता दुहू सा देह	445/1	0.538	0.538
54	तीलकचंद दुल्ली वा० गणपत जाति किराड सा देह	72	0.045	0.045
55	नत्थू नामदेव सूदन झानकलाल वा० वालाराम किराड सा देह	257/1	0.004	0.004
56	संभा पिता दौलत द्वारका पिता चिंध्या सायमति बेवा माधो प्रेमलाल वा० माधो द्वारकू साकरु पिता माधो अमरावती बेवा कुंजीलाल संदीप वा० कुंजीलाल - कुसुमलता रोशनी पिता कुंजीलाल सा०देह	280	0.020	0.020
57	बसंती बेवा देवचंद शेरू वा० देवचंद ललीता नाबा बली मा बसंती किराड पता निरा नादकुडी	19/3 20/1	0.573 0.571	0.573 0.571
58	उद्देशम महादेव व. छनू द्वारका बेवा कचरु रामप्रसाद व. कचरु बंदना पिता कचरु कृष्णा व. कचरु जाति मेहरा सा०देह भूमिस्वामी	288	0.016	0.016
59	भगली बेवा मोधी उद्देशम सदाराम सुरेश गजानंद व. मोधी भीरा इमला पिता मोधी मन्ना बेवा जेठू गब्बू शिवशंकर व. जेठू रुखमणी चंद्रकला अंजू पिता जेठू गजरा बेवा तात्या मनीरा बलीरा हरिराम व. तात्या मनी सुमुत्री पिता तात्या गोरेलाल प्यारेलाल लक्खू व. भगुत्या मैना रैना भगुत्या पिता भगुत्या शंकर शंभू गणपती व. बाबू बेवी गीता पिता बाबू भीमा किसन व. लगडू मुसिया पिता नंदराम सावन सकुण ढोंडी गेंदा पिता गिलु चिंध्या व. डेबू किरानी पूर्णा पिता डेबू सारजा पिता तुला चंदूलाल व. कचर्या फुलवा बेवा सोनू परसराम जगन नौखीलाल कुंजीलाल सुभाष व. सोनू रतन व. मोतू किसनलाल मिश्रीलाल व. कालूराम जाति तेली सा०देह भूमिस्वामी	271	0.020	0.020
60	जगन वा० मयाराम सा०देह भूमिस्वामी	301/3	0.002	0.002

61	सुशिला पिता दिनू साठदेह भूमिस्वामी	305/2	0.005	0.005
62	उमेश व. हरिराम जाति तेली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	82/3	0.016	0.016
63	नंदकिशोर व. छोटेलाल सा. देह भूमिस्वामी	36/4 92/3 369/1 390/1	0.532 0.033 0.010 0.263	0.055 0.033 0.010 0.263
	योग		15.488	10.053

1— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सुजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 25 अ-82-17-18-4218

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	कुटखेडी	4.191	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसंडोह उद्योग परियोजना मध्यम सिंचाई

**अनुसंधी - 2**  
**( प्रभावित धारको की सूची )**

पारसङ्गोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम कुटखेडी की निजी भूमि प्रभावित होने से		खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अंजित की जाने वाली भूमि का रकमा
क्र.	कृषक भूमि स्वामी का नाम			
1	2	3	4	5
1	रघुनाथ व. जन्या कुन्ही सा. देह	212/3	2.711	0.160
		212/7	0.446	0.190
		215/4	0.070	0.070
2	लता जौ. मनोहर जाति कुन्ही सा० देह	141/3	0.253	0.253
3	मंजी बेवा शयमू रामराव शेखराव देवराव व० शयमू पंजी जानता गुन्ता पिता शयमू जाति कुन्ही सा० पौनी भूमि स्वामी	236/2	0.243	0.100
		212/5	3.540	1.200
4	गुन्ता बेवा दयाराम, हेमत व० दयाराम लीला निर्मला आशा पिता दयाराम सुलका पिता आत्माराम नवल किंगोर गोकुल मनोहर गुड्डू व० फुस्त्या कुसुम शकुन सुमन पिता फुस्त्या जाति किराड सा० पौनी भूमि स्वामी	104/5	1.604	0.080
5	पारबती बेवा मिट्टू सनम बाबाराव व० मिट्टू मित्रा पिता मिट्टू कमला जया सया पूर्णा पिता पूर्णा जाति कुन्ही सा० पौनी भूमि स्वामी	128/3	0.307	0.140
		136/4	0.129	0.109
6	आत्माराम गेंदू तापी चंद्रकला पिता गेंदू वामन व० भैयाजी गुनी रेणुका रिंधू पिता भैयाजी पता सा०देह भूमि स्वामी	225	1.234	0.300
7	शावण व० गंगाराम कौसू उर्फ सुशिला काशी उर्फ कासू भागू पिता गंगाराम पता नि० ग्राम सं०देह भूमि स्वामी	233/4	0.251	0.251
8	चिंधी पिता संपत्ति जाति कुन्ही सा० पौनी भूमि स्वामी	212/6	0.668	0.041
		215/3	0.922	0.020
		236/3	0.284	0.081
9	सोनी बेवा गरीब्या, नारायण रामजी व० गरीब्या ठगू पिता गरीब्या अजाबराव पंजाबराव साहबराव वामनराव व० बाजेशाव कासाबाई पिता बाजेशाव जाति कुन्ही पता नि० पौनी भूमि स्वामी	204/1	1.436	0.856
10	जयवंती सकु पिता भूरा गविंदा बबलू कैलाश व० संतोषराव मीरा अनिता सुनिता पिता संतोषराव पता सा० देह भूमि स्वामी	149	1.538	0.070
11	रामदयाल व० आत्माराम सुलका उर्फ नान्ही पिता आत्माराम नवलकिंशोर गोकुल मनोहर गुड्डू उर्फ अशोक व० फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम, कुसुम शकुन उर्फ सकुन्तला सुमन उर्फ सुनीता पिता फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम जाति किराड सा० पौनी भूमि स्वामी	104/7	0.572	0.140
12	भैया वा राधा चिंधीबाई बेवा रामा विष्णु व. रामा काशी पिता रामा चंद्रकला बेवा, देवराव लौकीश ना.वा. व. देवराव ऐश्वर्या ना.वा. पिता देवराव वली मा चंद्रकला जाति कुन्ही सा० पौनी भूमि स्वामी	104/11	0.480	0.130
	महायोग	18	16.688	4.191

1— भूमि का नवशा (स्थान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (ए) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

2— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने-के समय प्रारंभिक अधिसूचना में यिनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगन सृजित नहीं करेगा।

3— समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शांक निश्चित सरकार

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 01 अ-82-17-18-4206

सागर, दिनांक 21 मार्च 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य, शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर को खतौला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सेंदवारा जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। तथा परियोजना के निर्माण से करीब 630 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आषय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

**1) परियोजना का नाम :** खतौला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सेंदवारा जलाशय निर्माण हेतु

**2) भूमि का विवरण :**

1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	देवरी
3.	ग्राम	:	सेंदवारा
4.	पह.ह.न.	:	40
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :		40.49 हेक्टेयर

## ::अनुसूची-1::

सं. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भरोसे वल्द दसू महारानी बेवा गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	4	0.67	0.67	
		भूमिस्वामी	56	1.81	1.81	
		भूमिस्वामी	57	0.44	0.44	
		भूमिस्वामी	60	0.71	0.71	

2	खेतसींग वल्द सूरतसींग वल्द सूरतसींग, उदयसींग, औंकारसींग, चदनसींग, डेलनसींग, माधोसींग, पिस. वलवंतसींग, कृष्णबाई, गन्तोबाई पुत्री वलवंतसींग, द्रोपदीबाई, बेवा वलवन्त सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	7/1	1.81	0.78
3	पप्पू खान वल्द नजीर खान साकिन पथरिया जाट, राजकुमार वल्द रामसेवक साकिन खैजरा, सुनील पिता अजुद्धी साकिन पथरिया तहसील मालथौन	भूमि स्वामी	7/2	3.61	
4	मानसींग पिता सूरतसींग सा. देह	भूमिस्वामी	46	0.62	0.14
5	गनेश वल्द सूरतसींग गौड़ सा. देह	भूमिस्वामी	53/1	2.47	
6	श्री देव जानकरी रमणजी मंदिर, रामसींग उत्तमसींग पिता श्रीसींग साकिन पाटई	भूमिस्वामी	53/2	2.00	3.30
7	बैजनाथ पिता जयसींग सा. देह	भूमिस्वामी	55/1	0.99	0.99
8	भगवानदास पिता जयसींग सा. देह	भूमिस्वामी	55/2	0.99	0.99
9	हीराबाई, ममाबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	55/3	0.99	0.99
10	टीकाराम पिता लक्ष्मण सींग गौड़ साकन देह	भूमिस्वामी	58	1.70	1.70
11	कुदा वल्द निजानबाई, पार्वती पुत्री निजान, भगुन्ते वल्द जयसींग, भरोसे,, वल्द दलू साकिन देह	भूमिस्वामी	62	1.17	1.17
12	भागीरथ वल्द खिलानसींग गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	66	0.81	0.81
13	हरीसींग वल्द फूलसींग गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	67	2.43	2.43
14	फुन्दी, भगोनी, नन्हू मुलू प्रीतम पिस. अजुद्धी, हरिबाई, रामकली, मुलाबाई पुत्री अजुद्धी, मदरोबाई बेवा अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	68/1	1.66	1.66
15	फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़ सा. देह	भूमिस्वामी	68/2	1.02	1.02
16	भागोनी वल्द अजुद्धी गौड़ सा. देह	भूमिस्वामी	68/3	0.40	0.40
17	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़ सा. देह	भूमिस्वामी	68/4	0.80	0.80
18	रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	69	2.63	2.63
19	विश्वनाथ सिंह वल्द गनेशसिंह गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	70/1	2.33	2.33
20	यशवंतसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	70/2	0.74	0.74

21	गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	70/3	0.80	0.80		
22	गुलाव सिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	70/4	0.80	0.80		
23	यशवंत पिस. मर्दनसिंह, ताती वल्द धन्सू मोहन हुकम नत्थू परसराम, दिलीप पिस. कलू भागवती बबीता पुत्री कलू शिवरानी वेवा कलू साकिन सालाबारा	भूमिस्वामी	71	7.42	7.42		
24	चित्तरसींग वल्द सूरतसींग सा. देह	भूमिस्वामी	72	3.64	2.82		
25	अजुद्धी वल्द चेतू गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	8/1	2.80	0.38		
26	भरोसे वल्द दलू गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	8/2	2.80			
27	गनेशीबाई पति बाबूलाल साकिन खतौला	भूमिस्वामी	12/1	0.55			
28	शंकरलाल वल्द बाबूलाल साकिन खतौला	भूमिस्वामी	12/2	1.000			
29	कडोरीलाल वल्द बाबूलाल साकिन खतौला	भूमिस्वामी	12/3	1.00	0.26		
30	जगन्नाथ वल्द बाबूलाल सा. देह	भूमिस्वामी	12/4	1.01			
31	दामोदर वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	12/5	1.01			
32	हरिसींग पिता फूलसींग सा. देह	भूमिस्वामी	14/1	0.67	0.80		
33	शंकर पिता फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	14/2	0.67			
34	धन् बब्बू पिस. चेतू गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	21/1	1.55	0.13		
35	शिल्लू पिता चेतु गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	21/2	0.52			
36	प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद साकिन खतौला	भूमिस्वामी	22/1	0.28			
37	प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	22/2	1.04	0.22		
38	विद्याबाई पुत्री लक्ष्मीबाई साकिन खतौला	भूमिस्वामी	22/3	0.80			
39	बृजेश पिता विष्णुप्रसाद सा. देह	भूमिस्वामी	22/4	1.20			
40	लक्ष्मन पिता विष्णुप्रसाद सा.देह	भूमिस्वामी	22/5	1.20			
41	धमू पिता काशीराम, सूरतसींग पिता हिरदेसींग, संतोष, अमरसींग, गौतम नाबालिग वल्द व वली सूरतसींग, भागीरथ, नन्हे पिस. खिलान, रामाबाई पत्री खिलान गौड़ साकिन देह	भूमिस्वामी	29/1	0.46	0.03		
42	नन्हूसींग वल्द गनेशसींग साकिन खैरुआ	भूमिस्वामी	29/2	0.40			

43	धम्म पिता काशीराम, सूरतसींग पिता हिरदेसींग, संतोष, अमरसींग, गौतम नाबालिंग वल्ड व वली सूरतसींग, भागीरथ, नन्हे पिस. खिलान, रामबाई पत्री खिलान गौड़ साकिन देह	भूमिस्थापी	30	0.49	0.05	
44	यशवंत, गोकलसींग, गुलाबसींग, पिस. मर्दन सिंह गौड़ साकिन देह	भूमिस्थापी	32	1.13	0.17	
		भूमिस्थापी	34	1.16	0.01	
45	यशवंत, गुलाब, गोकलसींग पिस. मर्दनसींग, पूनाबाई, रामबाई पुत्री मर्दनसींग, मानसींग पिस गोरेलाल, मालतीबाई, क्रांति पुत्री गोरेलाल, तांती वल्ड घन्सु सियारानी वेवा रामा, श्रीबाई पुत्री रामा, केशरबाई वेवा धासीराम क्रांतिबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई ना.वा. पुत्री धासीराम वली मां केशरबाई, राजू भजन, लेखन पिस. रामा गौड़ सूरत, सत्यभान, नेतराम, रामअवतार, श्याम पिता तिजई, इमरती, मीरा पुत्री तिजई, प्रकाशरानी वेवा तिजई साकिन देह	भूमिस्थापी	35	1.10	0.09	
योग:-				68.30	40.49	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–17 / (7)–2014 सात शा. 24 भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपवधों को कियांवित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला—सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–17 / (8)–2014 सात -शा. 24 भोपाल, दिनांक 29/10/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अ.पि.आ. राजस्व

देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, लैटरर: जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशनुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि पर कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सात) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नवका (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 96 अ-82-16-17-

सागर, दिनांक, 31 मार्च 2018

## मौजा बम्होरी पट.ह.न.-18, तह0 देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य, शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर को खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बम्होरी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से करीब 785 हेए भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

1) परियोजना का नाम : खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बम्होरी जलाशय निर्माण हेतु

2) भूमि का विवरण :

1. जिला : सागर
2. तहसील : देवरी
3. ग्राम : बम्होरी
4. पह.ह.न. : 18
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 63.76 हेए

## ::अनुसूची-1

सं. क्र.	आमिलखत भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेए में	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीराम वल्द खूबसींग साकिन भानपुर	भूमिस्वामी	19	1.55	0.30	
2	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लाई, रघु, धर्मन्द वल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल धीरज, बद्रीप्रसाद, बालकिशन पिस चोखेलाल प्रभाबाई, केशबाई पुत्री चोखेलाल ब्रजरानी देवा, चोखेलाल सा.देह	भूमिस्वामी	21/1	3.24	0.50	
3	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लाई पिता पूरन, प्रभु, धर्मन्द वल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी देवा, पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	21/2	2.15		
4	प्रदीप कुमार वल्द श्रीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	22/1	1.65	0.15	
5	राजेन्द्र कुमार वल्द प्रहलाद रींग साकिन भानगढ़	भूमिस्वामी	22/2	1.21		

6	परसराम वल्द चित्तर साकिन देह	भूमिस्वामी	25/1	0.80		
7	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लाई पिता पूरन, प्रभु, धर्मन्द्र वल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी बेवा, पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	25/2	1.92		
8	प्रताप पिता चित्तर साकिन देह	भूमिस्वामी	25/3	0.13	1.35	
9	बद्रीप्रसाद वल्द चोखेलाल सा. देह	भूमिस्वामी	25/4	5.20		
10	बालकिशन बल्द चोखेलाल सा.देह	भूमिस्वामी	77/2	2.50	0.75	
11	रामप्रसाद वल्द पुनऊ सा.देह	भूमिस्वामी	77/3	0.99	0.99	
12	लक्ष्मन वल्द, पुनऊ सा. देह	भूमिस्वामी	84/1	2.83	2.83	
13	देशराज वल्द मनोहर गुप्ता साकिन देवरी	भूमिस्वामी	66/1	1.46	1.46	
14	कमल वल्द धरमदास सा.देह	भूमिस्वामी	66/2	0.68	0.68	
15	नथू वल्द धरमदास सा. देह	भूमिस्वामी	63	1.19	1.19	
16	राजू वल्द नाथूराम सा. देह	भूमिस्वामी	64/1	0.20	0.20	
17	धरमदास वल्द दुल्ली सा. देह	भूमिस्वामी	64/2	0.48	0.48	
18	रामजी वल्द बन्दलाल सा. देह	भूमिस्वामी	64/3	0.28	0.28	
19	धरमदास वल्द दुल्ली सा.देह	भूमिस्वामी	65	3.67	3.67	
20	जमना पिता छुट्टी सा.देह	भूमिस्वामी	67	0.86	0.86	
21	नन्हे भाई वल्द छुट्टी सा.देह	भूमिस्वामी	68/1	0.92	0.92	
22	राकेश वल्द नन्हे भाई सा.देह	भूमिस्वामी	68/2	0.04	0.04	
23	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लाई पिता पूरन, प्रभु, धर्मन्द्र वल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी बेवा, पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	69/1	1.61	1.61	
24	कडोरी वल्द अयोध्या सा.देह	भूमिस्वामी	69/2	1.10	1.10	
25	साहब पिता बन्नूलाल सा.देह	भूमिस्वामी	71	0.28	0.28	
26	रतीराम वल्द पूरन सा.सिलारी	भूमिस्वामी	79	1.00	1.00	
27	झामर्सींग वल्द पूरन सा. सिलारी	भूमिस्वामी	78	3.32	2.80	
28	रानी जोजे बद्रीप्रसाद सा.देह	भूमिस्वामी	80	2.50	2.50	
29	महेरबान वल्द कडोरी सा.देह	भूमिस्वामी	81	2.03	2.03	
30	कडोरी वल्द अयोध्या प्रसाद, गायत्री पति कडोरी, मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	82	1.40	1.40	
31	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लाई, रघु, धर्मन्द्र वल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल धीरज, बद्रीप्रसाद, बालकिशन पिस चोखेलाल प्रभाबाई, केशबाई पुत्री चोखेलाल ब्रजरानी बेवा, चोखेलाल सा.देह	भूमिस्वामी	84/2	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	90	1.21	1.21	
		भूमिस्वामी	94	1.79	1.79	
		भूमिस्वामी	91	1.28	1.28	
		भूमिस्वामी	97/1	2.86	2.30	
		भूमिस्वामी	98/2	1.01	1.01	
		भूमिस्वामी	97/2	0.41	0.41	
		भूमिस्वामी	98/1	1.02	1.02	
		भूमिस्वामी	98/4	0.30	0.30	
		भूमिस्वामी	98/3	0.45	0.45	
		भूमिस्वामी	98/5	0.36	0.36	
		भूमिस्वामी	99	0.45	0.45	
		भूमिस्वामी	100	0.20	0.20	
		भूमिस्वामी	103/1	2.51	2.51	
		भूमिस्वामी	105/1	0.58	0.58	
		भूमिस्वामी	111	0.99	0.99	
		भूमिस्वामी	111	0.11	0.11	

32	अमोलरानी पति नन्हेभाई सा.देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	103/2 107	0.57 2.63	0.57 2.33	
33	संतोष वल्द धीरजसिंह सा. देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	105/2 106	0.08 0.79	0.08 0.79	
34	नन्हेभाई पिता छुट्टे, अमोलरानी पति नन्हेभाई सा. देह	भूमिस्वामी	108/1	3.72	0.17	
35	रमेश बल्द पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	108/2	3.72	0.35	
36	रामअवतार पिता गोविन्द सा. देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	112 113 114	0.46 1.11 0.80	0.46 1.11 0.80	
		भूमिस्वामी	117	0.81	0.81	
37	बद्रीप्रसाद वल्द चोखेलाल सा. देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	115 123/3	1.04 2.64	1.04 1.10	
38	संतोष वल्द धीरजसिंह सा.देह	भूमिस्वामी	123/4	1.67	0.60	
39	मुकेश कुमार वल्द धीरज सिंह सा. देह	भूमिस्वामी	123/5	0.50	0.20	
40	गोविन्द वल्द बन्नूलाल सा. देह	भूमिस्वामी	116	4.10	0.78	
41	शिवरानी पति गोविन्द सा.देह	भूमिस्वामी	118	0.81	0.81	
42	बन्नूलाल बल्द गोकल, गनेश, रामप्रसाद, कोमल,, जगदीश, लक्ष्मन पिस. पुनउ, भूरीबाई, सावित्री बाई, पुत्री पुनउ, गोमती बेवा पुनउ कमला भूरी, पुत्री चिठी, प्रभु, कल्लू, उर्फ राजकुमार, वल्द खुमान, भागवती, बेवा खुमान सा.देह	भूमिस्वामी	119	4.85	2.90	
43	कोमल वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	119/2	2.42		
44	रामप्रसाद वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	120/1	0.29		
45	कोमल वल्द पुनउ सा.देह	भूमिस्वामी	120/2	1.74		
46	जगदीश वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	120/3	0.83	2.10	
47	लक्ष्मन वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	120/4	0.82		
48	भूरीबाई पुत्री पुनउ	भूमिस्वामी	120/5	1.00		
49	सावित्रीबाई पुत्री पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	120/6	1.00		
50	अवनीश कुमार वल्द महेशचन्द्र मिश्रा सा. सदर बाजार सागर	भूमिस्वामी	122	7.35	0.60	
51	गोविन्द वल्द बन्नू सा.देह	भूमिस्वामी	58/1	0.70	0.45	
52	सदारानी बेवा बन्नूलाल सा.देह	भूमिस्वामी	58/2	1.59		
53	कुसुम पति प्रभु यादव सा. देह	भूमिस्वामी	57/1	0.27	0.02	
54	राजकुमार वल्द खुमान यादव सा. देह	भूमिस्वामी	57/2	0.40		
55	रामप्रसाद वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	56/1	0.88		
56	लक्ष्मन वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	56/2	0.20	0.35	
57	जगदीश वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	56/3	0.88		
58	लक्ष्मन वल्द पुनउ सा. देह	भूमिस्वामी	56/4	0.88		
	योग			115.92	63.76	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17 / (7)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियावित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला-सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17 / (8)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि पर कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं हाने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1067-भू-अर्जन-2018

सार्वजनिक सूचना

रायसेन, दिनांक 6 अप्रैल 2018

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2017-18 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – भाडोन

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भाडोन	विपिन, नितिन आ. नवदा प्रसाद उर्फ दलीप सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	39/1	3.569	0.084	कार्यपालन यंत्री बारना बांधी तट नहर संभाग बाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की खाडोन माइनर क्र 12 नहर हेतु
2	भाडोन	उमेश आ. हनुमत सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	39/3	1.380	0.061		
3	भाडोन	सूर्यप्रकाश आ. हनुमतसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	39/4	1.380	0.078		
4	भाडोन	हल्की वाई विधवा मदनलाल, रमेश कुमार, जीवनसिंह, जसवंत सिंह आ. मदनलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	45	5.358	0.048		
5	भाडोन	धर्मेन्द्र कुमार आ. कमलेश कुमार जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	42/1/1	1.509	0.080		

916

6	भाड़ोन	शिवराज आ. पतीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/1	0.304	0.032		
7	भाड़ोन	मंगल आ. बल्ली जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/2	0.304	0.038		
8	भाड़ोन	हल्के आ. बल्ली जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/3	0.304	0.020		
9	भाड़ोन	अंतराम आ. पतीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/4	0.454	0.020		
10	भाड़ोन	हल्की वाई विधवा लक्ष्मण सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/5	0.226	0.008		
11	भाड़ोन	शिवराज आ. पतीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/6	0.226	0.008		
12	भाड़ोन	कलिया वाई पत्नि रामलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/7	0.226	0.008		
13	भाड़ोन	गन्नो वाई वि. चेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/8	0.226	0.008		
14	भाड़ोन	शंकरसिंह, शिवनारायण, कारेलाल, नन्हेलाल आ. अन्धेर सिंह रामवाई सुकको वाई आ. जीवन सिंह मुन्नी वाई पत्नि जीवन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/9	0.453	0.020		
15	भाड़ोन	शंकर सिंह आ. मोतीलाल हक्की वाई वि. मदनलाल, रमेश कुमार, जीवन सिंह, यशवंत सिंह, आ. मदनलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	112	2.073	0.020		

डॉ.एस.तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
प्रारंभिक सूचना

प्रकरण. क्र. 91—अ—82—भू—अर्जन—2017—18—4426

मुरैना, दिनांक 6 अप्रैल 2018

(भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (सहपठित भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम पुरा हथरिया प.ह.नं. 114 रा.नि. वृत्त-5 सुमावली तहसील व उपखंड जौरा जिला मुरैना में कुल 72.650 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

अतः जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम पुरा हथरिया प.ह.न. 114 वृत्त-5 सुमावली में उक्त परियोजना के लिए 72.650 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है अर्जन किया जाना है—

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	—	मुरैना
ख. तहसील	—	जौरा
ग. ग्राम	—	पुरा हथरिया
घ. लगभग क्षेत्रफल	—	72.650 हेक्टेयर

संक्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1.	2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.320	भूरी वेवा नाथूसिंह नरेन्द्र रवेन्द्र पुत्रान नाथू
	3			0.250	विमलेश प्रवेश पुत्री नाथूसिंह भा 1/2 दी
	4			0.180	4/25 कुअरपाल सोनेराम पंजाबसिंह पुत्रान
	15			1.280	सोवरन रामदुलारी पुत्री सोबरन स.भा
	16			0.280	16/25 कैलासी बेवा रामेश्वर दशरथ पुत्र
	17			0.370	रामेश्वर लाली पुत्री रामेश्वर 1/6 समान
	18			0.370	जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी
	242			0.140	भू—राजस्व बिलमुक्ता 13.50
	243			0.110	
2.	5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.150	श्रीमती हेमलता पत्नी मित्रपाल जाति काढी
	6			0.150	पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	7			0.070	
	8			0.190	
	9			0.430	
	10			0.310	
	12			0.170	

	13 43 44 46 47			<b>0.370 0.230 0.220 0.600 0.190</b>	
3.	11 124 125	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.480 0.190 0.160</b>	अशोक पुत्र दामोदर नाबा. सर. पिता खुद 42/83 कलावती बेबा रामसिंह पान सिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह रामबेटी रत्नी पिता रामसिंह भाग 3/4 समान जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी संजू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी 1/4 दर भाग 41/83 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4.	19 20 21 22 23 24 25 29 45	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.210 0.390 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.160 0.390</b>	पंजाव सिंह पुत्र केशव सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5.	21/373 26 27 28 30	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.330 0.310 0.240 0.210 0.630</b>	वासुदेव परमालसिंह पंजाबसिंह बकीलसिंह तहसीलदार बबूराजा बन्दू उर्फ योगेन्द्रसिंह पिता केशव सिंह 1/2 समान नि. घसटूआ जाति गूठा. रामकिशन पुत्र करन सिंह 1/2 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6.	30/378	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.470</b>	पंजाबसिंह परमालसिंह बकीलसिंह तहसीलदार सिंह बबूराजा योगेन्द्र सिंह पिता केशव सिंह पता निवासी ग्राम लोहाबसई मजरा घसटूआ समान भाग भूमिस्वामी
7.	31 32 33	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.260 0.240 0.240</b>	पप्पू सिंह पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमिस्वामी
8.	34	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.250</b>	मुन्नासिंह पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा लोहाबसई घसटूआ

	35			0.480	भूमिस्वामी
9.	36 39 40 377/40 49 50 51 52 53 54	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.570 0.060 0.100 0.100 0.530 0.280 0.490 0.630 0.110 0.310	सरनामसिंह, मेवाराम, रामप्रकाश, वासुदेव, पि. शिवसिंह 1/2 समान, राधेश्याम, पालसिंह, बकील सिंह पि. ओतार सिंह 1/2 समान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घस्टुआ भूमिस्वामी
10.	41 42 89 116 117 144 162 163	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.510 0.090 0.370 0.390 0.110 0.160 0.310 0.160	करनसिंह पुत्र रघुवरसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11.	57	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.290	मानसिंह, पृथ्वीराज पुत्रान कुंअरपाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
12.	58 62/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.210 0.300	उदयसिंह पुत्र चिन्टोली गुडियाबाई पत्नी उदयसिंह जाति कोरी पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
13.	59 60	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.110 0.420	केशवसिंह पुत्र हीरालाल माया पत्नी केशवसिंह जाति कोरी पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
14.	61	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.640	नरेन्द्र रविन्द्र पिता नाथू सिंह जाति गूठा, पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी सरमन पिता शिवलाल जाति काढी पता निवासी ग्राम आधिपत्य कृषक

15.	62/2 102	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.300 0.220	हाकिम पुत्र चिम्मन रेवती पल्ली हाकिम जाति कोली पता निवासी ग्राम विलगा भूमिस्वामी
16.	63	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.620	नरेन्द्र, रवेन्द्र पुत्रगण नाथूसिंह स. भाग 1/2 सोनेराम पुत्र सोबरन हि. 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17.	64 65 71 84 85 93	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.300 0.240 0.100 0.310 0.160 0.420	मु. मनोरमा पल्ली विमल बंदेश अंकित पुत्रगण विमल जूली रचना बंदना सपना प्रियंका पुत्रियां विमल जाति वैश्य नि. जोरा 1/5 भूरी बेबा नाथू विमलेश प्रवेश पुत्री नाथूसिंह भा 1/2 रामबेटी पुत्री विजय सिंह 1/2 दभा 1/30 कुअरपाल सोनेराम पजाव पुत्र सोबरन रामदुलारी पुत्री सोबरन 4/30 पता निवासी ग्राम गासकीय पट्टेदार विक्रय से वर्जित कैलाशी वेवा रामेश्वर जसरथ पुत्र रामेश्वर लाली पुत्री रामेश्वर 1/30 दभा 1/5 भूरी वेवा नाथूसिंह नरेन्द्र रवेन्द्र पुत्रान नाथू विमलेश प्रवेश पुत्री नाथू सिंह 1/2 रामबेटी पुत्री विजय सिंह 1/2 दभा 1/5 कुअरपाल पुत्र सोबरन 1/5 कैलाशी बेबा रामेश्वर जसरथ पुत्र रामेश्वर लाली पुत्री रामेश्वर जाति गू. पता निवासी ग्राम 1/5 भाग भूमि स्वामी विक्रय से वर्जित
18.	68 72	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.050 0.440	पंजाब सिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
19.	73 74 75 76 77 78	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.310 0.360 0.050 0.290 0.330 0.210	करन सिंह पुत्र रघुवर सिंह 1/9 राजमन सुल्तान सुरेश पुत्रान अजमेर सिंह शिवदेई पुत्री अजमेर सिंह 1/9 वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जिरो मीना पुत्री नारायण सिंह समान भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी धनवन्ती बेबा सरदार सिंह मोहर सिंह कोक सिंह धर्म सिंह पिता सरदार सिंह पुष्णा दीपा पुत्री सरदार सिंह समान भाग 1/9 बैकुन्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पुत्री चतुरे 5/7 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामदेई बेबा केदार रिंकू बा. ब्रजेश नाबा पुत्र केदार रीना बा अन्जली पुत्री केदार सर. मॉ. खुद भाग 1/7 दर भाग 1/8 समान गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समान भाग 1/8 दरभाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्रीलाल लायक सिंह निरपाल सिंह

					पिता सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्री सूबालाल हिस्सा 5/54 बैकुन्ठी बेबा गब्बर रामकुमार वि णु मिथुन नाबा पुत्र गब्बर सर. मॉ. खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/54 दरभाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भगवान सिंह भूप सिंह रुकम सिंह विजेन्द्र सिंह अमर सिंह फूल सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह द्वोपती बेबा पुरुषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्री पुरुषोत्तम समान भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रतन सिंह रणवीर सिंह पिता बेदरी सिंह अनारकली रामदुलारी रामप्रकाशी पुत्री बेदरी सिंह समान भाग 1/9 शिवचरन विशाल पिता सलिका रामरती राजाबेटी पुत्री सलिका 4/45 कलावती बेबा जाहर सिंह साहब सिंह जगदीश सुरेन्द्र पुत्रान जाहर सिंह समान भाग 1/45 दर भाग 1/9 जाति काढी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार विक्रय से निषेध।
20.	79 253	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	1.000 0.200	कमलेश भूरासिंह, गम्भीर सिंह राजवीरसिंह ऊदयवीरसिंह पुत्र हरीसिंह समानभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह समान भाग 1/3 जनकसिंह प्रेम सिंह मंगल सिंह पिता चिम्मन सिंह 1/3 समानभाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
21.	81 104	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.200 0.300	मुन्शी पुत्र झम्मन गुड़डीबाई पत्ती मुन्शी जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
22.	82/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.300	श्रीया पुत्र जीवाराम ममता पत्ती श्रीया समान भाग निवासी ग्राम भूमिस्वामी
23.	82/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.120	आतमदास पुत्री जीवाराम, गुड़डीबाई पत्ती आतमदास समान भाग जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
24.	83/1 92	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.350 0.110	पानसिंह पुत्र मुकन्दी सरोज पत्ती पान सिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी

25.	83/2 101	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.350 0.220	रामप्यारी वेवा आशाराम 1/2 राजकुमार पुत्र आशाराम 1/2 जाति जाटव पता नि. ग्राम विरुंगा भू स्वामी अहस्तान्तरणीय
26.	88मि.2 155 मि.2 254मि.8	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.100 0.220 0.210	रनवीरसिंह पुत्र वेदरीसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
27.	87 88मि..3 90/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.470 0.550 0.450	भगवानसिंह, भूपसिंह, अमरसिंह फूलसिंह पिता पुरषोत्तम जाति काढी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय
28.	88मि..1 155 मि..3 254मि..9	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.110 0.220 0.210	रत्नसिंह पुत्र वेदरीसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित
29.	94 95	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.310 0.200	रंधीर पुत्र हल्के अनीता पत्ती रंधीर जाति कोरी पता निवासी ग्राम विरुंगा समान भाग भूमिस्वामी
30.	96 97 98	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.160 0.210 0.210	राहुल ना.बा. पुत्र गेदालाल रनिया पुत्री गेंदालाल सरप. ताऊ पूरन जाति कोरी पता निवासी ग्राम विरुंगा समान भाग भूमिस्वामी
31.	99 100	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.220 0.220	रामहेतु पुत्र धनीराम गुड्डीबाई पत्ती रामहेतु जाति कोरी पता निवासी ग्राम विरुंगा समान भाग भूमिस्वामी
32.	105	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.300	श्रीलाल लायकसिंह नृपालसिंह पिता सुआ लाल रामप्यारी लोगश्री पुत्री सुआलाल 5/6 समान जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बैकुन्ठी बेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पुत्र गब्बर सर. मॉ खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समानभाग 1/6 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय
33.	107 108	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.160 0.210	विशालसिंह पुत्र सलिका जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय
34.	109 110 111	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.310 0.260 0.320	घनवन्ती बेबा सरदारसिंह मोहरसिंह, कोक सिंह, धर्मसिंह पि. सरदारसिंह पु पा दीपा पि. सरदारसिंह 1/72 संभाग रामजीलाल बलवीरसिंह भवरसिंह, मित्रपाल धारासिंह

	118			<b>0.470</b>	पुत्रगण चंदन सिंह सूरज बेबा चन्दनसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय कमला मीरा फूलकली गुड़डी कैलाशी पुत्रिया चंदन सिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम समान भाग 11/72 दरभाग 1/6 भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय श्रीलाल लायकसिंह ब्रपालसिंह पुत्रान सूबालाल रामप्यारी लौंगश्री पुत्रियां सूबालाल समान भाग 5/36 बैकुन्ठी बेबा गब्बर राजकुमार वि णु मिथुन नाबा. पि. गब्बरसिंह सर मॉ भारती पूनम रेशमा पिता गब्बरसिंह समान भाग 1/36 जाति काढी पता निवासी ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय बैकुन्ठी मुन्नी रामरत्न सन्तो बर्फी पिता चतुरे 5/7 समान रामदेव बेवा केदारसिंह रिन्कू बा. बृजेश नाबा. पि. केदारसिंह सर मॉ खुद रिनू बा. अंजली नाबा. पिता केदारसिंह सर. मॉ खंद समान भाग 1/7 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समानभाग 01/7 दरभाग 1/6 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भगवानसिंह रुकमसिंह भूपसिंह विजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पि. पुरुषोत्तम सिंह मुद्रोपदी बेवा पुरुषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्रियां पुरुषोत्तम सिंह समान भाग 1/6 रतनसिंह रनबीर सिंह पि. बेदरीसिंह अग्रकरली रामदुलारी रामप्रकाशी पुत्रिया बेदरी सिंह समान भाग 1/6 जाहर सिंह शिवचरन विशाल पि सलिका रामरत्नी रामबेटी पुत्रियां सलिका समानभाग 1/6 जाति काढी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
35.	112 120 146 218	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.340 0.210 0.210 0.210</b>	राजमल, सुल्तान, सुरेश पुत्रान अजमेरसिंह शिवदेव पुत्री अजमेर सिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
36.	113	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.420</b>	अशोक पुत्र दामोदर नाबा. सर.पिता खुद 1/2 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशन कप्तानसिंह पुत्र रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 3/4 सन्तू लालू पिता मुरारी

					राजकुमारी पुत्री मुरारी भाग 1/4 दरभाग 1/2 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
37.	114 115 121	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.840 0.590 0.250	नवलसिंह पिता पोहपसिह भाग 1/2 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशनसिंह कप्तानसिंह पिता रामसिंह, रामबेटी रत्ती पुत्री रामसिंह भाग 6/7 सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी 1/7 दरभाग 1/2 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
38.	122 123	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060 0.250	पानसिंह, रोशन, कप्तान, पिता रामसिंह, रामबेटी रत्ती पुत्री रामसिंह समान 5/6 सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी समान भाग 1/6 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
39.	126 127 145 147 219 220 222	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.310 0.470 0.060 0.240 0.110 0.210 0.110	छिददा दर्शनसिंह पिता तेजसिह बसन्ती शान्ती पिता तेजसिह समानभाग 4/5 राजाबेटी बेबा रायसिंह श्रीनिवास राजू पिता रायसिंह गंगादेवी रीना पिता रायसिंह समानभाग 1/5 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40.	128 149 159 164	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.470 0.110 0.240 0.070	भगवानसिंह रुकमसिंह विजेन्द्र सिंह अमर <sup>१</sup> सिह रूपसिंह फूलसिंह पि. पुरु गोत्तम सिंह मुद्रोपती बेबा पुरुषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्रियां पुरुषोत्तम सिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
41.	129 139 157 225 226	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.400 0.280 0.170 0.020 0.450	बैकुन्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बरफी पुत्री चतुरे समानभाग 5/7 रामदेई बेवा केदार सिंह रिन्कू बा. बृजेश नाबा. पिता केदार सिंह सर. मॉ खुद रीनू बा. अंजली नाबा. पुत्री केदार सिंह सर मॉ खुद समान भाग 1/7 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समानभाग 1/7 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
42.	130 136	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.190 0.090	शिवचरन विशाल, पिता सलिका रामरती राजाबेटी पुत्री सलिका 4/5 कलावती वेवा

	137 227 154			<b>0.290 0.230 0.130</b>	जाहरसिंह, साहबसिंह, जगदीश सुरेन्द्र पुत्रान जाहरसिंह 1/5 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समानभाग भूमिस्वामी
43.	138 158 161 165	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.280 0.350 0.200 0.070</b>	रतन सिह, रनवीरसिंह पि. वेदरीसिंह अनारकली, रामदुलारी, रामप्रकाशी पुत्रीया वेदरीसिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	140 153 224	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.300 0.270 0.230</b>	श्रीलाल, लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोगश्री पिता सूबालाल समानभाग 5/6 बैकुन्ठी बेबा गब्बर सिंह राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा पिता गब्बर सिंह सर माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर सिंह समान भाग 1/6 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	141 156 170 195 213 223 258 245 305	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.280 0.220 0.110 0.480 0.440 0.300 0.360 0.180 0.600</b>	रामजीलाल, बलवीरसिंह, भमरसिंह, मित्रपाल, धारासिंह पिता चंदनसिंह सूरज बेबा चंदनसिंह कमला, मीरा फूलकली गुडडी कैलाशी पुत्री चन्दनसिंह 11/12 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी धनवंती बेबा सरदार सिंह मोहरसिंह, कोकसिंह, धरम सिंह, पिता सरदारसिंह पुष्पा दीपा पिता सरदारसिंह समान भाग 1/12 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	142 143 148	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.260 0.260 0.050</b>	विजेन्द्रसिंह पुत्र पुरुषोत्तम भाग 28/57 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 3/4 समान सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी भाग 1/4 दरभाग 29/57 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
47.	156 मि.1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.430</b>	रुकमसिंह, विजेन्द्रसिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
48.	160 161/383	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.180 0.180</b>	रतनसिंह रणवीरसिंह पिता बेदरिया जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

49.	168 169	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.390 0.250</b>	हरीसिंह बहादुरसिंह चिम्मन सिंह पुत्र भगवंत समान भाग जाति काढी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
50.	171	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.090</b>	हाकिमसिंह, मुकन्दीलाल हरीराम पि. रामप्रसाद शान्ती पुत्री रामप्रसाद जाति काढी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	173			<b>0.430</b>	
	189			<b>0.170</b>	
	191			<b>0.090</b>	
	192			<b>0.110</b>	
	194			<b>0.150</b>	
	198 199			<b>0.060 0.130</b>	
51.	172	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.210</b>	रामनाथ पुत्र बद्री लोगश्री मुन्नी पुत्री बद्री समान भाग 1/2 रामवती बेबा हरिविलास रामवरन पूत्त सिंह सुरेश पुत्र हरिविलास समान भाग 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	174/380			<b>0.320</b>	
	183			<b>0.080</b>	
	190			<b>0.200</b>	
	193			<b>0.270</b>	
	197			<b>0.060</b>	
	201			<b>0.200</b>	
52.	174	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.410</b>	रामदीन, राजेन्द्र पिता भगवन्त वन्तो पुत्री भगवन्त समानभाग 60/71 दर्शनसिंह महेशसिंह पिता भीमसेन हि.2/3 सूखी बेबा पंचम महीलाल बेदम पि. पंचम सरस्वती गुडडी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/3 दर भाग 11/71 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
53.	176 188	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.010 0.370</b>	दर्शनसिंह, महेशसिंह पि. भीमसेन हि. 1/2 सूखी बेबा पंचम महीलाल बेदम पिता पंचम सरस्वती गुडडी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन महेश पिता भीमसेन कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमसेन समान भाग 6/7 सूखी बेबा पंचम महीलाल बेदम सरस्वती गुडडी महाराजो मनोज पिता पंचम 1/7 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम दर भाग 1/4 भाग भूमिस्वामी
54.	177	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.200</b>	राजावेटी वेवा रायसिंह श्रीवास राजू पुत्रान रायसिंह गंगादेवी रीना, पुत्रियां रायसिंह

					1/3 दर्शनलाल पुत्र तेज सिंह भाग 2/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
55.	186	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.210	दर्शनसिंह पंचमसिंह, महेशसिंह पिता भीमसेन जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
56.	196	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.480	हाकिमसिंह मुकन्दी हरीराम पिता रामप्रसाद 1/2 समान रामनाथ पुत्र बद्री भाग 1/4 सुरेश रामबरन पिता हरिविलास समानभाग 1/4 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
57.	204	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.070	हलुकी बादामी पुत्रीयां रघुवरसिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
58.	207	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.110	भागवती, सहोद्रा पुत्रियां गोविन्द सिंह समान भाग जाति काढ़ी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
59.	208	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.210	वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गबदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	299			0.390	
	315			0.250	
	317			0.250	
60.	214 306	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.550 0.360	हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि. 1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लु हि. 1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि. 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
61.	228	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.420	देवीराम पुत्र नारायण जाति कुशवाह नि. ग्राम भूमिस्वामी
	229			0.260	
	259			0.090	
	260			0.480	
62.	230/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.050	कचनियां अमरो, मोजो, बेजन्ती, सोनो पुत्रीयां रामसिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
63.	238/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.450	रमेश रामविलास पिता माधो सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

64.	239	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.120</b>	पीतमसिंह सुल्तानसिंह पिता अजमेर सिंह हि. 4/31 रामविलास रमेश पिता माधौसिंह हि. 21/31 चन्टे पिता माधौसिंह हि. 6/31 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
65.	241	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.090</b>	चन्टे पुत्र माधो 18160 वफु कम्पूरी बेबा प्रहलाद सिंह 1125 वफु जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
66.	244	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.110</b>	सोनेराम पुत्र सोबरन 3/4. बाबूलाल पंचम सिंह अमर सिंह पुत्रगण बिट्टोबाई प्रागो पुत्रियां विट्टोबाई स भाग 1/4 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
67.	254 मि.3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.630</b>	गजराज पुत्र नारायण सिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
68.	254 मि.4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.420</b>	भारतसिंह पुत्र भल्लूसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
69.	254 मि.5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.630</b>	विशाल सिंह पुत्र सलिका जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
70.	254 मि.6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.100</b>	सुल्तानसिंह पीतमसिंह पिता अजमेरसिंह जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
71.	254 मि.7	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>1.000</b>	हरीसिंह बहादुरसिंह चिम्मनसिंह पिता भगवन्त जाति काढी पता निवासी ग्राम सगमान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
72.	254 मि.11	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>1.050</b>	पानसिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह रामबेटी रती पिता रामसहि 5/6 समान जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी हि. 1/6 समान जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित
73.	256	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	<b>0.430</b>	श्रीलाल लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूवालाल रामप्यारी लोगश्री पिता सूबालाल समानभाग 5/6 बैकुन्ठी बेवा गब्बरसिंह राजकुमार विष्णु मिथुत नाबा. पिता गब्बरसिंह सर. मां भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर सिंह समान भाग 1/6 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम दरभाग 65/117 भाग

					भूमिस्वामी रामबेटी पत्नी नृपालसिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भाग 52/117 भाग भूमिस्वामी
74.	257	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.360	श्रीलाल लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूवालाल हि.3/4 बैकुन्ठी बेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा.पिता गब्बर सर.मां खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर सिंह हि. 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
75.	261 262	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.570 0.040	दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि.6/7 समान जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सूखी बेवा पंचम महीलाल वेदम पिता पंचम सरस्वती गुड्डी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/7 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
76.	263/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.070	मुरारी पुत्र नेतराम ओमवती पत्नी मुरारी जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुंगा भूमिस्वामी
77.	271सि.1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.410	श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूवालाल हि.3/4 बैकुन्ठी बेवा गब्बर राजकुमार वि. णू मिथुन नाबा.पिता गब्बर सर.मां खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
78.	291 300 308 313 328 329 335 346	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.260 0.270 0.160 0.260 0.100 0.200 0.110 0.110	रमेश पुत्र माधो सिंह जाति काढो पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
79.	298	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.090	रामनाथ पुत्र बद्री लोगश्री मुन्नी पुत्री बद्री हि.1/2 समान रामवती बेवा हरविलास रामवरन पुत्तूसिंह सुरेश पिता हरविलास समानभाग 1/2 दर भाग 11/69 पता

					निवासी ग्राम भूमिस्वामी हाकिमसिंह मुकन्दी हरीराम पिता रामप्रसाद समानभाग 11/69 रामदीन राजेन्द्र पिता भगवन्त समानभाग 16/69 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन महेश पि. भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमिती मुन्नी पिता भीमा 6/7 सूखी बेवा पंचम महीलाल वेतम पिता पंचम सरस्वती गुडडी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/7 दरभाग 31/69 जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
80.	301 303 309 310 314 330 331 349 350	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.280 0.100 0.100 0.090 0.110 0.140 0.240 0.100 0.110	रामविलास पुत्र माधोसिंह जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
81.	302 304 313/381 325/382	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.110 0.100 0.370 0.260	चन्टे पुत्र माधौ जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
82.	307 318 325 326 327	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.180 0.190 0.350 0.400 0.650	मल्लूसिंह पुत्र माधौसिंह जाति पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

83.	311 312 319	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.160 0.110 0.050	वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गबदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पिता नारायणसिंह 1/10 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय राजेन्द्र पुत्र माधौ फूलवती पुत्री माधौ सती । पुत्र इन्द्रकली भाग 1/10 भल्लूसिंह चन्टे रामविलास रमेश पिता माधौसिंह इमतिया रामकटोरी रामबाई रामकली पुत्री माधौसिंह हि. 8/10 जाति काढी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
84.	320 322 336 338	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.200 0.370 0.110 0.140	राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
85.	323 324 332 333 334	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.180 0.360 0.110 0.190 0.110	रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि. 74/95 भरतसिंह पुत्र भल्लू हि. 21/95 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
			योग—	72.650 हेक्टेयर	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 2615.

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 2 अप्रैल 2018

कमांक /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया-1 के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

**-: अनुसूची ( 1 ) :-**

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम किशनपुरिया-1

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	किशनपुरिया-1	71.247
	कुलयोग :-	71.247

**-: अनुसूची ( 2 ) :-**

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम किशनपुरिया-1

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	रामकलाबाई पति विजयसिंह जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	13/2/1	0.983	0.904
	योग	1	0.983	0.904
2	धापूबाई पति सरजनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	13/2/2 13/3/2	0.598 0.385	0.550 0.327
	योग	2	0.983	0.877
3	कालीबाई पति रामचन्द्र जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	13/3/1	0.983	0.836
	योग	1	0.983	0.836
4	मदनलाल पिता राधेशयाम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	13/5/1 13/4	1.171 1.313	0.703 0.722
	योग	2	2.484	1.425
5	गोकुल पिता लालजी, बीरम पिता रत्नलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	13/5/2 13/6	0.657 1.828	0.394 1.371
	योग	2	2.485	1.765

संक्र.	प्रमावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकमा	अर्जनीय रकमा
1	2	3	4	5
6	हरिश, अशोक पिता लाभू हंसाबाई बेवा लाभू जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3 76/4 81 82/1 80	0.863 0.025 0.089 0.076 0.038	0.475 0.025 0.089 0.076 0.038
	योग	5	<b>1.091</b>	<b>0.703</b>
7	भाग पिता बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	120/1/4 124/4	0.253 0.602	0.253 0.602
	योग	2	<b>0.855</b>	<b>0.855</b>
8	बालूप्रसाद पिता दुलीचंद जाति नाई नि.ग्राम लसूड़ली	11/28	0.292	0.100
	योग	1	<b>0.292</b>	<b>0.100</b>
9	रामचंद्र, जगदीश पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/1	1.771	1.630
	योग	1	<b>1.771</b>	<b>1.630</b>
10	अमरसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	19/2/2 19/4 19/5 19/6	0.759 0.705 0.705 0.705	0.683 0.425 0.705 0.705
	योग	4	<b>2.874</b>	<b>2.518</b>
11	नागजी, रामसिंह पिता जालम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/3	0.397	0.342
	योग	1	<b>0.397</b>	<b>0.342</b>
12	नौरंग बाई पति छीतालाल नि.ग्राम भू-स्वामी	19/13	1.265	1.265
	योग	1	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
13	गोपाल पिता शंकरलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	115/1/2 137/1/2 109/2 138/2	0.357 0.442 0.310 0.051	0.357 0.442 0.310 0.051
	योग	4	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
14	पन्नालाल पिता दयाराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/3	0.705	0.211
	योग	1	<b>0.705</b>	<b>0.211</b>
15	भोनीसिंह पिता धीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	136/1 150/1 126/1/1 135	0.097 0.342 1.012 0.164	0.097 0.342 0.632 0.164
	योग	4	<b>1.615</b>	<b>1.235</b>
16	रामलाल पिता शंकरलाल, जानीबाई बेवा शंकरलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	110/1/1 139/1/1	0.182 0.097	0.182 0.097
	योग	2	<b>0.279</b>	<b>0.279</b>
17	रामलाल पिता शंकरलाल, रामलाल, बद्रीलाल पिता गंगाराम,	61/1/1	0.126	0.101

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	अर्जनीय रकवा
1	2	3	4	5
	किशनलाल पिता लालजी, मांगीलाल, बापूलाल पिता नाथू जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	62 65/1/1 147/1 165	0.038 0.265 1.012 0.354	0.038 0.100 1.012 0.354
	योग	5	1.795	1.605
18	गोकुल पिता लालजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	126/2	1.629	1.300
	योग	1	1.629	1.300
19	धीरप पिता प्रभूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	89/1/1 92	0.344 0.190	0.063 0.076
	योग	2	0.534	0.139
20	बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	136/2 117 116 126/1/3 91 139/2 90 115/3 137/2/1	0.097 0.784 0.190 1.011 0.063 0.295 0.114 0.712 0.796	0.097 0.784 0.190 0.860 0.063 0.295 0.114 0.712 0.796
	योग	9	4.062	3.911
21	नरसंगलाल पिता गंगाराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	136/3 112 110/2 114 150/2 145/1 126/1/2/2 150/207 139/3 71 111 115/2 137/3/1	0.097 0.190 0.369 0.152 0.100 0.759 0.506 0.051 0.394 0.076 0.240 0.712 0.697	0.097 0.190 0.369 0.152 0.100 0.759 0.306 0.051 0.394 0.076 0.240 0.712 0.697
	योग	13	4.343	4.143
22	रेशमबाई पति अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	17	0.582	0.582
	योग	1	0.582	0.582
23	इन्दरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	14/1 14/2/2	1.265 0.253	1.265 0.253
	योग	2	1.518	1.518
24	बालूसिंह पिता भूरजी, गोरीबाई बेवा भूरजी जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	14/2/1 68	1.669 0.152	1.669 0.152
	योग	2	1.821	1.821

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	अर्जनीय रक्बा
1	2	3	4	5
25	रामबक्ष पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम घोड़ाखेड़ा	15	0.089	0.089
	योग	1	<b>0.089</b>	<b>0.089</b>
26	देवलबाई पिता धन्नालाल जाति चारण नि.ग्राम भू—स्वामी	162 164	0.190 0.063	0.190 0.063
	योग	2	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
27	मुकेश पिता हरिसिंह जाति चारण नि.ग्राम भू—स्वामी	128	1.909	1.909
	योग	1	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>
28	प्रभुलाल, जतनबाई, सुंदरबाई पिता रामलाल नि.ग्राम भू—स्वामी	163	0.240	0.101
	योग	1	<b>0.240</b>	<b>0.101</b>
29	प्रेमसिंह पिता धीसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू—स्वामी	60 59 94	0.202 0.317 0.152	0.202 0.300 0.152
	योग	3	<b>0.671</b>	<b>0.654</b>
30	गोपाल पिता हरिसिंह जाति चारण नि.ग्राम भू—स्वामी	160 161/1	0.051 0.151	0.051 0.151
	योग	2	<b>0.202</b>	<b>0.202</b>
31	हरिसिंह पिता बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू—स्वामी	120/1/1 124/2	0.759 0.602	0.759 0.602
	योग	2	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>
32	रमेश पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम झूंगरपुर	121 119 118/1 118/2 120/2 120/3 120/4 122 123/1 123/2	0.291 0.240 0.089 0.126 0.245 0.379 0.400 0.051 0.051 0.126	0.291 0.240 0.089 0.126 0.245 0.379 0.400 0.051 0.051 0.126
	योग	10	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
33	किशनलाल पिता लालजी जाति चारण नि.ग्राम भू—स्वामी	100/1 101/1 102/1 104/1 130/1 105 106/1 107/1 166/2/1	0.332 0.139 0.818 0.041 1.316 0.202 0.555 0.055 0.050	0.332 0.139 0.818 0.041 1.316 0.202 0.555 0.055 0.050
	योग	9	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	अर्जनीय रकवा
1	2	3	4	5
34	राजूबाई बेवा लालजी जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	140/1/1	0.125	0.125
	योग	1	0.125	0.125
35	हजारीलाल पिता कालू जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	100/2 101/2 102/2 104/2 106/2 93 108 107/2 166/2/2	0.642 0.051 0.030 0.202 0.101 0.051 0.114 0.198 0.076	0.642 0.051 0.030 0.202 0.101 0.051 0.114 0.198 0.076
	योग	9	1.465	1.465
36	शिवचरण पिता पिताम्बरदास, मुरामभूतिबाई बेवा पिताम्बरदास जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	166/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
37	रमेश पिता जयराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	149 70 148/201	0.291 0.101 0.379	0.291 0.101 0.379
	योग	3	0.771	0.771
38	हरिसिंह, बिहारी, शंभू पिता धीसा मुरगजरीबाई बेवा धीसा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	148 78 79 83 84 85 86 87 69 88	0.443 0.089 0.139 0.139 0.051 1.543 0.202 0.392 0.101 0.379	0.443 0.089 0.139 0.139 0.051 1.543 0.202 0.392 0.101 0.379
	योग	10	3.478	3.478
39	भीखा पिता मांगीलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2 146	0.506 0.076	0.506 0.076
	योग	2	0.582	0.582
40	सुन्दरबाई नि.ग्राम भू-स्वामी	145/2	0.215	0.215
	योग	1	0.215	0.215
41	जगन्नाथ पिता जालम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	133 134 61/1/2	1.998 0.860 0.076	1.998 0.860 0.076
	योग	3	2.934	2.934
42	रामगोपाल पिता बद्रीलाल जाति महाजन नि.ग्राम चाटूखेड़ा	140/6	0.900	0.700
	योग	1	0.900	0.700

संख्या	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
43	रमेश पिता हरिसिंह ना.वा.सर.पर.माता देवबाई पिता धन्ननालाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	126/3	3.000	2.900
	योग	1	3.000	2.900
44	रमेश पिता हरिसिंह जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	126/4 126/5	0.632 0.759	0.632 0.550
	योग	2	1.391	1.182
45	पर्वतसिंह पिता धीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम शाहपुरिया	130/2	0.430	0.430
	योग	1	0.430	0.430
46	पूरीबाई बेवा गंगाराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	130/3	0.885	0.885
	योग	1	0.885	0.885
47	सांवला पिता जालम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	65/2 76/1 82/2 75 74	0.253 0.076 0.076 0.076 0.063	0.253 0.076 0.076 0.076 0.063
	योग	5	0.544	0.544
48	गंगाराम पिता सेवा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	72/2	0.034	0.034
	योग	1	0.034	0.034
49	राधेश्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम ढूंगरपुर	65/1/2 72/1 76/2 77/1	0.253 0.115 0.253 0.126	0.153 0.115 0.253 0.126
	योग	4	0.747	0.647
50	बद्रीलाल, नागजी, रामसिंह, सावला, जगन्नाथ पिता जालम मु. बायोबाई बेवा जालम, कालू, पिता अमृतलाल, बृजबाई, भूरीबाई, शांतिबाई, रानीबाई पिता अमृतलाल मु. सोनाबाई बेवा अमृतलाल, भूरजी पिता बृजलाल मु. जसूबाई बेवा. बृजलाल जाति चारण राधेश्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	64	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
51	बीरम, मांगीबाई पिता बालू कुलताबाई, सेवबाई बेवा बालू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	99/1	0.163	0.163
	योग	1	0.163	0.163
52	दुलीचंद पिता कालू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	10/2/2	1.644	0.759
	योग	1	1.644	0.759

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्षा	अर्जनीय रक्षा
1	2	3	4	5
53	रामलाल, गोपाल पिता शंकरलाल, जानीबाई बेवा शंकरलाल, बद्रीलाल, नरसंगलाल पिता गंगाराम, पूरी बाई बेवा गंगाराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	113	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
54	रामलाल पिता शंकरलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	115/1/1 137/1/1/1 109/1 138/1 103/1	0.356 0.189 0.310 0.050 0.028	0.356 0.189 0.310 0.050 0.028
	योग	5	0.933	0.933
55	शोभाराम पिता बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	120/1/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
56	मदनलाल पिता हीरालाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	124/1	0.602	0.602
	योग	1	0.602	0.602
57	कालू पिता बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	120/1/3 124/3	0.253 0.602	0.253 0.602
	योग	2	0.855	0.855
58	किशनलाल पिता बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	120/1/5 124/5/1	0.253 0.349	0.253 0.349
	योग	2	0.602	0.602
59	जसूबाई बेवा बलराम जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	125/2	2.783	0.783
	योग	1	2.783	0.783
60	सेवा पिता छीता जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	144/5	0.900	0.075
	योग	1	0.900	0.075
61	भीखा पिता मांगीलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	152 153 158 159	0.190 0.379 0.051 0.076	0.190 0.379 0.051 0.076
	योग	4	0.696	0.696

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	अर्जनीय रकवा
1	2	3	4	5
62	धापूबाई पति नारायण, सावन बाई पति धीसालाल जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	127/1	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
63	कमलसिंह पिता करणसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	127/2	1.010	1.010
	योग	1	1.010	1.010
64	कमला बाई पति शोभाराम जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	132/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
65	सुन्दरबाई पति मांगीलाल जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	132/2	0.316	0.253
	योग	1	0.316	0.253
66	गंगाराम पिता खेतानारायण जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	73 76/3 77/2	0.481 0.051 0.038	0.481 0.051 0.038
	योग	3	0.570	0.570
67	जगदीश पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	11/4	1.368	1.368
	योग	1	1.368	1.368
68	गोपाल पिता शंकरलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	110/1/2 139/1/2	0.183 0.098	0.183 0.098
	योग	2	0.281	0.281
69	मांगीलाल, बापूलाल पिता नाथूलाल जाति चारण नि.ग्राम भू-स्वामी	103/2	0.453	0.453
	योग	1	0.453	0.453
70	लक्ष्मण पिता भागमल जाति चमार जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	19/11	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
71	रामचन्द्र पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/4	1.012	0.020
	योग	1	1.012	0.020
72	नन्दराम पिता बापूलाल नि.ग्राम भू-स्वामी	137/1/1/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
73	लक्ष्मीनारायण पिता बापूलाल नि.ग्राम भू-स्वामी	137/3/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
74	बीरमसिंह पिता छीतालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	140/1/2	1.063	1.063
	योग	1	1.063	1.063
	कुलयोग :-	183	82.159	71.247

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण. क्र. 2616—अ—82—2015—2016.

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरिया के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**—: अनुसूची :-**

**मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरिया**

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	रामचरण पिता बिहारीलाल, रेखाबाई पति रामचरण जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू—स्वामी	✓ 196/1/4	1.106	1.000
	योग	1	- 1.106	1.000
2	मांगीलाल पिता काशीराम, रमा बाई पति मांगीलाल जाति अनुसूचित जातिपता नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 198/1/5	1.305	1.305
	योग	1	- 1.305	1.305
3	केशर पिता रत्ता जाति नट नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 198/2	0.253	0.253
	योग	1	- 0.253	0.253
4	मोहन लाल पिता देव्या जाति नट नि.ग्राम भू—स्वामी	- 198/3	0.253	0.253
	योग	1	- 0.253	0.253
5	मोहन लाल पिता देवीलाल, देव बाई पति मोहनलाल जाति नट नि.ग्राम भू—स्वामी	✓ 198/1/6	0.932	0.559
	योग	1	- 0.932	0.559
6	शम्भू पिता नगा, भंवरी बाई पति शम्भू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू—स्वामी	- 198/1/7	- 0.900	0.700
	योग	1	0.900	0.700
7	भागीरथ पिता नानुराम, जमनी बाई पति भागीरथ जाति नट नि. ग्राम भ—स्वामी	- 198/1/8	- 0.565	0.565
	योग	1	0.565	0.565
8	बीरम सिंह पिता मांगीलाल, अमृत लाल, प्रभुलाल पिता गंगल्या जाति अनुसूचित जाति	✓ 13/4/3	- 5.059	3.050
	योग	1	5.059	3.050
9	भंवर लाल पिता दोला जाति भील पता नि.ग्राम भू—स्वामी	- 14/5	- 1.265	1.265
	योग	1	1.265	1.265
10	घोसालाल पिता धूलजी जाति सौंदिया	7/2/1	1.264	0.600
		88/1	0.044	0.044
	योग	2	1.308	0.644

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
11	विष्णु पिता मोगजी जाति सौंधिया	7/2/2 88/2	0.632 0.023	0.332 0.023
	योग	2	<b>0.655</b>	<b>0.355</b>
12	अमृत लाल पिता मोगजी जाति सौंधिया	7/2/3 50/3 88/3	0.633 0.500 0.022	0.332 0.125 0.022
	योग	3	<b>1.155</b>	<b>0.479</b>
13	रामबक्ष पिता नगा जाति दांगी	- 10/3/4	- 2.000	2.000
	योग	1	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	डालूबाई पति बंशीलाल, पूरीलाल पिता मोतीलाल शंकर गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम कुआखेड़ा	- 11/3/3	- 6.323	3.000
	योग	1	<b>6.323</b>	<b>3.000</b>
15	शोभाराम पिता हीरालाल जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी नि. दुंगरपुर	- 203/1	- 0.332	0.332
	योग	1	<b>0.332</b>	<b>0.332</b>
16	मोहन लाल, जगदीश, हरिसिंह आदि पिता देव्या, भंवरी बाई बेवा देव्या जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी	- 113/2/2 - 203/2/1 - 121/1/2/1	- 0.085 - 0.156 - 0.440	0.085 0.156 0.440
	योग	3	<b>0.681</b>	<b>0.681</b>
17	बद्रीलाल पिता रामप्रताप जाति दांगी पता नि.ग्राम चाढूखेड़ा	13/3/3	0.101	0.101
	योग	1	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
18	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लौहार पता नि.ग्राम भू-स्वामी	- 35/4/1	- 0.938	0.938
	योग	1	<b>0.938</b>	<b>0.938</b>
19	विजय सिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	- 131/1 - 69/1 - 93/4/1	- 0.114 - 0.082 - 0.222	0.114 0.082 0.222
	योग	3	<b>0.418</b>	<b>0.418</b>
20	रोडजी पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/2/1	0.421	0.421
	योग	1	<b>0.421</b>	<b>0.421</b>
21	सरजन सिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	- 16/4/1/1	- 0.211	0.211
	योग	1	<b>0.211</b>	<b>0.211</b>
22	रमेश पिता भंवर लाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	- 93/3/1 - 85/1	- 0.422 0.076	0.422 0.076
	योग	2	<b>0.498</b>	<b>0.498</b>
23	कैलाश पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	- 97/1	- 0.253	0.128
	योग	1	<b>0.253</b>	<b>0.128</b>

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
24	नारायण सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 16/4/1/2 ✓ 92/1 ✓ 87/1	✓ 0.632 ✓ 0.034 ✓ 0.017	0.632 0.034 0.017
	योग	3	0.683	0.683
25	राधा बाई पति नारायण सिंह जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 95/1 ✓ 114/1	✓ 0.287 ✓ 0.253	0.086 0.253
	योग	2	0.540	0.339
26	बालूसिंह पिता केशर जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 16/4/2	✓ 0.843	0.843
	योग	1	0.843	0.843
27	प्रेम पिता केशर जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 85/2	✓ 0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
28	द्रोपत बाई बैवा केशर जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 16/2/2	✓ 0.422	0.422
	योग	1	0.422	0.422
29	नन्दलाल उर्फ नाना कुंवर पिता केशर जाति सौंधिया	✓ 87/2 ✓ 92/2 ✓ 93/3/2	✓ 0.017 ✓ 0.034 ✓ 0.422	0.017 0.034 0.422
	योग	3	0.473	0.473
30	सन्तरा बाई बैवा कुंवर लाल, जसरत सिंह, गिरिराज पिता कुंवर लाल जाति सौंधिया	✓ 97/2 ✓ 114/2	✓ 0.253 ✓ 0.253	0.126 0.253
	योग	2	0.506	0.379
31	मांगीलाल पिता केशर जाति सौंधिया	✓ 16/2/3	✓ 0.422	0.422
	योग	1	0.422	0.422
32	चन्द्र सिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया	✓ 16/4/3 ✓ 97/3	✓ 0.843 ✓ 0.253	0.843 0.126
	योग	2	1.096	0.969
33	शंकरलाल, रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति दांगी	✓ 10/3/2	✓ 2.000	0.600
	योग	1	2.000	0.600
34	चन्द्र सिंह, प्रेम, रामलाल पिता रत्नलाल, महेश पिता कालु, खल्लम बाई बैवा कालु, नौरंग बाई पिता रत्नलाल जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 14/1/1/2	✓ 2.570	2.570
	योग	1	2.570	2.570
35	जगदीश पिता बिहारी, नर्मदा बाई पति जगदीश जाति अनुसूचित जाति	✓ 196/1/3	✓ 1.106	0.861
	योग	1	1.106	0.861
36	नारायण पिता शंकरलाल, शैतान बाई पति नारायण जाति अनुसूचित जाति	✓ 196/1/6/1	✓ 0.532	0.532
	योग	1	0.532	0.532
37	दरियाव सिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	✓ 33/1/7/1	✓ 1.630	1.630
	योग	1	1.630	1.630

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
38	मोतीलाल पिता नरभे सिंह जाति सौंधिया	68/1 66	0.029 0.240	0.029 0.240
	योग	2	<b>0.269</b>	<b>0.269</b>
39	मांगीलाल पिता गंगाराम, जशोदा बाई पति मांगीलाल चमार	196/1/8/1-	-0.868	0.434
	योग	1	<b>0.868</b>	<b>0.434</b>
40	लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	23/3/10- 35/2/1 -	-0.065 -0.119	0.065 0.119
	योग	2	<b>0.184</b>	<b>0.184</b>
41	बिहारीलाल पिता मेहताब जाति अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भु - स्वामी	82 - 83 -	-0.215 -0.076	0.215 0.076
	योग	2	<b>0.291</b>	<b>0.291</b>
42	सूरेश चंदबाई पिता बापू दरयाव पिता कालू जाति अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भु - स्वामी	96/1 - 31/1/2 - 33/1/9 -	-0.006 -0.101 -1.627	0.006 0.101 1.627
	योग	3	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>
43	लक्ष्मीनारायण, गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया	96/2 -	-0.816	0.816
	योग	1	<b>0.816</b>	<b>0.816</b>
44	सिद्धनाथ पिता करणसिंह जाति सौंधिया	13/6/4 - 23/3/5 - 35/2/11 - 49/9 -	-0.349 -0.065 -0.119 -0.397	0.349 0.035 0.119 0.297
	योग	4	<b>0.930</b>	<b>0.800</b>
45	चंद्रसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	13/6/5 - 23/3/6 - 35/2/12 - 49/10 -	-0.349 -0.065 -0.119 -0.397	0.349 0.065 0.119 0.297
	योग	4	<b>0.930</b>	<b>0.830</b>
46	लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रताप जाति दाँगी पता नि. ग्राम चाटूखेड़ा भु - स्वामी	13/2/1 - 13/3/1 - 7/1/1/1 -	-0.362 -0.101 -2.557	0.130 0.101 1.800
	योग	3	<b>3.020</b>	<b>2.031</b>
47	चम्पालाल पिता रामप्रताप जाति दाँगी पता नि. ग्राम भु - स्वामी	13/2/2 - 13/3/2 - 7/1/1/2 -	-0.362 -0.102 -0.440	0.150 0.102 0.440
	योग	3	<b>0.904</b>	<b>0.692</b>

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
48	मोहनलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया	182/2 ✓ 195/3 ✓ 81/3 ✓ 78/3 ✓ 84/3 ✓ 112/3 ✓ 116/3 ✓ 78/205/3 ✓	— 1.394 — 0.872 — 0.117 — 0.016 — 0.041 — 0.038 — 0.276 — 0.016	1.394 0.872 0.093 0.016 0.041 0.038 0.276 0.016
	योग	8	2.770	2.746
49	देवलबाई बेवा भंवरलाल जाति सौंधिया	115 ✓	— 0.266	0.266
	योग	1	0.266	0.266
50	गंगाराम पिता भंवर जी जाति सौंधिया	33/1/8/1 ✓	— 0.586	0.586
	योग	1	0.586	0.586
51	इंदरसिंह पिता हिरालाल जाति सौंधिया	85/3 ✓ 87/3 ✓ 92/3 ✓ 93/3/3 ✓	— 0.076 — 0.017 — 0.033 — 0.421	0.076 0.017 0.033 0.421
	योग	4	0.547	0.547
52	विजयसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	78/205/1 ✓ 33/1/6/1 ✓	— 0.031 — 0.565	0.031 0.169
	योग	2	0.596	0.200
53	रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	33/1/6/2 ✓ 112/1 ✓ 116/1 ✓ 81/1 ✓	— 0.565 — 0.076 — 0.550 — 0.234	0.168 0.076 0.550 0.187
	योग	4	1.425	0.981
54	सरजनसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	33/1/6/3 ✓ 78/1 ✓ 84/1 ✓	— 0.565 — 0.031 — 0.082	0.169 0.031 0.082
	योग	3	0.678	0.282
55	छीतालाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया	78/205/2 ✓ 116/2 ✓ 112/2 ✓ 84/2 ✓ 78/2 ✓ 81/2 ✓	— 0.016 — 0.275 — 0.038 — 0.041 — 0.016 — 0.117	0.016 0.275 0.038 0.041 0.016 0.094
	योग	6	0.503	0.480

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
56	नन्दलाल पिता बापुलाल जाति सौंधिया	13/6/1 ~ 23/3/2 ~ 35/2/8 ~ 49/6 ~	~ 0.118 ~ 0.065 ~ 0.119 ~ 0.297	0.118 0.035 0.119 0.297
	योग	4	<b>0.599</b>	<b>0.569</b>
57	लक्ष्मीनारायण पिता बापुलाल जाति सौंधिया	13/6/2 ~ 23/3/3 ~ 35/2/9 ~ 49/7 ~	~ 0.249 ~ 0.065 ~ 0.119 ~ 0.297	0.249 0.065 0.119 0.297
	योग	4	<b>0.730</b>	<b>0.730</b>
58	रमेश पिता बिहारी लाल जाति सौंधिया	13/6/7 ~ 54/2 ~ 139 ~ 148/2 ~ 155 ~ 157/1 ~	~ 0.031 ~ 0.180 ~ 0.063 ~ 0.003 ~ 0.101 ~ 0.088	0.031 0.180 0.063 0.003 0.101 0.088
	योग	6	<b>0.466</b>	<b>0.466</b>
59	बनेसिंह पिता माघु जाति सौंधिया	121/2/1 ~ 13/11/3 ~ 35/2/4 ~ 49/2 ~ 118/3 ~	~ 0.235 ~ 0.249 ~ 0.119 ~ 0.297 ~ 0.128	0.068 0.249 0.119 0.297 0.128
	योग	5	<b>1.028</b>	<b>0.861</b>
60	मांगीलाल पिता माघु जाति सौंधिया	121/2/2 ~	~ 0.465	0.141
	योग	1	<b>0.465</b>	<b>0.141</b>
61	भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	121/2/4 ~ 189/2 ~	~ 0.348 ~ 0.098	0.103 0.098
	योग	2	<b>0.446</b>	<b>0.201</b>
62	उँकारसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	13/11/1 ~ 23/3/11 ~ 35/2/2 ~ 47/1 ~ 118/1 ~	~ 0.081 ~ 0.065 ~ 0.119 ~ 0.151 ~ 0.128	0.081 0.065 0.119 0.075 0.128
	योग	5	<b>0.544</b>	<b>0.468</b>
63	कुमेर पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	13/11/2 ~ 23/3/12 ~ 35/2/3 ~ 47/2 ~ 49/1 ~ 118/2 ~	~ 0.248 ~ 0.044 ~ 0.119 ~ 0.279 ~ 0.018 ~ 0.128	0.248 0.044 0.119 0.139 0.018 0.128
	योग	6	<b>0.836</b>	<b>0.696</b>

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
64	मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया	13/11/4 ✓ 35/2/5 ✓ 49/3 ✓ 118/4 ✓	✓ 0.249 ✓ 0.119 ✓ 0.297 ✓ 0.128	0.249 0.119 0.297 0.128
	योग	4	<b>0.793</b>	<b>0.793</b>
65	गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया	23/3/1 ✓ 35/2/7 ✓ 49/5 ✓	✓ 0.065 ✓ 0.119 ✓ 0.297	0.065 0.119 0.297
	योग	3	<b>0.481</b>	<b>0.481</b>
66	देवीलाल पिता मोतीलाल जाति दाँगी	11/1 ✓ 13/1 ✓	✓ 1.316 ✓ 0.089	1.316 0.089
	योग	2	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>
67	सूरेश पिता बापूलाल, सुगनबाई पति सूरेश जाति अनुसूचित जाति	196/1/2 ✓	✓ 1.518	0.618
	योग	1	<b>1.518</b>	<b>0.618</b>
68	प्रेमनारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया	35/2/13 ✓ 13/6/6 ✓ 54/1 ✓ 144/2 ✓ 148/1 ✓	✓ 0.153 ✓ 0.373 ✓ 0.026 ✓ 0.119 ✓ 0.073	0.153 0.373 0.026 0.038 0.073
	योग	5	<b>0.744</b>	<b>0.663</b>
69	विजयसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	23/3/7 ✓ 60/1 ✓ 188/3 ✓ 166 ✓ 33/1/1/1 ✓	✓ 0.065 ✓ 0.223 ✓ 0.096 ✓ 0.126 ✓ 0.959	0.065 0.089 0.096 0.126 0.959
	योग	5	<b>1.469</b>	<b>1.335</b>
70	अमरसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	✓ 60/2 188/4	✓ 0.223 ✓ 0.096	0.090 0.096
	योग	2	<b>0.319</b>	<b>0.186</b>
71	धीरपसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	✓ 188/5 ✓ 189/1	✓ 0.030 ✓ 0.066	0.030 0.066
	योग	2	<b>0.096</b>	<b>0.096</b>
72	इन्द्रपसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया	✓ 49/11 ✓ 54/3 ✓ 119/1 ✓ 157/2 ✓ 188/1	✓ 0.296 ✓ 0.047 ✓ 0.136 ✓ 0.013 ✓ 0.041	0.296 0.047 0.136 0.013 0.041
	योग	5	<b>0.533</b>	<b>0.533</b>

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
73	देवीलाल पिता हरिसिंह जाति सौंधिया	- 49/12 - 55/1 - 188/2 - 119/2 - 13/8/2	- 0.225 - 0.072 - 0.180 - 0.180 - 0.231	0.225 0.072 0.180 0.180 0.231
	योग	5	<b>0.888</b>	<b>0.888</b>
74	गंगाराम पिता मोतीलाल धापुबाई पति गंगाराम जाति सौंधिया	- 35/3/1 86	- 1.204 0.455	1.204 0.455
	योग	2	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
75	लालजी प्रेमनारायण, नरानसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया	- 91	- 0.228	0.228
	योग	1	<b>0.228</b>	<b>0.228</b>
76	सरजनसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	- 69/2 - 131/2	- 0.082 - 0.114	0.082 0.114
	योग	2	<b>0.196</b>	<b>0.196</b>
77	दरियावसिंह पिता माघु जाति सौंधिया	- 121/2/3 - 49/4 - 118/5 - 144/1	- 0.465 - 0.146 - 0.108 - 0.020	0.141 0.146 0.108 0.020
	योग	4	<b>0.739</b>	<b>0.415</b>
78	सन्जुबाई बेवा प्रमनारायण जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु - स्वामी	- 198/1/4	- 1.305	0.700
	योग	1	<b>1.305</b>	<b>0.700</b>
79	लालजी, रतन, गङ्गा पिता बंशी जाति चमार नि. ग्राम भु - स्वामी	- 7/1/2	- 4.086	1.500
	योग	1	<b>4.086</b>	<b>1.500</b>
80	प्रभुलाल, मांगीलाल, बंशीलाल पिता श्रीलाल नि. ग्राम भु - स्वामी	- 11/3/2	- 2.000	2.000
	योग	1	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
81	शिव पिता धीसा जाति चमार नि. ग्राम भु - स्वामी	- 200/6	- 1.770	1.300
	योग	1	<b>1.770</b>	<b>1.300</b>
82	इन्द्रसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भु - स्वामी	- 200/7	- 1.770	0.253
	योग	1	<b>1.770</b>	<b>0.253</b>
83	लक्ष्मीनारायण पिता फतेसिंह जाति सौंधिया	- 60/3	- 0.111	0.041
	योग	1	<b>0.111</b>	<b>0.041</b>
84	भागीरथ पिता नानुराम जाति नट नि.ग्राम भ-स्वामी	- 203/2/2	- 0.157	0.157
	योग	1	<b>0.157</b>	<b>0.157</b>
कुलयोग :-		<b>190</b>	<b>84.529</b>	<b>63.703</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2617.

**(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013))**

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डालिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम कडलावद के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम :— कडलावद		तहसील – सारंगपुर		जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	कुल भूमि	अर्जित की जाने वाली भूमि	
	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	364.785	309.688	
	योग	364.785	309.688	

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डालिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

	कृषक का नाम/पिता का नाम	भूमि सर्वे कमांक	कुल रकमा	अर्जित किये जाने वाला रकमा
1	2	3	4	5
1	रामकरण अर्जुन सीताबाई भगवतबाई संजूबाई पवित्रा गायत्री पिता बद्रीलाल सजनबाई बेवा बद्रीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1	0.354	0.354
		707/1	0.127	0.127
	योग		0.481	0.481
2	माधुलाल मुन्नालाल कंवरलाल पिता देवा महेश राकेश अनिता बाई पिता मांगीलाल रोहित राहुल नाबा.सर. माता रोडीबाई रोडीबाई बैवा मांगीलाल रामूबाई पति माधुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/2	0.291	0.291
		1/6	0.190	0.190
		707/2	0.062	0.062
	योग		0.543	0.543
3	गोपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/1	1.283	1.283
		4/10	0.095	0.095
		17/1	0.088	0.088
		464/1/1	0.632	0.500
		725	0.152	0.010
		721/1	0.025	0.025
	योग		2.275	2.001
	कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/2	0.632	0.500
		558	0.708	0.628

		638/1	0.177	0.177
		694	0.177	0.177
4	योग		<b>1.694</b>	<b>1.482</b>
5	हरिशचन्द्र आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/1 464/1/3	0.063 0.633	0.063 0.500
	योग		<b>0.696</b>	<b>0.563</b>
6	माखनसिंह उर्फ मोहनसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/4 607/1	0.633 0.025	0.433 0.025
	योग		<b>0.658</b>	<b>0.458</b>
7	देवीसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/1 260/1	0.705 0.240	0.705 0.240
	योग		<b>0.945</b>	<b>0.945</b>
8	चैनसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/2 260/4 696	0.079 0.240 0.215	0.079 0.240 0.215
	योग		<b>0.534</b>	<b>0.534</b>
9	सोरम बाई पति हरिसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/3	0.500	0.500
	योग		<b>0.500</b>	<b>0.500</b>
10	गौरीलाल पिता काशीराम जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/3/1 266/1 383/1 612/1	0.031 0.177 0.456 0.038	0.031 0.177 0.456 0.038
	योग		<b>0.702</b>	<b>0.702</b>
11	कमलाबाई बैदा नानूराम पवित्राबाई उर्फ संतोषबाई पानीबाई उर्फ लीलाबाई पिता नानूराम जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/3/2 266/2 383/2 612/2	0.032 0.177 0.455 0.038	0.032 0.177 0.455 0.038
	योग		<b>0.702</b>	<b>0.702</b>
12	भवरिया पिता देवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/5/2	0.380	0.380
	योग		<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
13	मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1	1.180	1.180
	योग		<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
14	मुकेश पिता मोहनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2	0.590	0.590
	योग		<b>0.590</b>	<b>0.590</b>
15	कृष्णाकुंवर पति भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/8	1.012	1.012

	योग		1.012	1.012
16	भैरुलाल पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/1	0.189	0.189
		4/2/1	0.329	0.329
		4/9/1	0.126	0.126
		723/4	0.014	0.014
	योग		<b>0.658</b>	<b>0.658</b>
17	बाबूलाल पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/2	0.190	0.190
		4/2/2	0.329	0.329
		4/9/2	0.126	0.126
		योग	<b>0.645</b>	<b>0.645</b>
18	लालसिंह पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/3	0.190	0.190
		4/2/3	0.329	0.329
		4/9/3	0.126	0.126
		योग	<b>0.645</b>	<b>0.645</b>
19	उदय सिंह पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/4	0.190	0.190
		4/2/4	0.329	0.329
		4/9/4	0.126	0.126
		योग	<b>0.645</b>	<b>0.645</b>
20	नारायण पिता नंदराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10/1	0.320	0.320
		4/14/1	0.169	0.169
		4/16/1	0.185	0.185
		योग	<b>0.674</b>	<b>0.674</b>
21	मदनलाल पिता नंदराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10/2	0.320	0.320
		4/14/2	0.168	0.168
		4/16/2	0.186	0.186
		योग	<b>0.674</b>	<b>0.674</b>
22	मोहनलाल श्यामबाई पिता जगन्नाथ जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10/3	0.107	0.107
		4/14/3	0.056	0.056
		4/16/3	0.062	0.062
		योग	<b>0.225</b>	<b>0.225</b>
23	गोकूल गंगाबाई रोड़ीबाई पिता जगन्नाथ जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10/4	0.107	0.107
		4/14/4	0.056	0.056
		4/16/4	0.062	0.062
		योग	<b>0.225</b>	<b>0.225</b>
24	भंवरलाल मांगीबाई कमलबाई पिता जगन्नाथ जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10/5	0.107	0.107
		4/14/5	0.056	0.056
		4/16/5	0.062	0.062
		योग	<b>0.225</b>	<b>0.225</b>
25	भंवरलाल पिता देवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/11	<b>0.379</b>	<b>0.379</b>

	योग		<b>0.379</b>	<b>0.379</b>
26	रामसिंह बापूलाल पिता मेहताब जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/12	0.632	0.632
		1/5/1	<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
	योग		<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
27	गंगाबाई पति रामलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	1.138	1.138
			<b>1.138</b>	<b>1.138</b>
28	माधुलाल मुन्नलाल कंवरलाल पिता पूनाजी रोड़ीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	0.557	0.557
		7	0.051	0.051
		25	0.759	0.759
		213	0.051	0.051
		215	0.759	0.759
		672	0.328	0.328
		681	0.367	0.367
		686	0.330	0.330
		792	0.177	0.177
		682	0.342	0.342
		684	0.038	0.038
		731/2/1	0.054	0.054
		731/1	0.107	0.107
	योग		<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
29	बाबूलाल पिता कालुराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.209	0.209
		4/13/3	0.671	0.671
		289/3	0.673	0.673
		717/2	0.170	0.100
			<b>1.723</b>	<b>1.653</b>
30	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/4	0.089	0.089
		5/2	0.379	0.379
		6	0.240	0.240
		137/1/2	0.518	0.518
		141	0.089	0.089
		142/2	0.278	0.278
		852/2	0.057	0.057
			<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
31	रामेश्वर पिता कालुराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5	0.291	0.291
		4/6	0.278	0.278
		4/13/1	0.100	0.100
		38/2	0.082	0.082
		39/2	0.013	0.013
			<b>0.764</b>	<b>0.764</b>
32	गोकुल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति बागरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/7	0.379	0.379
			<b>0.379</b>	<b>0.379</b>

33	भेरुलाल पिता धीसा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12	0.873	0.873
	योग		<b>0.873</b>	<b>0.873</b>
34	शिवनारायण पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/2	0.671	0.671
		289/2	0.224	0.224
	योग		<b>0.895</b>	<b>0.895</b>
35	रामकरण पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/4	0.670	0.670
			<b>0.670</b>	<b>0.670</b>
36	ताराचंद पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/5	0.670	0.670
			<b>0.670</b>	<b>0.670</b>
37	कमल सिह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/15/1	0.316	0.316
		16/1/2	0.184	0.184
		99/1/2	0.189	0.189
		134/1/1	0.126	0.126
		136/2/1	0.235	0.235
		199/1/1	0.152	0.152
		132/1/1	0.314	0.314
		143/3/1	0.126	0.126
		625/2	0.065	0.065
		16/1/1	0.184	0.184
	योग		<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
38	भगवत सिह पिता दुले सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/15/2	0.316	0.316
		132/1/2	0.314	0.314
		136/2/2	0.234	0.234
		143/3/2	0.126	0.126
		199/1/2	0.153	0.153
		134/1/2	0.126	0.126
		202/2	0.139	0.139
	योग		<b>1.408</b>	<b>1.408</b>
39	तेजसिह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/1	0.291	0.291
		8/1	0.367	0.367
		24	0.417	0.417
		137/1/1	0.607	0.607
		142/1	0.279	0.279
		852/1	0.057	0.057
			<b>2.018</b>	<b>2.018</b>
40	बापूलाल पिता नवल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9	1.391	1.391
		10/2	0.368	0.368
			<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
41	बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1	1.895	1.895
		156	0.177	0.177
		11	0.126	0.126
		12	0.228	0.228
		योग	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>

42	संगीताबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3/2	0.468	0.468
		13/2	0.070	0.070
	योग		<b>0.538</b>	<b>0.538</b>
43	गोकुलप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/2	0.443	0.443
		145/2	0.194	0.194
		146/6	0.113	0.113
		196	0.063	0.063
		197/1	0.816	0.816
		258/7	0.185	0.185
	योग		<b>1.814</b>	<b>1.814</b>
44	महादेवी पति दरयाव सिह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.632	0.632
		26/1	0.835	0.835
		16/2	0.480	0.480
	योग		<b>1.947</b>	<b>1.947</b>
45	कालुसिंह पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/1	0.075	0.075
		238/2/1	0.114	0.114
		239/2/1	0.152	0.152
		242/1/1	0.012	0.012
		240/1	0.061	0.061
		30/1/1	0.145	0.145
		31/1	0.002	0.002
	योग		<b>0.561</b>	<b>0.561</b>
46	रामसिंह पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/2	0.076	0.076
		238/2/2	0.114	0.114
		239/2/2	0.152	0.152
		242/1/2	0.012	0.012
		240/2	0.060	0.060
		30/1/2	0.145	0.145
		31/2	0.002	0.002
	योग		<b>0.561</b>	<b>0.561</b>
47	बापुलाल पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/3	0.076	0.076
		238/2/3	0.114	0.114
		239/2/3	0.152	0.152
		242/1/3	0.012	0.012
		240/3	0.061	0.061
		30/1/3	0.146	0.146
		31/3	0.001	0.001
	योग		<b>0.562</b>	<b>0.562</b>
48	विष्णुप्रसाद पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/4	0.076	0.076
		238/2/4	0.113	0.113
		239/2/4	0.151	0.151
		242/1/4	0.012	0.012

		30/1/4	0.146	0.146
		240/4	0.060	0.060
		31/4	0.001	0.001
	योग		<b>0.559</b>	<b>0.559</b>
49	गोविधन पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/5	0.076	0.076
		238/2/5	0.114	0.114
		239/2/5	0.152	0.152
		242/1/5	0.011	0.011
		30/1/5	0.145	0.145
		31/5	0.001	0.001
		240/5	0.061	0.061
		योग	<b>0.560</b>	<b>0.560</b>
50	दरयाव सिह पिता गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1	0.537	0.537
		703/2	0.126	0.126
		योग	<b>0.663</b>	<b>0.663</b>
51	संतोष सिह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2	0.537	0.537
		36	1.404	1.404
		199/2	0.306	0.306
		272/1	0.154	0.046
		272/2	0.076	0.023
		272/3	0.468	0.141
		625/1	0.065	0.065
		259/2	1.660	1.660
		35/3	0.253	0.253
		योग	<b>4.923</b>	<b>4.435</b>
52	प्रभुलाल जसोदा बाई पिता रामलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220	0.101	0.101
		223/4	0.392	0.392
		योग	<b>0.493</b>	<b>0.493</b>
53	रामकरण विष्णु पिता मेहताब व भूरीबाई बेवा मेहताब पिता मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/1	0.185	0.185
		223/3	0.143	0.143
		योग	<b>0.328</b>	<b>0.328</b>
54	भूराबाई पति मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरनगांव जिला शाजापुर भूमि स्वामी	17/2	0.089	0.089
		18/2	0.852	0.852
		345	0.126	0.126
		347	0.164	0.164
		348/2	0.575	0.575
		352/1/1	0.253	0.180
		योग	<b>2.059</b>	<b>1.986</b>

55	कमल सिंह आ. दूलेसिंह लोकेन्द्र सिंह पिता भगवत् सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.426	0.426
	योग		0.426	0.426
56	रामचंद्र पिता देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/1	0.057	0.057
	योग		0.057	0.057
57	ब्रजभोहन पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20/1/1	0.035	0.035
		21/1/1	0.335	0.335
		22/1/1/1	0.006	0.006
	योग		0.376	0.376
58	दिनेश कुमार पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20/1/2	0.034	0.034
		21/1/2	0.335	0.335
		22/1/1/2	0.006	0.006
	योग		0.375	0.375
59	रामचंद्र पिता देव्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/1/2	0.125	0.125
		760/1/2	0.077	0.077
		763/1/2	0.022	0.022
		764/1/2	0.083	0.083
		865/1/2	0.030	0.030
		866/1/2	0.020	0.020
		870/1/2	0.079	0.079
		871/1/1/2	0.031	0.031
		871/2/1/2	0.030	0.030
		872/1/2	0.013	0.013
	योग		0.510	0.510
60	गंगाराम पिता देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/2/1	0.028	0.028
		20/2/1	0.035	0.035
		21/2/1	0.506	0.506
	योग		0.569	0.569
61	विष्णु पिता देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/2/2	0.029	0.029
		20/2/2	0.035	0.035
		21/2/2	0.506	0.506
	योग		0.570	0.570
62	अयोध्याबाई बैवा हीरा सिंहलाल पिता हीरा रमेश केलाश पिता हीरा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/2	0.834	0.834
	योग		0.834	0.834
63	होकमचंद पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27	0.898	0.898
	योग	98	0.342	0.342

	योग		<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
64	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28	0.860	0.860
		96	0.076	0.076
		97	1.391	1.391
	योग		<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
65	कमलाबाई वि. देवीसिंह जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29	0.430	0.430
			<b>0.430</b>	<b>0.430</b>
66	मनोहर पिता गंगाराम जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/3/1	0.063	0.063
		239/4/1	0.316	0.316
		240/7	0.152	0.152
	योग		<b>0.531</b>	<b>0.531</b>
67	कन्हैया पिता गंगाराम जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/3/2	0.063	0.063
		239/4/2	0.316	0.316
		30/1/6	0.364	0.363
		240/6	0.152	0.152
		31/6	0.006	0.006
	योग		<b>0.901</b>	<b>0.900</b>
68	राधेश्याम गोपाल पिता बापूलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2	0.363	0.363
			<b>0.363</b>	<b>0.363</b>
69	मांगीलाल पिता दरयाव जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32	0.101	0.101
		33/3	0.668	0.668
		95/3	0.152	0.152
		198/3	0.889	0.889
		248/2	0.130	0.130
		250/2	0.171	0.171
		251/2	0.240	0.240
		281	0.658	0.658
		611/3	0.131	0.131
		613/2	0.063	0.063
		614/3	0.042	0.042
		40/3	0.304	0.304
		177	0.025	0.025
		252/3	0.017	0.017
		279/3/3	0.332	0.332
		143/2/3	0.295	0.295
		151/3	0.080	0.080
		247/1/1	0.025	0.025
		247/4/3	0.010	0.010
	योग		<b>4.333</b>	<b>4.333</b>
	दूलोसिंह पिता दरियाव सिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1	0.888	0.888
		611/1	0.130	0.130
		613/4	0.063	0.063

70	614/1	0.042	0.042
	40/1	0.304	0.304
	41/1	1.609	0.440
	143/2/1	0.295	0.295
	151/1	0.080	0.080
	198/1	0.890	0.890
	247/5	0.100	0.100
	253	0.190	0.190
	254	0.164	0.164
	255	0.038	0.038
	278/1	0.965	0.965
	204/1	0.173	0.173
	247/1/3	0.026	0.026
	247/4/1	0.010	0.010
	252/1	0.017	0.017
	279/3/1	0.332	0.132
	योग	<b>6.316</b>	<b>4.947</b>
71	बापूलाल पिता दरियाव सिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2	0.789
		41/2	0.300
		611/2	0.131
		613/3	0.064
		614/2	0.042
		40/2	0.303
		182	0.025
		198/2	0.889
		204/2	0.346
		247/4/2	0.010
		247/1/2	0.025
		252/2	0.017
		248/1	0.148
		250/1	0.171
		251/1	0.253
		278/2	0.613
		279/3/2	0.332
		143/2/2	0.295
		151/2	0.080
	योग	<b>4.833</b>	<b>4.683</b>
72	मांगीलाल, बापूलाल, दूलेसिंह पिता दरियाव जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (कुंआ शामिल)	613/1	0.025
73	जानीबाई पति गुलाब जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34	0.152

	योग		0.152	0.152
74	प्रभुनाथ पिता दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/1	0.253	0.253
	योग		<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
75	गोपाल पिता प्रभुलाल जाति कुल्ली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	38/1 39/1 289/1 717/1	0.082 0.012 0.898 0.171	0.082 0.012 0.898 0.040
	योग		<b>1.163</b>	<b>1.032</b>
76	श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतवास गुरु महेत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	92 93 125 103 120/1 105 799 801 802 803 804 114 115 116 117 118 119 120/2 121 122 152 100 101 102 104	2.655 0.772 6.185 1.830 0.114 1.354 2.175 0.076 0.582 0.392 0.076 0.063 0.139 0.101 0.038 0.443 0.417 0.122 0.126 0.772 0.253 0.772 1.037 0.076 0.810	0.025 0.310 6.185 1.420 0.080 0.934 2.175 0.076 0.582 0.392 0.076 0.063 0.139 0.101 0.038 0.443 0.417 0.122 0.126 0.772 0.253 0.772 1.037 0.076 0.810
	योग		<b>21.380</b>	<b>17.424</b>
77	गंगाबाई पति प्रभुलाल जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94	0.772	0.772
	योग		<b>0.772</b>	<b>0.772</b>
78	भगवान सिह मोडसिह राय सिह नारायण मनोहर सागर सिह होकम बाई पिता प्रभुलाल जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1/1 239/5	0.304	0.304
			<b>0.595</b>	<b>0.595</b>

		615/1	0.202	0.202
	योग		<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
79	सिंद्वनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1/2	0.126	0.126
		95/4/1	0.221	0.101
		149/1/1	0.193	0.193
		199/3/1	0.097	0.097
		624/3	0.227	0.147
		625/4	0.065	0.065
	योग		<b>0.929</b>	<b>0.729</b>
80	बालूसिंह पिता गेन्दसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/2	0.347	0.327
		149/1/2	0.193	0.193
		199/3/2	0.097	0.097
		624/2	0.226	0.226
	योग		<b>0.863</b>	<b>0.843</b>
81	शंकर सिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/3	0.347	0.347
		149/1/3	0.193	0.193
		199/3/3	0.097	0.097
		625/3/1	0.226	0.226
	योग		<b>0.863</b>	<b>0.863</b>
82	मेहरबान सिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/4	0.347	0.347
		149/1/4	0.193	0.193
		199/3/4	0.097	0.097
		624/1	0.142	0.142
		625/4/2	0.085	0.085
	योग		<b>0.864</b>	<b>0.864</b>
83	रामलाल राधेश्याम पिता भैरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/1/1	0.190	0.190
		762/4	0.335	0.050
	योग		<b>0.525</b>	<b>0.240</b>
84	धुला पिता नान्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/2/1	0.142	0.142
		762/5/1	0.126	0.126
		764/4/1	0.084	0.084
		865/4/1	0.030	0.030
		866/4/1	0.020	0.020
		870/4/1	0.079	0.079
		872/3/1	0.013	0.013
		871/2/4/1	0.032	0.032
		871/1/4/1	0.032	0.032
	योग		<b>0.558</b>	<b>0.558</b>
85	बालु पिता पीरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/2/2	0.143	0.143
		762/5/2	0.126	0.126
		764/4/2	0.084	0.084
		865/4/2	0.030	0.030
		866/4/2	0.021	0.021

		870/4/2	0.079	0.079
		871/2/4/2	0.030	0.030
		872/3/2	0.013	0.013
	योग		<b>0.526</b>	<b>0.526</b>
86	दरियाव सिह पिता गोपीलाल जाति मेधवाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/3	0.284	0.284
	योग		<b>0.284</b>	<b>0.284</b>
87	गंगाधर पिता सोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	763/2/1 764/2/1 865/2/1 866/2/1 870/2/1 871/2/1 871/1/2/1 873/1 760/2/1 762/2/1	0.008 0.082 0.030 0.020 0.079 0.030 0.032 0.007 0.077 0.126	0.008 0.082 0.030 0.020 0.079 0.030 0.032 0.007 0.077 0.126
	योग		<b>0.491</b>	<b>0.491</b>
88	कैलाश जगन्नाथ बाबुलाल कलाबाई पिता किशनलाल ग्यारसीबाई बेवा किशनलाल कमलसिंह सजनबाई ममताबाई संतोषबाई मायाबाई पिता रामप्रसाद मांगीबाई बेवा रामप्रसाद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	763/2/2 764/2/2 865/2/2 866/2/2 870/2/2 871/2/2 873/2 760/2/2 871/1/2/2 762/2/2	0.007 0.082 0.030 0.021 0.079 0.030 0.006 0.078 0.031 0.126	0.007 0.082 0.030 0.021 0.079 0.030 0.006 0.078 0.031 0.126
	योग		<b>0.490</b>	<b>0.490</b>
89	देवा पिता शोभा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/11	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
90	देव्या पिता शोभा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/4 703/1/1/1	0.285 0.085	0.285 0.085
	योग		<b>0.370</b>	<b>0.370</b>
91	सिद्धु पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/1 762/3/1 763/3/1 764/3/1 866/3/1 870/3/1 871/2/3/1 871/1/3/1	0.057 0.050 0.006 0.033 0.008 0.032 0.012 0.001	0.057 0.050 0.006 0.033 0.008 0.032 0.012 0.001

		872/2/1	0.005	0.005
	योग		<b>0.204</b>	<b>0.204</b>
92	अनार पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/2	0.057	0.057
		762/3/2	0.050	0.050
		763/3/2	0.006	0.006
		764/3/2	0.033	0.033
		866/3/2	0.009	0.009
		870/3/2	0.032	0.032
		871/1/3/2	0.013	0.013
		871/2/3/2	0.012	0.012
		872/2/2	0.005	0.005
		760/3/2	0.031	0.031
	योग		<b>0.248</b>	<b>0.248</b>
93	गोकल पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/3	0.057	0.057
		762/3/3	0.050	0.050
		763/3/3	0.006	0.006
		764/3/3	0.034	0.034
		866/3/3	0.008	0.008
		870/3/3	0.031	0.031
		871/3/3	0.012	0.012
		871/3/2/3	0.018	0.018
		872/2/3	0.005	0.005
		760/3/3	0.031	0.031
	योग		<b>0.252</b>	<b>0.252</b>
94	बापू पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/4	0.057	0.057
		762/3/4	0.050	0.050
		980/3/4	0.043	0.022
		763/3/4	0.006	0.006
		764/3/4	0.034	0.034
		866/3/4	0.008	0.008
		870/3/4	0.031	0.031
		871/2/3/4	0.012	0.012
		871/1/3/4	0.001	0.001
		872/2/4	0.005	0.005
	योग		<b>0.277</b>	<b>0.256</b>
95	हरिसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.004	0.004
		110/1	0.036	0.036
		604/1	0.019	0.019
		605	0.063	0.063
		606/1	0.026	0.026
		925/2/1	0.138	0.012
	योग	964	<b>0.286</b>	<b>0.160</b>

96	भगवतसिंह पिता दूर्जन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/2	0.004	0.004
		110/2	0.036	0.036
		528/1	0.312	0.015
		606/2	0.107	0.107
		925/2/2	0.138	0.012
	योग		<b>0.597</b>	<b>0.174</b>
97	शिवराजसिंह पिता दूर्जन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/3	0.004	0.004
		110/3	0.036	0.036
		705/1	0.098	0.098
		883/1	0.290	0.290
		925/2/3	0.138	0.012
	योग		<b>0.566</b>	<b>0.440</b>
98	मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/4	0.004	0.004
		110/4	0.036	0.036
		687/1	0.466	0.200
		528/2	0.485	0.025
		606/3	0.107	0.107
	योग		<b>1.236</b>	<b>0.382</b>
99	चैनसिंह पिता दूर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/5	0.004	0.004
		110/5	0.036	0.036
		705/2	0.098	0.098
		925/2/5	0.138	0.010
		योग	<b>0.276</b>	<b>0.148</b>
	अर्जुनसिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/6	0.004	0.004
100		110/6	0.028	0.028
		687/2	0.233	0.120
		604/2	0.054	0.054
		योग	<b>0.319</b>	<b>0.206</b>
	घनश्याम पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/7	0.005	0.005
101		110/7	0.037	0.037
		530/2	0.338	0.010
		604/3	0.054	0.054
		882	0.126	0.126
		883/2	0.089	0.089
		888	0.076	0.076
		925/2/7	0.085	0.005
	687/3	0.233	0.095	

A7D

	<b>योग</b>		<b>1.043</b>	<b>0.497</b>
102	राजवर्धन सिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/8	0.005	0.005
		110/8	0.087	0.087
		530/3	0.321	0.020
		884/8	0.061	0.061
		604/4	0.054	0.054
		705/3	0.196	0.196
	<b>योग</b>		<b>0.724</b>	<b>0.423</b>
103	अमृतबाई पति कन्हैयालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112	0.342	0.300
	<b>योग</b>		<b>0.342</b>	<b>0.300</b>
104	रामगोपाल पिता भरतदास कमलाबाई श्यामाबाई पिता भरतदास रामबाबू पिता हरिदास कलावती पिता हरिदास माता मुनीबाई पिता भरतदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.265	0.185
		793/1	0.152	0.152
	<b>योग</b>		<b>0.417</b>	<b>0.337</b>
105	रामचंद्र पिता सालगराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123	0.746	0.746
		124	0.063	0.063
	<b>योग</b>		<b>0.809</b>	<b>0.809</b>
106	कंवरलाल पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/1	0.082	0.082
		224/4/1	0.074	0.074
		170/2/1	0.061	0.061
		172/2/1	0.120	0.120
	<b>योग</b>		<b>0.337</b>	<b>0.337</b>
107	गोकूल रामकैलाश बाबूलाल प्रेमबाई आ. रत्नलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	132/2	0.594	0.594
		133	0.291	0.291
		136/1	0.127	0.127
		135/2	0.202	0.202
	<b>योग</b>		<b>1.214</b>	<b>1.214</b>
108	रोद्धूलाल सिंहबाई पिता माधु जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135/1	0.102	0.102
	<b>योग</b>		<b>0.102</b>	<b>0.102</b>
109	रामसिंह अनार सिंह कन्हैयालाल बनेसिंह मांगीलाल शंकरसिंह पप्पुलाल पिता नारायण बाबूलाल राधेश्याम शिवलाल पिता दरियाव सिंह भागीरथ बंशीलाल गंगाराम भेरुलाल हरिसिंह पिता धूल जी भूलीबाई केसरबाई सुलनीबाई पिता पुरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/2	0.222	0.222
		139	0.645	0.645
		160	0.025	0.025
		161	0.063	0.063
		163	0.177	0.177
		165	0.126	0.126
		282	0.114	0.114

		179	0.025	0.025
		131	0.152	0.152
	योग		<b>1.549</b>	<b>1.549</b>
110	बाबूलाल पिता दरियावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/3/1	0.229	0.229
		138/2/1	0.072	0.072
		164/2/1	0.007	0.007
		170/1/1	0.018	0.018
		171/1	0.021	0.021
		178/2/1	0.037	0.037
		180/1	0.017	0.017
		183/2/1	0.040	0.040
		224/2/1	0.049	0.049
			<b>0.490</b>	<b>0.490</b>
111	राधेश्याम पिता दरियावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/3/2	0.230	0.230
		138/2/2	0.073	0.073
		164/2/2	0.006	0.006
		170/1/2	0.018	0.018
		171/2	0.021	0.021
		178/2/2	0.038	0.038
		180/2	0.017	0.017
		183/2/2	0.040	0.040
		224/2/2	0.050	0.050
			<b>0.493</b>	<b>0.493</b>
112	शिवलाल पिता दरियावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/3/3	0.230	0.230
		138/2/3	0.073	0.073
		164/2/3	0.007	0.007
		170/1/3	0.019	0.019
		171/3	0.021	0.021
		178/2/3	0.038	0.038
		180/3	0.017	0.017
		183/2/3	0.040	0.040
		224/2/3	0.050	0.050
			<b>0.495</b>	<b>0.495</b>
113	तेजसिंह नारायणीबाई पिता अमरा भोनीबाई बेवा अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/1	0.084	0.084
		674/1	0.093	0.093
		209/1	0.480	0.480
			<b>0.657</b>	<b>0.657</b>

114	रुद्धनाथ पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/2	0.084	0.084
		674/2	0.092	0.092
		209/2	0.481	0.481
	योग		<b>0.657</b>	<b>0.657</b>
115	जगन्नाथ पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/3	0.085	0.085
		674/3	0.093	0.093
		209/3	0.481	0.481
	योग		<b>0.659</b>	<b>0.659</b>
116	गोपाल पिता गुलाब जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/1/1	0.510	0.510
		योग	<b>0.510</b>	<b>0.510</b>
117	नारान पिता गुलाब जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/2/1	0.510	0.510
		योग	<b>0.510</b>	<b>0.510</b>
118	राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/1	0.442	0.442
		145/1	0.195	0.195
		258/1	0.185	0.185
		277/1	0.298	0.298
		14/3/1	0.468	0.468
		13/1	0.069	0.069
	योग		<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
119	विनोद पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/1	0.750	0.750
		197/2	0.423	0.408
		206/3	0.069	0.069
		257	0.039	0.039
		258/4	0.148	0.148
	योग		<b>1.429</b>	<b>1.414</b>
120	संजय पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/2	0.749	0.749
		197/3	0.424	0.408
		206/4	0.069	0.069
		258/5	0.186	0.186
	योग		<b>1.428</b>	<b>1.412</b>
121	रामेश्वर पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/3	0.500	0.500
		205/5	0.250	0.250
		206/1	0.047	0.047
		246/1	0.089	0.089
		258/2	0.124	0.124
	योग	(1) 12	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>

122	रामनारायण पिता शिवलाल जाति बहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/4	0.500	0.500
		205/2	0.167	0.167
		206/2	0.047	0.047
		246/2	0.089	0.089
		258/3	0.123	0.123
		276/2	0.207	0.207
	योग		<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
123	घनश्याम पिता शिवलाल जाति बहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/5	0.500	0.500
		205/1	0.167	0.167
		206/5	0.046	0.046
		246/5	0.088	0.088
		258/6	0.124	0.124
		276/3	0.207	0.207
	योग		<b>1.132</b>	<b>1.132</b>
124	गिरवर सिह पिता मोखम सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/1	0.461	0.461
		147/2/5	0.041	0.041
		192/1/2	0.356	0.356
		273/1/4	0.291	0.070
		275/5	0.286	0.286
		621/1/3	0.103	0.103
	योग		<b>1.538</b>	<b>1.317</b>
125	मनोहर सिह पिता मोखम सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/1	0.531	0.531
		275/1	0.285	0.285
		192/2/1	0.214	0.214
		273/1/1	0.291	0.070
		621/2/1	0.052	0.052
		योग		<b>1.373</b>
	योग			<b>1.152</b>
126	भगवान सिह पिता मोखम सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/3	0.642	0.642
		192/2/2	0.214	0.214
		275/3	0.286	0.286
		273/1/2	0.291	0.070
		621/1/1	0.053	0.053
		621/2/3	0.052	0.052
	योग		<b>1.538</b>	<b>1.317</b>
127	ओछपकुंवर पति राजेंद्र जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/4	0.630	0.630
		189	0.025	0.025
		192/1/1	0.137	0.137
		192/2/3	0.066	0.066

		273/1/3	0.290	0.060
		275/4	0.286	0.286
		621/1/2	0.104	0.104
	योग		1.538	1.308
128	रामलाल पिता नंदराम जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/2	0.076	0.076
		150	0.079	0.079
		858/1	0.088	0.088
		860	0.315	0.315
		861/1	0.045	0.045
	योग		0.603	0.603
129	शिवलाल नानूराम पिता देवा हि 1/2 धुला पिता प्यारा हि 1/2 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	153	0.089	0.089
		722	0.038	0.038
			0.127	0.127
130	केसरसिंह पिता मोतीलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	154	0.152	0.152
		181	0.063	0.063
		162	0.013	0.013
		184	0.228	0.228
			0.456	0.456
131	शिवसिंह पिता सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/2	0.063	0.063
		262	0.139	0.139
		400/23	0.330	0.330
		400/25	0.342	0.342
		400/26	0.506	0.506
		400/24	0.506	0.506
		456/15	0.215	0.150
		607/2	0.026	0.026
		633/2	0.034	0.034
		732/1	0.063	0.063
		724/3	0.076	0.076
	योग		2.300	2.235
132	पदन कुमार पिता देवीलाल लीलाबाई देवा देवीलाल जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157	0.190	0.190
		158	0.038	0.038
		787	0.114	0.114
			0.342	0.342
	भागीरथ बंशीलाल गंगाराम भैरूलाल हरिप्रसाद	166	0.126	0.126

133	पिता धूला जाते भोल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	168	0.063	0.063
		172/1	0.240	0.240
		224/3	0.149	0.149
	योग		<b>0.578</b>	<b>0.578</b>
134	गोपाल पिता भवंरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/2	0.082	0.082
		224/4/2	0.075	0.075
		170/2/2	0.061	0.061
		172/2/2	0.121	0.121
	योग		<b>0.339</b>	<b>0.339</b>
135	राजाराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/2	0.004	0.004
		188/2	0.063	0.063
		190/2	0.021	0.021
		191/2	0.097	0.097
		193/2	0.265	0.265
		194/2	0.029	0.029
		195/2	0.021	0.021
		235/2	0.270	0.270
		236/2	0.008	0.008
		280/2	0.481	0.481
		302/2	0.404	0.404
		327/2	0.185	0.185
		328/2	0.203	0.203
		340/2	0.241	0.241
		341/2	0.034	0.034
		342/2	0.038	0.038
		329/2	0.675	0.220
		330/2	1.672	0.110
	योग		<b>4.736</b>	<b>2.719</b>
136	आत्माराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/3	0.004	0.004
		188/3	0.063	0.063
		190/3	0.021	0.021
		191/3	0.097	0.097
		193/3	0.264	0.264
		194/3	0.030	0.030
		327/3	0.186	0.186
		328/3	0.202	0.202
		341/3	0.033	0.033
		342/3	0.038	0.038
		195/3	0.021	0.021
		235/3	0.270	0.270
		236/3	0.009	0.009
	योग		<b>0.481</b>	<b>0.481</b>

		340/3	0.240	0.240
		329/3	0.674	0.110
		775/3	0.025	0.025
		777/2	0.025	0.025
	योग		<b>2.683</b>	<b>2.119</b>
137	गजराज सिह पिता मोखम सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.025	0.025
		273/2	0.101	0.035
		273/3	0.063	0.030
		274	0.126	0.126
		275/2	0.286	0.286
		185	0.253	0.253
		186	0.215	0.215
		187	0.304	0.304
		621/2/2	0.155	0.155
		योग	<b>1.528</b>	<b>1.429</b>
138	देवसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/1	0.005	0.005
		188/1/1	0.021	0.021
		190/1/1	0.007	0.007
		191/1/1	0.032	0.032
		193/1/1	0.088	0.088
		194/1/1	0.010	0.010
		195/1/1	0.007	0.007
		236/1/1	0.003	0.003
		328/1/2	0.019	0.019
		329/1/1	0.224	0.224
		340/1/1	0.080	0.080
		341/1/1	0.011	0.011
		342/1/1	0.013	0.013
		775/1/1	0.008	0.008
		777/1/1	0.008	0.008
139	कविता पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	330/1/1	0.557	0.180
		योग	<b>1.093</b>	<b>0.716</b>
		188/1/2	0.021	0.021
		190/1/2	0.007	0.007
		191/1/2	0.033	0.033
		193/1/2	0.088	0.088
		194/1/2	0.010	0.010
		195/1/2	0.007	0.007
		236/1/2	0.003	0.003
		280/1/2	0.076	0.076

		341/1/2	0.012	0.012
		342/1/2	0.013	0.013
		775/1/2	0.008	0.008
		777/1/2	0.009	0.009
	योग		0.940	0.841
140	संगीताबाई पिता दिनेश कुमार संतोषबाई बैवा दिनेश कुमार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1/3	0.022	0.022
		190/1/3	0.007	0.007
		191/1/3	0.032	0.032
		193/1/3	0.089	0.089
		194/1/3	0.010	0.010
		195/1/3	0.007	0.007
		236/1/3	0.002	0.002
		280/1/1	0.404	0.404
		328/1/3	0.020	0.020
		341/1/3	0.011	0.011
		342/1/3	0.012	0.012
		775/1/3	0.009	0.009
		777/1/3	0.009	0.009
		340/1/3	0.080	0.080
	योग		0.714	0.714
141	मांगूसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/1	0.173	0.173
		201/2/1	0.021	0.021
		249/1/1	0.007	0.007
		622/1/1	0.106	0.106
		623/1/1	0.072	0.062
		640/1/1	0.012	0.012
		641/1/1	0.029	0.029
		864/1/1	0.017	0.017
	योग		0.437	0.427
142	छोटूसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/2	0.173	0.173
		201/2/2	0.021	0.021
		249/1/2	0.006	0.006
		622/1/2	0.104	0.104
		623/1/2	0.072	0.072
		640/1/2	0.013	0.013
		641/1/2	0.030	0.030
		864/1/2	0.017	0.017
	योग		0.436	0.436
143	अंतरसिंह पिता पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1/3	0.173	0.173
		201/2/3	0.021	0.021
		249/1/3	0.006	0.006
		622/1/3	0.106	0.106
		623/1/3	0.071	0.071
		640/1/3	0.013	0.013

		641/1/3	0.030	0.030
		864/1/3	0.016	0.016
1	योग		<b>0.436</b>	<b>0.436</b>
144	सरे कुंवर बैवा रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	616/1	0.177	0.177
	योग		<b>0.177</b>	<b>0.177</b>
145	पप्पुकुंवर पति मांगूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/2 201/1 249/2 620 623/2 640/2 641/2 864/2 622/2	0.518 0.063 0.019 0.038 0.228 0.038 0.088 0.051 0.418	0.518 0.063 0.019 0.038 0.085 0.038 0.088 0.051 0.418
	योग		<b>1.461</b>	<b>1.318</b>
146	दिलीपसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/1/1 202/1/2 207/1/1 208/1	0.126 0.126 0.207 0.021	0.126 0.126 0.207 0.021
	योग		<b>0.480</b>	<b>0.480</b>
147	हरिसिंह पिता पदम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	268/2 335/1	0.060 0.184	0.060 0.165
	योग		<b>0.244</b>	<b>0.225</b>
148	विकमसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/19/2 335/2 268/3	1.250 0.183 0.060	0.021 0.165 0.060
	योग		<b>1.493</b>	<b>0.246</b>
149	भंवरलाल पिता लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	268/4 270/2/2	0.060 0.203	0.060 0.203
	योग		<b>0.263</b>	<b>0.263</b>
150	शंकरसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	268/1 270/2/3	0.060 0.202	0.060 0.202
	योग		<b>0.262</b>	<b>0.262</b>
151	मायाबाई पति निर्भयसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/5/3	1.517	1.517
	योग		<b>1.517</b>	<b>1.517</b>
152	हरिसिंह विक्रमसिंह पिता पदम सिंह गुलाबकुंवर बैवा पदमसिंह राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	270/2/1 271/19/3	0.405 0.029	0.405 0.029

	योग		0.434	0.434
153	आंनदकुंवरबाई पत्ति नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	626	0.303	0.303
		628	0.038	0.038
		636/4	0.051	0.051
		618	0.164	0.164
		203	0.468	0.468
		615/2/2	0.101	0.101
		615/2/1	0.101	0.101
	योग		<b>1.226</b>	<b>1.226</b>
154	श्यामाबाई पति तेज सिंह जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	205/3	0.250	0.250
		205/4	0.250	0.250
		22/2	0.051	0.051
		23	0.126	0.126
	योग		<b>0.677</b>	<b>0.677</b>
155	दुलेसिंह पिता छत्रसालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/2/1	0.207	0.207
		208/2	0.021	0.021
	योग		<b>0.228</b>	<b>0.228</b>
156	राजेंद्र सिंह पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/3	0.333	0.333
		208/3	0.021	0.021
	योग		<b>0.354</b>	<b>0.354</b>
157	निर्भय सिंह पिता सेवालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/1	0.538	0.538
		214/1	0.513	0.513
		237/1	0.013	0.013
		238/1	0.569	0.569
	योग		<b>1.633</b>	<b>1.633</b>
158	रामबाबू पिता भागीरथ नाबा सर माता धापूबाई बैंगा भागीरथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/2	0.537	0.537
		237/2	0.012	0.012
		214/2	0.512	0.512
	योग		<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
159	सौरमबाई पति मोहनलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	216	0.569	0.569
			<b>0.569</b>	<b>0.569</b>
160	नारायण पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/1	0.379	0.379
		223/2	0.493	0.493
			<b>0.872</b>	<b>0.872</b>
161	गंगाराम पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/2	0.380	0.380
		731/2/2	0.054	0.054
		465	0.506	0.446
		806	0.177	0.177

	योग		1.117	1.057
162	तंवरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/3	0.051	0.051
	योग		0.051	0.051
163	गंगाधर पिता गुलाब रोडीबाई वि. गुलाब जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	226/1 226/2 229 232/5 298/8	0.101 1.328 2.086 0.696 0.506	0.101 1.328 2.086 0.696 0.506
	योग		4.717	4.717
164	राधेश्याम पिता ऐरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	227 392/9/3 393/3 395/1/3 308/2/1/4	1.151 0.101 0.733 0.253 0.080	1.151 0.101 0.733 0.253 0.080
	योग		2.318	2.318
165	भंवरलाल पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	228	2.339	2.339
	योग		2.339	2.339
166	हरीसिंह पिता भैरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/1	0.164	0.164
	योग		0.164	0.164
167	कालूसिंह पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/2 232/3/3 233 298/2 287/1	0.038 0.674 1.328 0.506 0.594	0.038 0.674 1.328 0.506 0.594
	योग		3.140	3.140
168	गोरखनसिंह पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/3/1 286/1 287/2 323	0.674 1.378 0.671 0.898	0.674 1.378 0.671 0.898
	योग		3.621	3.621
169	बाबुलाल पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/3/2 286/2	0.674 2.049	0.674 2.049
	योग		2.723	2.723
170	भंवरलाल देवसिंह सौरमबाई पिता मुन्ना जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/4 292 467	0.319 0.696 0.620	0.319 0.696 0.020
	योग		1.635	1.035
171	भगवतीबाई पति कालूसिंह जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	235/1	0.270	0.270

योग			<b>0.270</b>	<b>0.270</b>
172	दीपक पिता भवानीशंकर गोविन्द पिता भवानीशंकर नावा सरपर माता उमाबाई पति भवानीशंकर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/1/1	0.045	0.045
	243/1	0.076	0.076	
	244/1	0.076	0.076	
	245/1	0.032	0.032	
	285	2.554	2.554	
	326	0.721	0.721	
	771/1	0.057	0.057	
	774/1	0.031	0.031	
	776/1	0.050	0.050	
	योग		<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
173	सावित्रि बाई पति दिनेश जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/1/2	0.044	0.044
	243/2	0.076	0.076	
	244/2	0.379	0.379	
	245/2	0.031	0.031	
	283/2	0.961	0.961	
	771/2	0.057	0.057	
	774/2	0.032	0.032	
	776/2	0.051	0.051	
	योग		<b>1.631</b>	<b>1.631</b>
174	रामेश्वर रामनारायण घनश्याम आ. शिवलाल राजुबाई बेवा शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/6	0.253	0.253
	योग		<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
175	दिपक नागर पिता कान्ता प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खिलचीपुर भूमि स्वामी	241	0.468	0.468
	योग		<b>0.468</b>	<b>0.468</b>
176	मांगीलाल पिता धीसालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	259/1	0.831	0.831
	336/1	0.372	0.372	
	337/1	0.063	0.063	
	योग		<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
177	गंगाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	389/2/1	0.085	0.085
	390/1	0.071	0.071	
	392/12/1	0.116	0.116	
	392/4/1	0.064	0.064	
	392/6/1	0.006	0.006	
	389/1/1/1	0.245	0.245	
	392/3/1	0.021	0.021	
	योग		<b>0.608</b>	<b>0.608</b>
178	प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/2/2	0.085	0.085
	390/2	0.071	0.071	
	392/12/2	0.116	0.116	
	392/4/2	0.063	0.063	

		392/6/2	0.006	0.006
		389/1/1/2	0.245	0.245
		392/3/2	0.021	0.021
		312/1	1.277	1.277
	योग		<b>1.884</b>	<b>1.884</b>
179	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/2/3	0.084	0.084
		390/3	0.072	0.072
		392/12/3	0.116	0.116
		392/4/3	0.063	0.063
		392/6/3	0.006	0.006
		389/1/1/3	0.245	0.245
		392/3/3	0.021	0.021
	योग		<b>0.607</b>	<b>0.607</b>
180	जमनाप्रसाद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/2/4	0.084	0.084
		390/4	0.072	0.072
		392/12/4	0.116	0.116
		392/4/4	0.063	0.063
		392/6/4	0.006	0.006
		389/1/1/4	0.245	0.245
		392/3/4	0.021	0.021
	योग		<b>0.607</b>	<b>0.607</b>
181	सागरसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/2/5	0.084	0.084
		390/5	0.072	0.072
		392/12/5	0.116	0.116
		392/4/5	0.063	0.063
		392/6/5	0.007	0.007
		389/1/1/5	0.244	0.244
		392/3/5	0.021	0.021
	योग		<b>0.607</b>	<b>0.607</b>
182	कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/2/6	0.084	0.084
		390/6	0.072	0.072
		392/12/6	0.116	0.116
		392/4/6	0.063	0.063
		392/6/6	0.007	0.007
		389/1/1/6	0.244	0.244
		392/3/6	0.021	0.021
	योग		<b>0.607</b>	<b>0.607</b>
183	पुष्टाकुवर पति कल्लुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/2	0.088	0.088
		630	0.240	0.240
		631	0.129	0.129
		638/3	0.177	0.177
		728	0.101	0.101

	योग		0.735	0.735
184	गंगाकुंवर पति कल्लुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/3	0.153	0.153
	योग		<b>0.153</b>	<b>0.153</b>
185	प्रेमसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/5	0.240	0.240
	योग		<b>0.240</b>	<b>0.240</b>
186	ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिंह लाङ्कुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263 264/2 270/1	0.139 0.089 0.810	0.139 0.089 0.610
	योग		<b>1.038</b>	<b>0.838</b>
187	बालू पिता हिरा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/1 265/1 593/1 595/1 596/1 597/1 600/1	0.093 0.147 0.030 0.013 0.080 0.051 0.012	0.093 0.147 0.030 0.013 0.080 0.051 0.012
	योग		<b>0.426</b>	<b>0.426</b>
188	अमरसिंह पिता गिरधारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/2 265/2 593/2 595/2 596/2 713 597/2 600/2	0.139 0.221 0.045 0.019 0.120 0.202 0.076 0.019	0.139 0.221 0.045 0.019 0.120 0.021 0.076 0.019
	योग		<b>0.841</b>	<b>0.660</b>
189	मानसिंह पिता गिरधारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/3 265/3 593/3 596/3 597/3 600/3 595/3	0.046 0.075 0.014 0.040 0.025 0.007 0.006	0.046 0.075 0.014 0.040 0.025 0.007 0.006
	योग		<b>0.213</b>	<b>0.213</b>
190	दिनेश पिता गोरधनलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	283/1	1.518	1.518
	योग		<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
	दयाराम रामचंद्र पिता छीता दरियावबाई वि. छीता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/1 311/2 312/2	0.702 0.380 0.051	0.702 0.380 0.051

191		320	0.190	0.190
		697/2	0.139	0.139
		688/2	0.196	0.050
		997/1	1.518	0.160
	યોગ		<b>3.176</b>	<b>1.672</b>
192	રાધેશયામ પિતા કિશનલાલ જાતિ ગુર્જર પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	288/2/1	0.234	0.234
		311/1/1	0.206	0.206
		697/1/1	0.046	0.046
	યોગ		<b>0.486</b>	<b>0.486</b>
193	કરણ સિહ પિતા કિશનલાલ જાતિ ગુર્જર પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	288/2/2	0.234	0.234
		311/1/2	0.173	0.173
		312/4/1	0.032	0.032
		697/1/2	0.046	0.046
	યોગ		<b>0.485</b>	<b>0.485</b>
194	સુખદેવ પિતા કિશનલાલ જાતિ ગુર્જર પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	288/2/3	0.234	0.234
		312/4/2	0.208	0.208
		688/1	0.196	0.050
		697/1/3	0.047	0.047
	યોગ		<b>0.685</b>	<b>0.539</b>
195	નારાયણ કરણસિંહ રામસિંહ ગંગાબાઈ પિતા શિવસિંહ સુરજસિંહ સોરમબાઈ સુરતબાઈ પિતા માંગીલાલ છિટીબાઈ બેવા ભવર જી હિ. 3/4 તોલારામ પિતા દેવીસિંહ ધરમસિંહ સુદાનસિંહ રેખાબાઈ પિતા રાધેશયામ હિ. 1/4 જાતિ ગુર્જર પતા નિવાસી ગ્રામ તીતરી ભૂમિ સ્વામી	290	0.190	0.190
		318	0.253	0.253
		યોગ	<b>0.443</b>	<b>0.443</b>
	માંગીલાલ સજન બાઈ પિતા ગોપીલાલ જાતિ બાગરી પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	291/1	0.013	0.013
		293/1	0.126	0.126
		294/1	0.198	0.198
		295/1	0.228	0.228
	યોગ		<b>0.565</b>	<b>0.565</b>
197	રાધેશયામ સમૃત બાઈ કલાબાઈ પિતા ગોપીલાલ જાતિ બાગરી પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી	291/2	0.013	0.013
		293/2	0.126	0.126
		294/2	0.199	0.199
		295/2	0.228	0.228
	યોગ		<b>0.566</b>	<b>0.566</b>
	પ્રમુલાલ લીલાબાઈ પિતા ગોપીલાલ જાતિ બાગરી પતા નિવાસી ગ્રામ ભૂમિ જ્ઞામી	291/3	0.013	0.013

		प्रति हेक्टेकर्ड में वाली भूमि	293/3	0.127	0.127
198		294/3	0.198	0.198	
		295/3	0.227	0.227	
		योग		<b>0.565</b>	<b>0.565</b>
199	इसराईल ईस्माईल इकबाल शहजाद पिता अलीहुसेन जाति मुसलमान निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/1	0.309	0.309	
	योग			<b>0.309</b>	<b>0.309</b>
200	रामगोपाल चंपालाल पिता नानूराम जानी बाई बैवा नानूराम जाति दांगी पता निवासी ग्राम अंबावता तहसील खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/2	1.265	1.265	
	योग			<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
201	रामकरण ताराचंद पिता कालूराम जाति कुल्ही पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/1/3	1.000	1.000	
	योग			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
202	शफीक मोहम्मद अब्दुल अजीज सबीर हुसेन शकील अहमद अब्दुल रईस जन्नत बी जुबेदा बी सितारा बी सलमा बी पिता नुर मोहम्मद जेनब बी बैवा नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/5	1.000	0.253	
	योग			<b>1.000</b>	<b>0.253</b>
203	देवेसिंह नारायण पिता नगा शांतीबाई पुत्री नगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/3	0.164	0.164	
		301/1	0.177	0.177	
		298/4	0.038	0.038	
		301/2	0.126	0.126	
		298/5	0.253	0.253	
		301/3	0.354	0.354	
		343	0.569	0.569	
		349	0.253	0.253	
		351	0.493	0.493	
		348/1	0.323	0.323	
	योग			<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
204	देवसिंह पिता नगा जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी	324/1	0.487	0.487	
	योग			<b>0.487</b>	<b>0.487</b>
205	नारायणसिंह पिता नगा जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी	324/2	0.487	0.487	
	योग			<b>0.487</b>	<b>0.487</b>

206	देवकरण पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी	325/1	0.231	0.231
	योग		<b>0.231</b>	<b>0.231</b>
207	लाडसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी	325/2	0.232	0.232
	योग		<b>0.232</b>	<b>0.232</b>
208	हरिसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/6	1.012	1.012
	योग		<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
209	रामसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/7	1.012	1.012
		325/3	0.233	0.233
			<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
210	मोड़सिंह पिता सिद्धु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	299	0.595	0.595
	योग		<b>0.595</b>	<b>0.595</b>
211	कालु पिता मोतीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	300	0.708	0.708
	योग		<b>0.708</b>	<b>0.708</b>
212	मोहनलाल पिता भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	0.164	0.164
		392/9/4	0.101	0.101
		393/4	0.734	0.734
		395/1/4	0.253	0.253
		308/2/2/2	0.220	0.220
			<b>1.472</b>	<b>1.472</b>
213	भूरालाल पिता भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	302/1	<b>0.404</b>	<b>0.404</b>
		305/1/2	0.190	0.190
		308/2/1/2	0.030	0.030
		393/5	0.734	0.734
		395/1/5	0.253	0.253
		392/9/5	0.102	0.102
			<b>1.713</b>	<b>1.713</b>
214	जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305/2	0.240	0.240
		308/3/2	0.294	0.294
		309/3	0.721	0.721
		310/2	0.474	0.474
		386/4/3	0.325	0.325
		397/1	0.229	0.091
		397/2	0.152	0.060
		397/3	0.467	0.198
		397/4	0.202	0.080
			<b>3.104</b>	<b>2.483</b>
215	रुगनाथ देवीसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	307	0.531	0.531

		308/1	0.291	0.291
	योग		<b>0.822</b>	<b>0.822</b>
216	रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308/3/1	2.863	2.863
		308/3/3/2	1.644	1.644
	योग		<b>4.507</b>	<b>4.507</b>
217	बंशीलाल किशनलाल पिता जालम सिह गंगाराम पिता भैरू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	308/3/3/1	0.189	0.189
			<b>0.189</b>	<b>0.189</b>
218	बंशीलाल पिता जाला जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	308/4	0.794	0.794
			<b>0.794</b>	<b>0.794</b>
219	आत्मराम पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1	0.721	0.721
		310/1	0.475	0.475
		386/4/1	0.324	0.324
		400/17/1	0.130	0.130
			<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
220	करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तीतरी	309/2	0.253	0.253
		397/5	0.354	0.147
		397/6	0.152	0.060
		397/7	0.089	0.035
		400/11	0.101	0.101
		400/17/2	0.072	0.072
		386/4/2	0.325	0.325
	योग		<b>1.346</b>	<b>0.993</b>
221	सत्येन्द्र सिह पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम ओढपुर भूमि स्वामी	312/3	0.089	0.089
		386/3	0.126	0.126
		395/2	0.949	0.949
		395/5	3.478	0.750
		464/2	2.529	1.500
			<b>7.171</b>	<b>3.414</b>
222	राधेश्याम विष्णुप्रसाद ओमप्रकाश सुरेशचंद्र गोपाल पिता सिद्धनाथ जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम व्यावरामांडु भूमि स्वामी	314	1.518	1.518
			<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
223	रामसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/2	0.453	0.453
		391/1	0.142	0.142
		392/7/1	0.047	0.047
			<b>0.642</b>	<b>0.642</b>
	हिन्दु सिह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी	315/3	0.453	0.453

224	ग्राम भूमि स्वामी	391/2	0.142	0.142
		392/7/2	0.047	0.047
	योग		<b>0.642</b>	<b>0.642</b>
225	चंदर सिंह पिता कालू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/4	0.453	0.453
	योग		<b>0.453</b>	<b>0.453</b>
226	देवसिंह पिता कालू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/5	0.453	0.453
		391/3	0.142	0.142
		392/7/3	0.047	0.047
		391/4	0.142	0.142
		392/7/4	0.047	0.047
	योग		<b>0.831</b>	<b>0.831</b>
227	मोङ्गसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/6	0.453	0.453
		योग	<b>0.453</b>	<b>0.453</b>
228	सूरज सिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316	1.088	1.088
		381/2	0.940	0.940
		योग	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>
229	श्यामसुन्दर पिता बाबुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317	0.366	0.366
		398	1.368	0.014
		400/15	0.036	0.036
	योग		<b>1.770</b>	<b>0.416</b>
230	कमलसिंह पिता कालूसिंह जाति गूर्जर पता निवासी तीतरी ग्राम भूमि स्वामी	319/1	0.973	0.973
		योग	<b>0.973</b>	<b>0.973</b>
231	ईश्वरसिंह पिता कालू सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/2	0.974	0.974
		योग	<b>0.974</b>	<b>0.974</b>
232	केशरबाई पति नारायण जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336/2	0.324	0.170
		337/2	0.544	0.080
		योग	<b>0.868</b>	<b>0.250</b>
233	बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338	0.493	0.493
		339	0.278	0.278
		708	0.291	0.080
		645	0.430	0.430
		704	0.164	0.164
	योग		<b>1.656</b>	<b>1.445</b>
234	शफीक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	0.582	0.582
		योग	<b>0.582</b>	<b>0.582</b>

235	सिंह बाबू गिरिराज आ. रामप्रसाद लीलाबाई बेवा रामप्रसाद गोरखनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	350	0.936	0.936
		381/1	0.948	0.948
	योग		<b>1.884</b>	<b>1.884</b>
236	विष्णुप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/1/2	1.230	1.200
		372/1	2.150	0.530
		375/1	1.081	1.081
	योग		<b>4.461</b>	<b>2.811</b>
237	मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/2	0.464	0.200
		353	0.253	0.130
		372/2	2.150	0.240
		375/2	0.094	0.094
		376	0.645	0.645
		377	0.304	0.304
		379/1	0.038	0.038
		354	0.266	0.010
	योग		<b>4.214</b>	<b>1.661</b>
238	अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	369	1.063	0.150
			<b>1.063</b>	<b>0.150</b>
239	दिनेशकुमार पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/3	2.150	0.250
		379/2	1.081	1.081
	योग		<b>3.231</b>	<b>1.331</b>
240	नंदकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/4	2.151	0.820
		379/3	1.081	1.081
	योग		<b>3.232</b>	<b>1.901</b>
241	बशीलाल किशनलाल पिता जालम, गंगाराम पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	380	0.531	0.531
			<b>0.531</b>	<b>0.531</b>
242	देवीसिंह सीताराम बालुप्रसाद प्रेमबाई पिता मेधालाल रामकुपर बेवा मेधा जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	382	0.885	0.885
			<b>0.885</b>	<b>0.885</b>
	योग		<b>0.885</b>	<b>0.885</b>
243	मोङ्सिंह पिता सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384/1/1	0.518	0.518
		384/2	0.885	0.885
		386/1	0.215	0.215
	योग		<b>1.618</b>	<b>1.618</b>
	विष्णुप्रसाद पिता सिंहलाल जाति गूजर पता	384/1/2	0.241	0.241

244	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	387	1.972	1.972
	योग		<b>2.213</b>	<b>2.213</b>
245	राजकुवरबाई पिता तोलाराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/1	2.000	2.000
	योग		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
246	संतोषबाई जाति मोडसिंह गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/5/1	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
247	भागीरथ पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/9/1	0.101	0.101
		393/1	0.733	0.733
		395/1/1	0.253	0.253
		308/2/1/3	0.220	0.220
	योग		<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
248	सोहन पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	392/9/2	0.101	0.101
		393/2	0.733	0.733
		395/1/2	0.253	0.253
		305/1/1	0.189	0.189
		308/2/1/1	0.031	0.031
	योग		<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
249	मानसिंह प्रहलाद सिह चंदर सिह धीसूसिह करण सिह गीताबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/10	1.265	1.265
		395/3	1.770	1.710
	योग		<b>3.035</b>	<b>2.975</b>
250	पीरुलाल लालूराम चंदरबाई गीताबाई सौरमबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/11	2.023	2.023
	योग		<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
251	रुग्नाथ सूरज पूनमचंद पिता लक्ष्मीनारायण जाति कलाल पता निवासी ग्राम पठारी भूमि स्वामी	392/13	2.529	2.529
	योग		<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
252	भेरु पिता दौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	393/6	1.000	1.000
	योग		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
253	प्रभुलाल पिता नाथुलाल आशाबाई बेवा नाथुलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/1	0.342	0.342
	योग		<b>0.342</b>	<b>0.342</b>

254	हिन्तुसिंह पिता दरियावसिंह 1/3, चंद्रबाई, शांतिबाई, लीलाबाई पुत्री दरियावबाई 1/3, समंदर भंवरलाल पिता भेरु 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/2	<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
255	देवीसिंह शैतानबाई सौरमबाई नर्मदाबाई पिता समन्दर सिह जाति गर्जर निवासी ग्राम तितरी	400/28	<b>3.794</b>	<b>0.740</b>
	योग		<b>3.794</b>	<b>0.740</b>
256	देवीसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	400/29	<b>1.012</b>	<b>0.500</b>
	योग		<b>1.012</b>	<b>0.500</b>
257	चैना पिता लाला जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/10	<b>0.228</b>	<b>0.060</b>
	योग		<b>0.228</b>	<b>0.060</b>
258	भंवरलाल पिता रुगनाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	462/3	<b>0.413</b>	<b>0.330</b>
	योग		<b>0.413</b>	<b>0.330</b>
259	अमरसिंह पिता बापू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	468	<b>4.553</b>	<b>0.080</b>
	योग		<b>4.553</b>	<b>0.080</b>
260	जीतुकुंवर पति तंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	530/4 604/6 योग	<b>0.964</b> <b>0.161</b> <b>1.125</b>	<b>0.070</b> <b>0.161</b> <b>0.231</b>
261	कालूराम पिता धासीराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	542/1	<b>0.594</b>	<b>0.021</b>
	योग		<b>0.594</b>	<b>0.021</b>
262	नारायणसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559/1 617 642 633/1 637 643/1 644/1 679 685 676 724/2 724/1 योग	<b>0.506</b> <b>0.051</b> <b>0.139</b> <b>0.017</b> <b>0.291</b> <b>0.421</b> <b>0.563</b> <b>0.139</b> <b>0.670</b> <b>0.316</b> <b>0.076</b> <b>0.076</b> <b>3.265</b>	<b>0.506</b> <b>0.051</b> <b>0.139</b> <b>0.017</b> <b>0.291</b> <b>0.421</b> <b>0.563</b> <b>0.139</b> <b>0.670</b> <b>0.316</b> <b>0.076</b> <b>0.076</b> <b>3.265</b>

263	महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगढ़ा व भगवानसिंह पिता हनुमतसिंह नि. कलमंडीखुर्द झालावाड जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	563/2	0.253	0.120
		863	0.025	0.025
	योग		<b>0.278</b>	<b>0.145</b>
264	भंवर कुवंर पति प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/2	1.783	1.783
		37	2.289	2.289
	योग		<b>4.072</b>	<b>4.072</b>
265	बहादूरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591/2/1	0.594	0.594
			<b>0.594</b>	<b>0.594</b>
	योग		<b>0.632</b>	<b>0.146</b>
266	उमरावसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी	591/2/2	0.506	0.020
		592/2	0.063	0.063
		592/1	0.063	0.063
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
267	दयाराम रामचंद्र गंगाबाई रोड़ीबाई पिता छिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/1	0.013	0.013
			<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
268	हरिसिंह रामसिंह सौरभबाई गीताबाई पिता मांगू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/2	0.013	0.013
			<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
269	देवसिंह नारायण रुकमाबाई शांति बाई कंवरीबाई पिता नग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/3	0.025	0.025
			<b>0.025</b>	<b>0.025</b>
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
270	सिद्ध बालूसिंह चेनसिंह कांतीबाई संतोष बाई कृष्णाबाई पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/4	0.013	0.013
			<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
271	मोड़सिंह पिता प्रभूलाल जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	616/2	0.151	0.151
			<b>0.151</b>	<b>0.151</b>
	योग		<b>0.151</b>	<b>0.151</b>
272	मांगूसिंह छोटूसिंह अंतर सिंह पिता पूरसिंह हि 1/4 रामसिंह पिता नवलसिंह हि. 25 पै. जगन्नाथ बहादूरसिंह पि. उमरावसिंह कंचनबाई बेवा उमरावसिंह भूमि स्वामी हि. 1/4 नंदलाल दत्तक पूत्र मानसिंह हि. 25 पै. धापूबाई पुत्री हरिसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	629	0.202	0.202

	योग		0.202	0.202
273	कुसुमबाई पिता जगदीशसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	632	0.291	0.291
	योग		0.291	0.291
274	विष्णु अशोक धारा सिंह शारदा बाई कालीबाई पिता सिंह गीताबाई विधवा सिंह जाति भंगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/1	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
275	अमरसिंह पिता सेवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/2	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
276	मान्या पिता देवा खीमा पिता भीमा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/3	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
277	धूला पिता नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बाबरामांडू भूमि स्वामी	635/1	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
278	गुरुल्प्रसाद रामचंद्र पिता मुन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/2	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
279	मांग्या पिता पन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/3	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
280	रोडुलाल सम्पत बाई दुर्गाबाई द्रोपतीबाई पिता गोपी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/4	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
281	भेरुलाल लालसिंह बाबूसिंह उदय सिंह पिता देवा चम्पालाल गोरखनलाल पिता हिरा लीलाबाई सौरमबाई शांताबाई पिता सेवालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/1	0.038	0.038
	योग		0.038	0.038
282	बालूसिंह पिता रत्ता जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/2	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
283	निर्भयसिंह पवनबाई रूपाबाई पिता सेवालाल गुड़डीबाई पिता बद्रीलाल रामबाबू पिता भागीरथ धापूबाई बैवा भागीरथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/3	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
284	भगवतसिंह भारतसिंह पिता धीरपसिंह सरकुंवरबाई बैवा धीरपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	638/2 702	0.177 0.164	0.177 0.164

0164

	योग		<b>0.341</b>	<b>0.341</b>
285	मनोहरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	639	0.291	0.291
		719	0.266	0.266
		678	0.642	0.642
		724/4	0.067	0.067
		619/1	0.177	0.177
		643/2	0.401	0.321
		644/2	0.272	0.272
	योग		<b>2.116</b>	<b>2.036</b>
286	शिवनारायण बापूलाल पिता कालूराम जाति कुल्ली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646	0.240	0.220
			<b>0.240</b>	<b>0.220</b>
287	खेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	670	0.228	0.200
		673	0.379	0.379
		675	0.367	0.367
		720	0.139	0.139
		680	0.177	0.177
			<b>1.290</b>	<b>1.262</b>
288	सिद्धुलाल पिता धूला जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671	0.670	0.650
			<b>0.670</b>	<b>0.650</b>
289	सिद्धुलाल पिता भेरुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	698/2/1	0.079	0.079
		699/1	0.246	0.246
			<b>0.325</b>	<b>0.325</b>
290	महेश कुमार पिता भेरुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	698/2/2	0.079	0.079
		699/2	0.247	0.247
			<b>0.326</b>	<b>0.326</b>
291	बंशीलाल पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	698/2/3	0.079	0.079
		699/3	0.247	0.247
			<b>0.326</b>	<b>0.326</b>
292	कैलाश पिता नाथूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	698/2/4	0.079	0.079
		699/4	0.246	0.246
			<b>0.325</b>	<b>0.325</b>
293	कालूराम पिता चम्पालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	701/1	0.138	0.138
			<b>0.138</b>	<b>0.138</b>
294	रतनबाई पिता मांग्या जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	703/1/1/2	0.168	0.168
			<b>0.168</b>	<b>0.168</b>

295	रामप्रसाद रेशमबाई सोरमबाई पिता नारायण संम्पतबाई दैवा नारायण जाति घमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	703/1/1/3	0.032	0.032
	योग		<b>0.032</b>	<b>0.032</b>
296	पवनकुमार पिता शिवनारायण जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	709	0.215	0.021
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.021</b>
297	रामप्रसाद दत्तकपुत्र किशनलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	877/2	0.126	0.126
	योग		<b>0.126</b>	<b>0.126</b>
298	पवनकुमार शिवनारायण बेदीबाई दैवा शिवनारायण जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	716/1	0.266	0.265
		718	0.291	0.291
		710/2	0.226	0.010
	योग		<b>0.783</b>	<b>0.566</b>
299	गोरधनलाल रमेश सुरेश रामचंद्र पिता कहैयालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	716/2	0.253	0.253
	योग		<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
300	लीलाबाई सौरमबाई शांताबाई पिता सेवालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/2	0.054	0.054
	योग		<b>0.054</b>	<b>0.054</b>
301	चम्पालाल पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/1	0.053	0.053
		739/1	0.278	0.045
	योग		<b>0.331</b>	<b>0.098</b>
302	गोवंधन पिता हीरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/3	0.054	0.054
		739/2	0.139	0.060
	योग		<b>0.193</b>	<b>0.114</b>
303	लालसिंह पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/5	0.014	0.014
		739/3	0.140	0.090
	योग		<b>0.154</b>	<b>0.104</b>
304	बाबूलाल पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/6	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
305	उदयसिंह पिता देवा बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	723/7	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
306	राधेश्याम पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/5/2	1.012	1.012

A 46

	योग		1.012	1.012
307	रामचंद्र पिता गेंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	874/1 862/1	0.060 0.100	0.060 0.100
	योग		<b>0.160</b>	<b>0.160</b>
308	नंदराम पिता गंभीर जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862/2/2 874/2	0.100 0.029	0.100 0.029
	योग		<b>0.129</b>	<b>0.129</b>
309	रतन भेरु संतोष पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/4	0.044	0.011
	योग		<b>0.044</b>	<b>0.011</b>
310	दरियाव सिह शांतीबाई गीताबाई पिता गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/3	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
311	गणपत पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/4	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
312	प्रभुलाल लीलाबाई दरियावबाई पिता मांग्या बदनबाई बैवा मांग्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/5	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
313	भेरु पिता धीसा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/6	0.025	0.025
	योग		<b>0.025</b>	<b>0.025</b>
314	कालीबाई बैवा पीरुलाल बालु श्यामाबाई पिता पीरुलाल धुला पिता नानिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/7	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
315	मनीष कुमार पिता पीरुलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/8	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
316	रायसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	703/1/1/4/1	0.016	0.016
	योग		<b>0.016</b>	<b>0.016</b>
317	कालीबाई पति हिन्दुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	703/1/1/4/2	0.016	0.016
	योग		<b>0.016</b>	<b>0.016</b>
318	रामचंद्र मांगीबाई पिता सिद्धुलाल अमर सिह पिता किशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/9	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>

319	बद्रीलाल मदनलाल दरोपतीबाई भवरीबाई गीताबाई पिता रुगनाथ सुरजबाई बेवा रुगनाथ भेरु रतन संतोष रुकमाबाई पिता नारायण सुन्दरबाई बेवा नारायण नन्दराम पिता गंभीर रामचन्द्र राजबाई प्रेमबाई पिता गेंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/10	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
320	गंगाधर पिता गुलाब दांगी हि. 1/2 भंवरलाल देवसिंह पिता मुन्नालाल 1/2 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	736	2.339	2.149
		737	0.519	0.519
		738	0.190	0.050
			3.048	2.718
321	भंवरलाल पिता रुधनाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/1/1	0.127	0.127
	योग		0.127	0.127
322	दयाराम पिता रुधनाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/1/2	0.126	0.126
			0.126	0.126
323	हिरालाल पिता भेरु जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	744/3	0.253	0.010
			0.253	0.010
324	शिवलाल पिता भेरु जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/2/2	0.250	0.220
		741/4	0.304	0.304
		741/8	0.246	0.246
		744/1	0.253	0.010
		745/1	0.058	0.058
		746/9	0.202	0.060
			1.313	0.898
325	भगवानसिंह पिता भेरु जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	745/2	0.050	0.042
		740/2/2/1	0.250	0.250
		740/2/2/4	0.590	0.040
		741/7	0.304	0.304
		744/2	0.253	0.020
		746/8	0.202	0.010
			1.649	0.666
326	मांगीलाल पिता हिरालाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	741/2	0.152	0.060
		741/5	0.152	0.152
		746/10	0.202	0.010
		योग	0.911	0.506
				0.222

327	गंगाराम पिता हिरालाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/2/3	0.250	0.250
		741/3	0.152	0.152
		741/6	0.152	0.152
	योग		<b>0.554</b>	<b>0.554</b>
328	भेरुलाल पिता देवीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/1/1	0.126	0.126
		763/1/1	0.022	0.022
		764/1/1	0.084	0.084
		865/1/1	0.030	0.030
		866/1/1	0.021	0.021
		870/1/1	0.079	0.079
		871/1/1/1	0.032	0.032
		871/2/1/1	0.030	0.030
		872/1/1	0.013	0.013
		760/1/1	0.078	0.078
	योग		<b>0.515</b>	<b>0.515</b>
329	बंशी पिता बापू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/3/5	0.051	0.051
		99/5/5	0.057	0.057
		763/3/5	0.006	0.006
		764/3/5	0.034	0.034
		866/3/5	0.008	0.008
		870/3/5	0.031	0.031
		871/2/3/5	0.012	0.012
		872/2/5	0.005	0.005
		871/1/3/5	0.001	0.001
		760/3/5	0.031	0.031
	योग		<b>0.236</b>	<b>0.236</b>
330	श्रीराम मंदिर पि. गोरखनलाल पि. देवीलाल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	765	0.291	0.291
		766	0.051	0.051
		767	0.304	0.304
	योग		<b>0.646</b>	<b>0.646</b>
331	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/1	0.189	0.189
		780/3	0.087	0.087
		781/1	0.247	0.247
		857/3/1	0.212	0.132
		782/1	0.070	0.070
		783/3	0.299	0.219
		785	0.316	0.234
		973/1	0.198	0.005
	योग		<b>1.618</b>	<b>1.183</b>
	भेरुलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/2	0.089	0.089
		772/2	0.041	0.041
		773	0.126	0.126

332		778	0.063	0.063
		780/2	0.135	0.135
		782/2	0.069	0.069
		783/2	0.135	0.100
		783/5	0.135	0.100
		788/1	0.044	0.044
		789/3	0.076	0.076
		790/3	0.034	0.034
		858/3	0.057	0.057
		861/2	0.022	0.022
	योग		<b>1.026</b>	<b>0.956</b>
333	कैलाश पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/3	0.089	0.089
		772/3	0.041	0.041
		779	0.051	0.051
		780/1	0.135	0.135
		781/2	0.246	0.246
		783/4	0.084	0.070
		783/6	0.085	0.070
		786/3	0.126	0.126
		789/2	0.076	0.076
		790/2	0.035	0.035
		857/2	0.193	0.093
		858/2	0.057	0.057
		861/3	0.022	0.022
	योग		<b>1.240</b>	<b>1.111</b>
334	मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	772/1	0.041	0.041
		784/1	0.100	0.100
		784/2	0.218	0.218
		786/2	0.272	0.200
		788/2	0.045	0.045
		788/3	0.044	0.044
		790/4	0.035	0.035
		855/1	0.184	0.154
		855/3	0.183	0.183
		857/3/2	0.175	0.130
		859	0.025	0.025
		973/3	0.284	0.025
	योग		<b>1.606</b>	<b>1.200</b>
335	माखनलाल पिता सिद्धुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	808/1	0.854	0.135
		729/1	0.120	0.120
	योग		<b>0.974</b>	<b>0.255</b>
336	भेरुलाल पिता सिद्धुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	808/2	0.854	0.135
		729/2	0.120	0.120

	योग		<b>0.974</b>	<b>0.255</b>
337	प्रभू पिता मांग्या रामचंद्र राजूबाई प्रेमबाई पिता गोदा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862/3	0.078	0.078
		869	0.202	0.202
		760/4/3	0.104	0.104
		981/1/2	1.454	0.170
		867	0.101	0.101
	योग		<b>1.939</b>	<b>0.655</b>
338	सिद्धु अनार गोकूल बापू बंशी पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	865/3	0.060	0.060
	योग		<b>0.060</b>	<b>0.060</b>
339	बालू पिता पीरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	871/1/4/2	0.032	0.032
		760/5/2	0.077	0.077
			<b>0.109</b>	<b>0.109</b>
340	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	879	0.228	0.220
	योग		<b>0.228</b>	<b>0.220</b>
341	भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	884/9	0.183	0.183
		885	0.215	0.200
		886	0.190	0.190
		925/1/2	0.974	0.040
			<b>1.562</b>	<b>0.613</b>
342	मेरुलाल पिता जगन्नाथ जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	929/1	0.423	0.080
	योग		<b>0.423</b>	<b>0.080</b>
343	सुगनबाई बेवा देवीलाल हेमराज बालीबाई पिता देवीलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	929/2	0.424	0.090
	योग		<b>0.424</b>	<b>0.090</b>
344	कमलबाई पति पूनमचंद जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	972	1.226	0.220
	योग		<b>1.226</b>	<b>0.220</b>
345	सिद्धु पिता पन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/3/1	0.031	0.031
	योग		<b>0.031</b>	<b>0.031</b>
346	बद्रीलाल पिता रुगनाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/4/2/1	0.025	0.025
	योग		<b>0.025</b>	<b>0.025</b>
347	मदनलाल पिता रुगनाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/4/2/2	0.075	0.075
	योग		<b>0.075</b>	<b>0.075</b>
348	धूला पिता नान्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/5/1	0.077	0.077

	योग		<b>0.077</b>	<b>0.077</b>
349	राधाबाई पति पीरुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	981/1/1	0.152	0.012
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.012</b>
350	नारायणीबाई पति जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	710/1/1	0.071	0.005
	योग		<b>0.071</b>	<b>0.005</b>
351	सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	880 877/1/1 727/3 854/1	0.240 0.017 0.215 0.270	0.220 0.017 0.215 0.190
	योग		<b>0.742</b>	<b>0.642</b>
352	मनीश पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	876/1 727/1/1 877/1/3/1 853/2/1 854/3/1 878/1 881/2/1	0.051 0.107 0.009 0.076 0.135 0.012 0.060	0.051 0.107 0.009 0.076 0.095 0.012 0.060
	योग		<b>0.450</b>	<b>0.410</b>
353	ललित पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	875 727/2 853/1 854/2 881/1 877/1/2	0.202 0.215 0.152 0.270 0.120 0.017	0.202 0.215 0.152 0.190 0.120 0.017
	योग		<b>0.976</b>	<b>0.896</b>
354	मनोज पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	727/1/2 853/2/2 854/3/2 876/2 877/1/3/2 878/2 881/2/2	0.108 0.076 0.135 0.050 0.008 0.013 0.060	0.108 0.076 0.095 0.050 0.008 0.013 0.060
	योग		<b>0.450</b>	<b>0.410</b>
355	गोपाल पिता बापूलाल जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/2/1 277/2/2	0.149 0.148	0.149 0.148
	योग		<b>0.297</b>	<b>0.297</b>
	प्रभुलाल पिता मांगीलाल लाखनसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	219	0.898	0.898

356		225	0.417	0.417
	योग		<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
	भंवरी बैवा जगन्नाथ जाति बागरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134/2	0.405	0.405
357		143/1/1/2	0.052	0.052
		143/1/2/2	0.052	0.052
	योग		<b>0.509</b>	<b>0.509</b>
358	भेरुलाल रामचंद्र रामदयाल पिता बद्रीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	703/1/2	0.063	0.063
	योग		<b>0.063</b>	<b>0.063</b>
359	विजेन्द्रसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/1/2	<b>0.126</b>	<b>0.126</b>
		207/2/2	<b>0.126</b>	<b>0.126</b>
	योग		<b>0.252</b>	<b>0.252</b>
360	गोपाल पिता रामचंद्र जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	706	<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
361	ताराचंद मनोहरलाल प्रेमनारायण संजय लालुबाई पिता धुला गंगा बैवा धुला जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	700	<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
	योग		<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
362	महेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/1/3	<b>0.117</b>	<b>0.117</b>
	योग		<b>0.117</b>	<b>0.117</b>
363	सम्पतबाई बैवा बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	683	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
	योग		<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
	योग		<b>364.785</b>	<b>309.688</b>

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2696—भू—अर्जन—18

राजगढ़ (ब्यावरा), 4 अप्रैल 2018

क्रमांक/ / / भू—अर्जन/2018 घूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक घूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना “ब्यावरा” स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्त्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

## ग्राम कोलूखेडी

## तहसील नरसिंहगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा है०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	9.040 है०	-	9.040 है०

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र सिंह पिता प्रभूलाल गुर्जर	23/2	1.149	0.415
2	मांगी लाल पिता हीरालाल अहीर	140/1	0.649	0.215
3	भोला राम पिता हीरालाल अहीर	140/2	0.649	0.040
4	धनसिंह पिता धनश्याम गीता बाई बेवा धनश्याम अहीर	140/3	1.095	0.425

5	विजय सिंह पिता प्रभुलाल अहीर	140/4	0.911	0.380
6	छवि लाल पिता भंवर लाल	140/5	0.820	0.050
7	बाबूलाल राजेन्द्र कुमार महेश कुमार महेन्द्र कुमार पिता कालूराम अहीर	152/1	0.229	0.140
8	धनसिंह पिता धनश्याम गीता बाई बैवा धनश्याम अहीर	152/4	0.204	0.180
9	छवि लाल पिता भंवर लाल	152/3	0.229	0.050
10	बनेसिंह पिता हीरालाल अहीर	152/5	0.422	0.025
11	मांगी लाल पिता हीरालाल अहीर	150/3	0.603	0.110
12	भोला राम पिता हीरालाल अहीर	149/3	0.649	0.550
13	रामप्रसाद शिवलाल रामचंद्र मानसिंह पिता रामरत्न दांगी	148/1	1.125	0.200
14	देव चंद्र पिता धीसालाल जाति दांगी	148/2	1.126	0.670
15	नाथूलाल पिता भागचंद्र	159/2	0.506	0.100
16	संजय कुमार पिता विजय सिंह जाति अहीर	159/1/1	0.379	0.015
17	बाबूलाल ,राजेन्द्र कुमार महेश कुमार, महेन्द्र कुमार पिता कालूराम जाति अहीर	173/1	0.274	0.010
18	छवि लाल पिता भंवर लाल	173/2	0.274	0.075
19	गंगाराम पिता भंवर लाल	173/3	0.274	0.130
20	गंगाराम पिता कालू	174	1.164	0.934
21	उकार पिता भोना दांगी	175/2,176/1	0.442	0.243
22	उकार पिता चैना	175/3	0.076	0.076
24	जगदीश प्रसाद पिता गणपत लाल अहीर	176/2	0.506	0.380
25	हीरालाल विजय सिंह गोकुल पिता सलगराम	177	0.923	0.030

	दांगी			
26	महेन्द्र कुमार ,महेश कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	210/1	2.733	0.370
27	भागीरथ पिता चतरा	208	0.595	0.400
28	भागीरथ पिता चतरा	210/2	0.822	0.350
29	घीसा लाल पिता गनपत लाल	210/3/1	0.978	0.375
30	जगदीश प्रसाद पिता गनपत लाल	210/3/2	0.873	0.375
31	बंशीलाल पिता देवीराम जाति अहिर	204/3	0.831	0.085
32	राम बंश पिता मेहताब	211	0.392	0.392
33	गंगाराम पिता कालू	212	0.443	0.110
34	राम बंश पिता मेहताब	213	0.885	0.700
35	देवसिंह पिता गोपीलाल गडरी	214/2	0.506	0.440
	योग कुल किता	35	23.736	9.040

भूमि के नवशे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2698-भू-अर्जन-18

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

#### ग्राम छपरीकलां

#### तहसील नरसिंहगढ़

स.क्र. विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेठो

सिंचित	असिंचित	कुल
--------	---------	-----

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

निजी	भूमि	5.503 हेठो	-	5.503 हेठो
------	------	------------	---	------------

संक्षे	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित रकबा
1	प्रेमनारायण पिता मंशाराम जाति देशवाली	195/1	2.307	0.220

2	प्रेमनारायण पिता मंशाराम जाति देशवाली	195/2	0.348	0.020
3	प्रेमनारायण पिता मंशाराम जाति देशवाली	194	1.960	0.010
4	जयप्रकाश सिंह पिता भेरसिंह जाति राव निवासी मानपिछोडी	197	1.354	0.780
5	पुरुषोत्तम पिता भेरसिंह जाति राव निवासी मानपिछोडी	198	0.784	0.550
6	राधेश्याम ,महेश पिता नारायण सिंह ,धप्पीबाई, बैवा घनश्याम याचिका , वर्षा ,मुट्कान ,ना.बा० पिता घनश्याम, स०माता धप्पीबाई बैवा घनश्याम ,मनोज पिता कान्ता प्रसाद ,मु० सुशीलाबाई बैवा कान्ता प्रसाद जाति राव निवासी मानपिछोडी	207	0.873	0.080
7	कमलसिंह बंटी पिता बद्रीलाल ,गीताबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार निवासी कुरावर	241	0.013	0.008
8	रामस्यरूप पिता नारायण सिंह जाति देशवाली	242	1.278	0.600
9	गंगाप्रसाद पिता रामलाल जाति देशवाली	244/1	0.442	0.130
10	गंगाप्रसाद पिता रामलाल जाति देशवाली	244/2	1.796	0.710
11	भागचंद,रामचरण ,किशन पिता गोरीलाल ,भगवतीबाई बैवा छेटेलाल जाति देशवाली	258	1.027	0.200
12	सम्पत बाई पति रामकिशन जाति देशवाली	257/1/1	0.759	0.100
13	सम्पत बाई पति रामकिशन जाति देशवाली	257/2/1	0.316	0.025
14	सम्पत बाई पति रामकिशन जाति देशवाली	257/2/2	0.696	0.010
15	रहीस खाँ पिता मुज्जवर खाँ जाति मुसलमान	257/1/2	0.391	0.070
16	रहीस खाँ पिता मुज्जवर खाँ जाति मुसलमान	255	1.670	0.570
17	रामनिवास पिता श्री किशन जाति देशवाली	256/2	1.435	0.770
18	रामकिशन पिता मनीराम जाति देशवाली	253/1	1.903	0.650
	योग कुल किता	18	19.352	5.503

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

प्र. क्र. 1267 अ-2018-19-प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18.

बड़वानी, दिनांक 2 अप्रैल 2018

चुकिं राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि निचे दि गई अनुसूची क्र. 01 में सुसरी नदी परियोजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राखी खुर्द तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम:- राखी खुर्द

तहसील पानसेमल जिला बड़वानी

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	सुसरी नदी परियोजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में प्रभावित होने से	7.733	1.011	8.744
	योग:-	7.733	1.011	8.744

**अनुसूची (2)**

सुसरी नदी परियोजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राखी खुर्द तहसील पानसेमल की प्रभावित भूमि का विवरण।

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	वलसिंग जमदार पिता ओहरिया जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 1.87	5/9	-	1.011	1.011	-	1.011	1.011
2	भावसिंग, राकेश, चिका पिता आद्या, रायणीबाई बेवा आद्या जाति बारेला नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 0.30, 3.40	5/11	0.162	-	0.162	0.162	-	0.162
		14/2	1.215	-	1.215	0.220	-	0.220
		योग:-	1.377	-	1.377	0.382	-	0.382
3	सिलदार बारया पिता फफा सुनकीबाई बेवा फफा जाति बारेला नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 2.14	13/6	0.679	-	0.679	0.314	-	0.314

4	चिमा, कावा, उखा पिता भीमसिंह, मेगी बेवा भीमसिंह, काकड्या, राजेश, बाज्या, कुल्या पिता वनकर कलीबाई बेवा वाणसिंग धमेन्द्र पिता वाणसिंग कारबाबाई बेवा सेल्या जूना, कंवरसिंग, मानसिंग, कान्तीलाल, रजान, कुन्दन पिता सेल्या जाति पावरया नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 9.64	14/1	3.290	-	3.290	2.690	-	2.690
5	प्रताप, जलदार पिता पारसी, रडबीबाई बेवा पारसी जाति बारेला नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 7.86	29/1	2.594	-	2.594	0.480	-	0.480
6	अन्ना पिता वजा जाति बारेला नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 4.93	29/2/2	1.627	-	1.627	0.800	-	0.800
7	सानुबाई बेवा गुलबसिंग हुमीबाई बेवा जयसिंग वनसिंह पिता केल्या शान्तीबाई बेवा आपसिंग अवदीबाई बेवा खाण्डा सन्या पिता केल्या रमेश, सुरेश पिता गुलबसिंग रोहिदास पिता जयसिंग कविता पिता आपसिंग अ.पा.क. सोनल गिरीश पिता आपसिंग तुकाराम रूपसिंग दीवान भावन्या पिता खाण्डा जाति पावरया नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 3.41	30/1	1.433	-	1.433	1.433	-	1.433
8	सुनीबाई बेवा ईशाक अर्जुन पिता ईशाक चौधरी विट्ठल, मकु, देवीसिंग पिता गुजारया जाति बारेला नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 1.20	30/2	0.485	-	0.485	0.485	-	0.485
9	खेत्या, गोखरया पिता धन्या जाति पावरया नि.ग्राम भू-स्वामी भू-रा. 3.53	31	1.149	-	1.149	1.149	-	1.149
	कुलयोग:-		12.634	1.011	13.645	7.733	1.011	8.744

**नोट :-** भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अंतर्गत)

क्र. 685—भू-अर्जन-18.

देवास, दिनांक 10 अप्रैल 2018

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कन्नौद-सतवास-पुनासा राज्यमार्ग (SH-41) के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

### अनुसूची

1. ग्राम का नाम	:-	बड़कनखारी
2. तहसील	:-	सतवास
3. जिला	:-	देवास
4. कुल प्रस्ताव	:-	01

स. क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन योग्य भूमि का रकमा (ह.)
1	2	3	4	5
1	कृषि भूमि	श्री बाबुलाल पिता सुन्दरलाल गवली	148	0.070
2	कृषि भूमि	श्री शंकर शोभाराम पिता मुकुन्द गवली	149 189	0.240 0.050
3	कृषि भूमि	श्री बालकृष्ण प्रेमनारायण पिता धन्नालाल	190/3 191	0.050 0.220
4	कृषि भूमि	श्री मोतीलाल पिता नंदकिशोर गुर्जर	198/1	0.110

कुल सर्वे नंबर— 06 कुल प्रस्ताव— 01

उपरोक्त कृषकों की भूमि दत्तनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बागनखेड़ा की उपरोक्तानुसार भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम लि. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर—मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 253—भू—अर्जन—2018.

आगर—मालवा, दिनांक 11 अप्रैल 2018

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन 2013) अंतर्गत चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया बौद्ध परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा की ग्राम ढाबला सोनगरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)				
ग्राम :— ढाबला सोनगरा		तहसील:— नलखेड़ा	जिला आगर— मालवा	
संक्र.	विवरण	कुल रकबा	कुल प्रभावित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	343.630	<b>310.605</b>	
	योग	<b>343.630</b>	<b>310.605</b>	

  

अनुसूची (2)				
(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से				
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भागीरथ पिता बापू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	1.000	<b>1.000</b>
	योग		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2	बद्रीलाल पिता चंद्रसिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	0.210	<b>0.210</b>
		136	0.080	<b>0.080</b>
	योग		<b>0.290</b>	<b>0.290</b>
3	चंद्रसिंह पिता बापूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/1304	0.210	<b>0.210</b>
	योग		<b>0.210</b>	<b>0.210</b>
4	सीताराम पिता चंद्रसिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4	0.210	<b>0.210</b>
		137	0.080	<b>0.080</b>
	योग		<b>0.290</b>	<b>0.290</b>

5	सुन्दरबाई वि.हीरालाल व पीरुलाल पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5	0.210	0.210
	योग		0.210	0.210
6	नारायण पिता चंद्रसिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6	0.210	0.210
	योग		0.210	0.210
7	सिदधुलाल पिता पुरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8	0.120	0.120
		18	0.440	0.440
		16	0.310	0.310
	योग		0.870	0.870
8	निर्भयसिंह पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9	0.120	0.120
		17	0.440	0.440
		15	0.310	0.310
	योग		0.870	0.870
9	नारायण पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10	0.120	0.120
		13	0.310	0.310
		20	0.450	0.450
	योग		0.880	0.880
10	पीरुलाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11	0.120	0.120
		14	0.310	0.310
		19	0.450	0.450
	योग		0.880	0.880
11	उमराव पिता स्वरूप जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22	0.290	0.290
		595	0.410	0.410
		24	0.390	0.390
		27	0.170	0.170
	योग		1.640	1.640

12	मोती पिता स्वरूप जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23	0.480	0.480
		25	0.350	0.350
		26	0.110	0.110
		28	0.300	0.300
	योग		1.240	
13	मायाराम पिता नंदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29	0.680	0.680
		840	0.010	0.010
	योग		0.690	
14	माधु पिता नंदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30	0.300	0.300
		40	0.400	0.400
	योग		0.700	
15	चंद्र पिता रोला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32	1.020	1.020
		584	0.350	0.350
	योग		1.370	
16	राहुल पिता रोला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34	0.810	0.810
		38	0.200	0.200
		842	0.030	0.030
		583	0.350	0.350
	योग		1.390	
17	लालु पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35	1.410	1.410
		36	0.630	0.630
	योग		2.040	
18	देवजी पिता नाथु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39	2.040	2.040
	योग		2.040	
19	बलदेव पिता नंदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41	0.680	0.680
	योग		0.680	
20	जमनाप्रसाद पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निं. गोयल व हेमराज पिता बजरंगलाल जाति कुल्मी निं. दावतपुर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	42	2.000	2.000

	योग			2.000
21	अमरसिंह द.पु. धापुबाई पिता पीरुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43	1.050	1.050
	योग		1.050	1.050
22	सौरमबाई पति मदनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
23	शानूबाई पति मदन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45	1.040	1.040
	योग		1.040	1.040
24	बाबू रमेश ओमप्रकाश बंशीलाल पिता मांगीलाल अहस्तांतरणीय जाति बलाई पता निवासी ग्राम नलखेडा	46	1.250	1.250
	योग		1.250	1.250
25	रवीन्द्र पिता सत्यदेव जाति जाट पता निवासी ग्राम नि. खण्डेवला नि. फरुखनगर जिला गुडगांव भूमि स्वामी	51	0.600	0.600
	योग	92	2.000	2.000
	योग		2.600	2.600
26	मदन पिता धन्ना जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52	1.200	1.200
	योग		1.200	1.200
27	फूलबाई पति परशुराम जाति ब्रह्मण पता निवासी ग्राम शुजालपुर भूमि स्वामी	53	1.050	1.050
	योग		1.050	1.050
28	दिनेश पिता ज्ञानसिंह जाति राजपूत पता निवासी लोहारी तह. व जिला झज्जर हरियाणा भूमि स्वामी	54	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
29	मोती पिता बापू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55	1.050	1.050
	योग		1.050	1.050
30	रेशमबाई पति पीरुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
31	सजनबाई पति भागीरथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60	3.760	3.760
	योग	63	0.860	0.860

		<b>योग</b>			
32			4.620		<b>4.620</b>
		पीरु पिता अनार हि. रकबा 0.87 हे.उमराव पिता जग्गा हि.रकबा 0.280 हे जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65	0.630	0.630
			66/1	0.520	<b>0.520</b>
		<b>योग</b>		1.150	
33		राजेश पिता भागीरथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66/2	1.470	<b>1.470</b>
		राकेश पिता भागीरथ जाति बलाई पता पता निवासी गांम भूमि स्वामी	67	0.840	<b>0.840</b>
		<b>योग</b>		2.310	
34		ओमनारायण पिता शिवशंकर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68	2.090	<b>2.090</b>
			72	1.670	<b>1.670</b>
		<b>योग</b>		3.760	
35		शंकरलाल पिता बापुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69	0.420	<b>0.420</b>
		<b>योग</b>		0.420	<b>0.420</b>
36		प्रभुलाल गंगाराम पिता हरलाल स.भा. जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70	1.430	<b>1.430</b>
		<b>योग</b>		1.430	<b>1.430</b>
37		दुर्गाप्रसाद पिता माधु भंवरीबाई वि.माधु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71	1.480	<b>1.480</b>
		<b>योग</b>		1.480	<b>1.480</b>
38		गोकल पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	73	0.420	<b>0.420</b>
		<b>योग</b>		0.420	<b>0.420</b>
39		बद्दी पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74	0.920	<b>0.920</b>
			78	0.330	<b>0.330</b>
		<b>योग</b>		1.250	
40		मदन पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.330	<b>0.330</b>
			84	0.590	<b>0.590</b>
		<b>योग</b>		0.330	<b>0.330</b>
			76	1.250	<b>1.250</b>
		<b>योग</b>			

41	गोकुल पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77	0.340	0.340
	योग	86	0.480	0.480
42	पीरुलाल पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79	0.650	0.650
	योग			0.650
43	लाला पिता बापु व सिदधीबाई पु. बापु भा 1/2 नारायण पिता नानुराम भाग 1/2 जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80	4.140	4.140
	योग			4.140
44	रोडा पिता धन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81	2.010	2.010
	योग			2.010
45	गंगाराम पिता नानुराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83	2.050	2.050
	योग			2.050
46	पीरुलाल पिता मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85	0.600	0.600
	योग			0.600
47	सिदधनाथ पिता गुलाब जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	1.680	1.680
	योग			1.680
48	गंगाराम देवा पिता धुला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	1.350	1.350
	योग			1.350
49	मंछाराम कालु पिता बाबरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90	1.850	1.850
	योग			1.850
50	रामलाल पिता किशनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.930	0.930
	योग			0.930
51	शांतिबाई पु. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97	2.230	2.230
	योग			2.230
52	केमलबाई पति बद्रीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98	1.700	1.700
	योग			1.700

53	तेजुबाई पति राधेश्याम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99	0.700	0.700
		509	0.370	0.370
		386	0.200	0.200
		<b>योग</b>		
54	हिन्दु पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	100	0.400	0.400
		387	0.200	0.200
		171	0.250	0.250
		173	0.310	0.310
		174	0.190	0.190
		175	0.100	0.100
		<b>योग</b>		
55	केमलबाई पति बद्दीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101	0.810	0.400
		<b>योग</b>		
		<b>0.400</b>		
56	नारायण पिता कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.630	0.315
		103	0.390	0.390
		104	0.390	0.200
		821	0.240	0.240
		440	0.090	0.090
		<b>योग</b>		
57	उमराव पिता बापु जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106	0.210	0.150
		113	0.420	0.420
		<b>योग</b>		
		<b>0.570</b>		
58	कालीबाई वेबा बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110	0.080	0.080
		<b>योग</b>		
		<b>0.080</b>		
59	हिन्दु पिता परताप जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111	0.050	0.050
		<b>योग</b>		
		<b>0.050</b>		
60	सिद्ध पिता भंतर जी अहस्तातरणीय जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.630	0.630
		<b>योग</b>		
		<b>0.630</b>		

61	बिहारी पिता भंवर जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/2	0.620	0.620
		119	1.050	0.430
		117	0.320	0.160
योग			1.390	1.210
62	गंगाराम पिता भंवर जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3	0.630	0.630
			0.630	0.630
63	हिन्दु पिता परताप जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114	0.260	0.150
			0.260	0.150
64	हिन्दु पिता परताप अहस्तांतरणीय जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115	0.940	0.900
			0.940	0.900
65	मानसिंह पिता परताप जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	116	0.050	0.050
			0.050	0.050
66	मानसिंह पिता परताप अहस्तांतरणीय जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118	0.940	0.940
			0.940	0.940
67	हरलाल तोलाराम पिता गुलाब भाग 1/2 व चंदर पिता देवा भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	126	1.360	0.700
		811	0.040	0.040
		446	0.100	0.100
		436	0.210	0.210
		591	2.680	0.550
		349	0.120	0.100
			4.510	1.700
68	तोलाराम पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129	1.150	1.150
			1.150	1.150
69	देवा पिता धुलामी अहस्तांतरणीय जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131	2.000	2.000
			2.000	2.000
70	शहजाद शेरुद भंवर जाकिर उर्फ छोटु गब्बर साजिद पिता चमार व कमुबाई देवा मुमताज अहस्तांतरणीय जाति हेला मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	132	1.670	1.670
			1.670	1.670

71	नारायण पिता पुरा अहस्तांतरणीय जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134	1.430	1.430
	योग		1.430	1.430
72	बापूलाल पिता चंदर सिंह	135	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
73	सुंदरबाई विहीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
74	नारायण पिता चंदरसिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
75	गंगाराम पिता रामप्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140	1.010	1.010
	योग		1.010	1.010
76	नारायण पिता रामप्रताप हि. रकबा 0.49 है. व शिवनारायण पिता शंकरलाल जाति गुर्जरपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141	1.070	1.070
	योग		1.070	1.070
77	नारायण पिता रामप्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/1305	0.350	0.350
		506	1.110	1.110
		228	0.340	0.340
		194	0.080	0.080
		183	0.780	0.780
		144	0.950	0.950
			3.610	3.610
78	लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142	0.950	0.950
	योग		0.950	0.950
79	कालु पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143	0.950	0.950
		165	1.750	1.750
		178	0.420	0.420
		231	0.350	0.350
		189	0.150	0.150
			3.620	3.620
80	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145	0.950	0.950

	योग	196	0.720	0.720
81	प्रभुलाल पिता भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	4.760	4.760
	योग	442	0.060	0.060
		424	0.030	0.030
		198	3.610	1.500
		190	0.530	0.530
		192	0.230	0.230
		179	0.450	0.450
		181	2.720	2.720
		170	0.080	0.080
		163	2.950	2.950
82	योग		15.420	13.310
	मदन पिता रामप्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147	0.950	0.950
	योग	817	0.130	0.130
		441	0.060	0.060
		227	0.350	0.350
		180	0.450	0.450
		184	0.820	0.820
83	योग		2.760	2.760
	रता रावल पति ओमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157	0.330	0.330
	योग		0.330	0.330
84	कमल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164	0.150	0.150
	योग	229	0.350	0.350
		187	0.150	0.150
		182	1.120	1.120
85	योग		1.770	1.770
	शिवनारायण पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	168	0.210	0.210
	योग		0.210	0.210
86	दिलीप पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169	0.090	0.090
		230	0.350	0.350
		185	1.060	1.060

	योग		1.500	1.500
87	अर्जुन पिता नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.360	0.360
		177	1.020	1.020
88	नारायण पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	186	0.080	0.080
		187	0.080	0.080
89	शिवनारायण पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188	0.150	0.150
		197	0.720	0.720
90	मदन पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193	0.150	0.150
		195	0.720	0.720
91	रामसिंह पिता मदन व चंद्रबाई वि. गिलासबरई भुरीबरई पु.उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199	0.770	0.770
		200	0.770	0.770
92	भगवानसिंह जगदीश कमल ज्ञानसिंह पिता मांगीलाल व देवबाई वि.मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200	0.770	0.770
		201	0.770	0.770
93	सीताराम ढूगरसिंह दरियावसिंह वल्लभसिंह पिता शंकरलाल व बुलीबाई वि. शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201	0.590	0.590
		300	0.020	0.020
94	धनजी पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202	0.180	0.180
		303	0.020	0.020
		882	0.180	0.180
		222	0.400	0.400
	योग	203	0.780	0.780
		304	0.020	0.020

95	रुधनाथ पिता गुलाब हि.1/2 व तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पिता बनेसिंह हि.1/2 स.भा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204	9.550	9.550
	योग		9.550	9.550
96	भोला पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	205	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
97	सिद्धनाथ भोला पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	206	4.820	4.820
	योग		4.820	4.820
98	शिवनारायण पिता रुधनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	209	0.490	0.490
		527	0.320	0.320
	योग		0.810	0.810
99	होकमसिंह भगवानसिंह पिता प्रभुलाल रंभाबाई पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	210	0.490	0.490
		643	0.540	0.400
		529	0.320	0.320
		447	0.150	0.150
	योग		1.500	1.360
100	मानसिंह मोहनसिंह पिता छीतु व कमलाबाई वि.छीतु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	211	0.490	0.490
		644	0.270	0.200
		528	0.320	0.320
	योग		1.080	1.010
101	सिद्धनाथ पिता भोला पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	212	0.040	0.040
	योग		0.040	0.040
102	कन्हैयालाल दिनेश श्याम शिव हरि पिता नाथुलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी मोल्याखेडी भूमि खामी	214	0.260	0.260
	योग		0.260	0.260
103	बंशीलाल पिता बोन्दा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि खामी	215	2.610	2.400
	योग		2.610	2.400

104	सौरमबाई पति सिद्धुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	217	1.310	1.310
	योग		1.310	1.310
105	भगवानसिंह जगदीश कमल ज्ञानसिंह पिता मांगीलाल व देवबाई वि.मांगीलल जाति गुर्जर ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220	0.990	0.990
			0.990	0.990
106	सीताबाई पति भोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221	1.310	1.310
			1.310	1.310
107	सुरेश पिता मादू प्रेमबाई कैलाशबाई गायत्रीबाई पु. मादू गीताबाई वि. मादू जाति चमार पता निवासी ग्राम तारागंज तह. सारंगपुर भूमि स्वामी	223	0.980	0.980
			0.980	0.980
108	कचरु पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224	0.590	0.590
		304	0.010	0.010
		299	0.010	0.010
			0.610	0.610
109	रुगनाथ पिता गुलाब हि.1/2 व तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पिता बनेसिंह हि.1/2 सं.भा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	225	0.940	0.940
			0.940	0.940
110	रामसिंह पिता मदन व चंद्रबाई वि. मदन गिलासबाई भूरीबाई पु. उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	226	0.980	0.980
			0.980	0.980
111	प्रभुलाल पिता भवंरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232	1.780	1.780
			1.780	1.780
112	भवंरलाल गुलाब पिता गणपत व उमराव पिता धुला व मोतीबाई वि.धुला जाति चमार वामी	282	0.020	0.020
			0.020	0.020
113	मांगु पिता मादू व छीतीबाई पु. मादू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	283	0.190	0.150
			0.190	0.150

114	हिन्दु पिता संमदर व मनु वि.संमदर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	284	0.110	0.110
	योग		0.110	0.110
115	मांगीलाल पिता मुन्ना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	285	0.190	0.190
	योग		0.190	0.190
116	गोकलसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
117	हिन्दुसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
118	गोपी पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	289	0.070	0.070
		316	0.040	0.040
	योग		0.110	0.110
119	होकमसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पिता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	290	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
120	होकमसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291	0.060	0.060
	योग		0.060	0.060
121	लीलाबाई पति रामलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	292	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
122	रुद्धनाथ पिता गुलाब जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	293	0.090	0.090
	योग		0.090	0.090
123	तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पु. बनेसिंह व अयोद्बाई वि. बनेसिंह जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	294	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
124	देवबाई बालीबाई पिता चंद्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	296	0.100	0.100
		297	0.100	0.100
	योग		0.200	0.200

125	कैलाश हिन्दु बद्री पिता देवीसिंह सौरमबाई पिता देवीसिंह गीताबाई विधवा देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समभाग भाग भूमि स्वामी	298	0.070	<b>0.070</b>
		312	0.060	<b>0.060</b>
		307	0.160	<b>0.160</b>
		302	0.090	<b>0.090</b>
	योग		<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
126	भगवानसिंह जगदीश कमल झानसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	301	0.060	<b>0.060</b>
		योग	<b>0.060</b>	<b>0.060</b>
127	रामसिंह पिता मदनसिंह व चंद्रबाई वि. मदन गिलासबाई भूरीबाईपु. उकांर जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305	0.060	<b>0.060</b>
		योग	<b>0.060</b>	<b>0.060</b>
128	कन्हैयालाल दिनेश श्याम शिव हरि पिता नाथुलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी मोत्याखेडी	306	0.030	<b>0.030</b>
		योग	<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
129	कैलाश हिन्दु बद्री पिता देवीसिंह व गीताबाई वि. देवीसिंह व नारायण बारता बाबु पिता गुलाब व देवबाई पु. गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309	0.080	<b>0.080</b>
		योग	<b>0.080</b>	<b>0.080</b>
130	कैलाश लाडसिंह बहादुर मोडसिंह पु. मादु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310	0.030	<b>0.030</b>
		योग	<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
131	बलदेव पिता भागीरथ हि. 1/2 व छीतीबाई वि. भेरू व शांतबाई वि. भेरू हि. 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311	0.030	<b>0.030</b>
		योग	<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
132	प्रभु पिता धुला होकमसिंह भानसिंह शिवलाल अंतरसिंह पिता उमराव लीलाबाई रामप्रसादबाई पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	314	0.110	<b>0.110</b>
		योग	<b>0.110</b>	<b>0.110</b>

125	कैलाश हिन्दु बद्री पिता देवीसिंह सौरमबाई पिता देवीसिंह गीताबाई विधवा देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समभाग भाग भूमि स्वामी	298	0.070	0.070
		312	0.060	0.060
		307	0.160	0.160
		302	0.090	0.090
	योग		0.380	0.380
126	भगवानसिंह जगदीश कमल ज्ञानसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	301	0.060	0.060
	योग		0.060	0.060
127	रामसिंह पिता मदनसिंह व चंद्रबाई वि. मदन गिलासबाई भूरीबाईपु. उकार जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305	0.060	0.060
	योग		0.060	0.060
128	कन्हैयालाल दिनेश श्याम शिव हरि पिता नाथुलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी मोत्याखेडी	306	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
129	कैलाश हिन्दु बद्री पिता देवीसिंह व गीताबाई वि. देवीसिंह व नारायण बारता बाबु पिता गुलाब व देवबाई पु. गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
130	कैलाश लाडसिंह बहादुर मोडसिंह पु. मादु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
131	बलदेव पिता भागीरथ हि. 1/2 व छीतीबाई वि. भेरु व शांतबाई वि. भेरु हि. 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
132	प्रभु पिता धुला होकमसिंह मानसिंह शिवलाल अंतरसिंह पिता उमराव लीलाबाई रामप्रसादबाई पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	314	0.110	0.110
	योग		0.110	0.110

133	रुग्नाथ पिता गुलाब हि. 1/2 व तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पिता बनेसिंह हि. 1/2 स.भा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
134	जमनाबाई पति गंगराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317	0.040	0.040
	योग		0.040	0.040
135	नाथु पिता मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	318	0.040	0.040
		454	0.020	0.020
	योग		0.060	0.060
136	दयाराम पिता मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319	0.040	0.040
	योग		0.040	0.040
137	मांगु पिता मादु जाति छीतीबाई पु. मादु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	320	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
138	बुखार पिता रुग्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	321	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
139	देवीसिंह पिता रुग्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322	0.010	0.010
		859	0.030	0.030
		813	0.050	0.050
		649	0.300	0.300
	योग		0.390	0.390
140	भगवानसिंह छीतु पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	323	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
141	कहैथालाल दिनेश श्याम शिव हरि पिता नाथुलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
142	बल्देव कालू पिता बग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम कोहडिया	327	0.110	0.110
	योग		0.110	0.110

143	बारता पिता देवा व छीतीबाई पु. देवा व बालु मदन पिता सिद्धु ना.बा. सरपर. पिता स्वयं सिद्धु व मानुबाई पु. सिद्धु व बाजाबाई वि. सिद्धु जाति गुर्जरपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	328	<b>0.050</b>	<b>0.050</b>
	योग		<b>0.050</b>	<b>0.050</b>
144	मांगीलाल पिता उंकार व बालीबाई वि. उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	329	<b>0.040</b>	<b>0.040</b>
	योग		<b>0.040</b>	<b>0.040</b>
145	रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	330	<b>0.060</b>	<b>0.060</b>
	योग		<b>0.060</b>	<b>0.060</b>
146	भागीरथ पिता बॉदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	339	0.040	<b>0.040</b>
	योग		<b>0.040</b>	<b>0.040</b>
147	गीताबाई वि. चंद्र जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	340	0.260	<b>0.100</b>
	योग		<b>0.260</b>	<b>0.100</b>
148	रामप्रसाद हरिनारायण पिता भंवरदास भाग 3/10 व कालुदास पिता पुरनदास भा. 1/10 व जगन्नाथ पिता कुवरदास भाग 3/5 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	350	0.070	<b>0.070</b>
	योग		<b>0.070</b>	<b>0.070</b>
149	बलदेव कालु पिता भग्ना जाति गुर्जर पता निवासी कोहडिया भूमि स्वामी	407	0.120	<b>0.120</b>
	योग		<b>0.120</b>	<b>0.120</b>
150	कैलाश लाडसिंह बहादुरसिंह मोडसिंह पु. मादु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408	0.070	<b>0.070</b>
	योग		<b>0.070</b>	<b>0.070</b>
151	लच्छीराम विकम पिता काशीराम व लीलाबाई वि. काशीराम व गीताबाई सुगनबाई अयोध्याबाई पुत्रीया काशीराम हि. 1/4 व नारायण सीताराम पिता प्यारा व ज्ञानसिंह पिता शंकर हि. 1/4 व गोपी पिता परथी हि. 1/6 व रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव व बदलीबाई पु. उमराव हि. 1/6 व चंद्रबाई गोराबाई पिता नाथु हि. 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411	0.230	<b>0.230</b>

	योग		0.230	0.230
152	लक्ष्मीराम विक्रम पिता काशीराम व लीलाबाई वि. काशीराम व गीताबाई सुगनबाई अयोध्याबाई पुत्रीयः काशीराम हि. 1/4 व नारायण सीताराम पिता प्यारा व ज्ञानसिंह पिता शंकर हि. 1/4 व गोपी पिता परथी हि. 1/6 रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव व बददीबाई पु. उमराव हि. 1/6 व चंद्रबाई गोराबाई पिता नाथु हि. 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	412	0.010	0.010
153	योग		0.010	0.010
	मांगु पिता उंकार व बाजाबाई वि. उंकार हि. 1/3 व सिद्दु पीरु पिता भंवर व अंजुबाई लीलाबाई शांतिबाई पिता भंवर हि. 1/3 व सरजूबाई वि. नारू व मेहताबबाई पिता नारू हि. 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	413	0.170	0.170
154	योग		0.170	0.170
	मांगु पिता मादु व छीतीबाई पु. मादु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	414	0.070	0.070
155	योग		0.070	0.070
	बरता पिता देवा व छीतीबाई पु. देवा व बालु मदन पिता सिद्दु ना.बा. सरपर. पिता खंय सिद्दु व मानुबाई पु. सिद्दु व बाजाबाई वि. सिद्दु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	415	0.020	0.020
156	योग		0.020	0.020
	भागीरथ पिता देवबाई पिता लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	416	0.040	0.040
157	योग		0.040	0.040
	सिद्दनाथ पिता पन्नालाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	418	0.070	0.070
158	योग		0.070	0.070
	शिवनारायण पिता रतनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	419	0.030	0.030
159	योग		0.030	0.030
	राजकुंवर वि. बंशीलाल व शांतिलाल अर्जुन दिलीप पिता बंशीलाल व बालीबाई प्रकाशबाई पु. बंशीलाल समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420	0.030	0.030

संसद (भ.)

		योग		0.030	0.030
160		भंवरीबाई वि. प्रहलाद व गगाराम भगवानसिंह दिनेशकुमार रामचरण पिता प्रहलाद ना.बा. सरपर माता स्वयं भंवरीबाई जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	421	0.030	0.030
		योग		0.030	0.030
161		सिद्धु शंकर पिता रामरतन व सौरमबाई पु. रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422	0.040	0.040
			449	0.070	0.070
			452	0.020	0.020
		योग		0.130	0.130
162		कैलाश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	423	0.160	0.160
		योग		0.160	0.160
163		सागरमल गोशधन पिता हरजी व देवबाई रेखाबाई पिता हरजी गीताबाई वि. हरजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	425	0.080	0.040
			457	0.210	0.210
		योग		0.290	0.250
164		प्रभुलाल उमराब पु. भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427	0.210	0.150
			428	1.310	0.500
		योग		1.520	0.650
165		रामकुंवरबाई वि. मांगु व सावित्रीबाई शारदाबाई श्यामुबाई पु. मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	429	0.140	0.140
			773	1.600	1.600
			451	0.020	0.020
			450	0.060	0.060
			462	0.420	0.150
		योग		2.240	1.970
166		नाथु पिता मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	430	0.210	0.200
		योग		0.210	0.200
167		हरलाल पिता तोलाराम पिता गुलाब भाग 1/2 व चंद्र पिता देवा भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431	0.500	0.350
		योग		0.500	0.350

168	गोकुल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432	0.220	0.220
	योग			0.220
169	हिन्दुसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432/1306	0.050	0.050
	योग			0.050
170	अनार पिता भेरु हि. 1/2 दरियावसिंह मानसिंह पिता पीरुसिंह बुलीबाई बालीबाई पु. पीरुसिंह हि. 1/2 पता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	433	0.370	0.370
			774	6.060
			714	1.940
			438	0.160
				8.530
171	दयाराम पिता मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	434	0.210	0.210
				0.210
172	गंगाराम पिता रामप्रसाद जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437	0.080	0.080
				0.080
173	कालीबाई वेबा बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	439	0.020	0.020
			456	0.210
				0.230
174	रुगनाथ पिता गुलाब हि. 1/2 व तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पिता बनेसिंह हि. 1/2 स.मा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	443	0.070	0.070
				0.070
175	लच्छीराम विकम पिता काशीराम व लीलाबाई वि. काशीराम व गीताबाई सुगनबाई अयोध्याबाई पुत्रीया काशीराम हि. 1/4 व नारायण सीताराम पिता प्यारा व ज्ञानसिंह पिता शंकर हि. 1/4 व गोपी पिता परथी हि. 1/6 रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव व बददीबाई पु. उमराव हि. 1/6 व चंद्रबाई गोराबाई पिता नाथु हि. 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	444	0.090	0.090

	योग		0.090	0.090
176	मेहरबान पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी रोजड़ी भूमि स्वामी	445	0.260	0.260
	योग		0.260	0.260
177	सोनु पिता गोपी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	453	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
178	प्रभु उमराव रामसिंह पिता भेरु सीताबाई शान्तीबाई पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	458	0.700	0.550
	योग		0.700	0.550
179	सीताबाई पति कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	499	1.250	0.350
	योग		1.250	0.350
180	हिन्दुसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500	0.330	0.330
	योग		0.330	0.330
181	केमलबाई पति बंदीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501	0.330	0.330
	योग		0.330	0.330
182	कालीबाई पति बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502	1.000	0.400
	योग		1.000	0.400
183	तेजुबाई पति राधेश्याम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	505	0.640	0.200
	योग		0.640	0.200
184	लाडसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	507	0.370	0.370
	योग		0.370	0.370
185	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	508	0.360	0.360
	योग		0.360	0.360
186	सोनु पिता राजेन्द्रकुमार जाति महाजन पता निवासी नलखेड़ा भूमि स्वामी	510	1.640	1.640
	योग		1.640	1.640
187	कमल कुमार नवीन कुमार पिता रामचरण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	511	1.050	0.850
	योग		1.050	0.850

188	रामसिंह पिता भेरुजी हि. 1/2 कमल भगवानसिंह पिता प्रभुलाल, प्रभुलाल पिता भेरु अंजू बाई पति प्रभुलाल हि. 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	513	0.330	<b>0.330</b>
		565	0.290	<b>0.290</b>
		551	1.010	<b>1.010</b>
		516	0.540	<b>0.540</b>
	योग		<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
189	विकम पिता भागीरथ मोडसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	514	2.030	<b>2.030</b>
	योग		<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
190	सिद्धनाथ पिता गुलाब कलाबाई धापूबाई गीताबाई पुत्रीया गुलाब जानीबाई वि. गुलाब जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	515	1.930	<b>1.930</b>
	योग		<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
191	गीताबाई पति रामचन्द्र (पिता उदा) जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	517	0.670	<b>0.670</b>
		518	2.120	<b>2.120</b>
	योग		<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
192	हिन्दुसिंह काशीराम दयाराम सौरमबाई सुदंरबाई गंगाबाई पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	519	0.560	<b>0.560</b>
	योग		<b>0.560</b>	<b>0.560</b>
193	सिद्धलाल करणसिंह बालुसिंह बलरामसिंह पिता नारायण व कमलबाई वि. नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	524	1.250	<b>1.250</b>
	योग		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
194	शिवलाल पिता परथी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	525	0.360	<b>0.360</b>
	योग		<b>0.360</b>	<b>0.360</b>
195	बलराम पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	526	0.310	<b>0.310</b>
		566	0.350	<b>0.350</b>
	योग		<b>0.660</b>	<b>0.660</b>
196	चंद्रबाई पति छीतु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	534	2.090	<b>2.090</b>
	योग		<b>2.090</b>	<b>2.090</b>

197	छीतु पिता हीरा चमार जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	535	0.710	0.710
		553	1.050	1.050
198	दुर्गाप्रसाद पिता माधु जाति चमार अहस्तारणीय जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	536	1.050	1.050
		योग	1.760	1.760
199	मांगू पिता दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	537	0.840	0.840
		योग	0.840	0.840
200	मोहन तुफान हुकुम बबलु मेन्हर पिता भगा सुगनाबाई वि. भगा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	539/1	0.140	0.140
		539/2	0.150	0.150
		योग	0.290	0.290
201	पुरालाल पिता बालु जाति बलाई पता निवासी नलखेडा भूमि स्वामी	540	0.510	0.510
		659	1.490	1.490
		योग	2.000	2.000
202	शांतिबाई पति भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	541	0.500	0.500
		योग	0.500	0.500
203	अभिषेक पिता अशोक कुमार जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	542	1.040	1.040
		योग	1.040	1.040
204	अदिति पिता अशोक कुमार व सुनीता देवी पति अशोककुमार जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	542/1311	2.080	2.080
		योग	2.080	2.080
205	चंदनबाला पति जंयतकुमार जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	543/1312	0.420	0.420
		योग	0.420	0.420
206	शांतिबाई पति भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	544	0.710	0.710
		योग	0.710	0.710
207	मांगू धर्मा गब्बा पिता देवीसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	548	0.340	0.340
		570	0.170	0.170

सुट्र (अ.)

	योग		0.510	0.510
208	लीलाबाई पति होकमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	549	0.440	0.440
		602	0.080	0.080
209	योग		0.520	0.520
	कर्मा पिता भंवरलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	550	0.350	0.350
210		568	1.380	1.380
	योग		1.730	1.730
211	परथी पिता धना जाति बंजारा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	554	0.690	0.690
		560	0.520	0.520
212	योग		1.210	1.210
	रायसिंह बजेसिंह फुलसिंह पिता भग्गा धापुबाई वि. भग्ग जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	555	0.810	0.810
213		561	0.400	0.400
	योग		1.210	1.210
214	सौरभ पति भगवानसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	556	0.240	0.240
		601	0.480	0.480
215	योग		0.720	0.720
	कालु पिता प्यारा जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	557	0.130	0.130
216		564	0.760	0.760
	योग		0.890	0.890
215	बालु पिता प्यारा जी जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	558	1.630	1.630
	योग		1.630	1.630
216	कैलाश धनश्याम पिता मांगीलाल भानुबाई विधवा मांगीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559	1.390	1.390
	योग		1.390	1.390
216	गणपत पिता उदा नाई जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	562	1.390	1.390
	योग		1.390	1.390

(भा)

217	शिवनारायण हजारी मनोहर पिता परथी सरदारबाई वि. परथी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	563	1.160	1.160
	योग		1.160	1.160
218	सौरमबाई पति उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	571	0.460	0.460
			0.460	0.460
219	अंजूबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	572	0.420	0.420
			0.420	0.420
220	सौरमबाई पति भगवानसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	569	0.070	0.070
			0.070	0.070
221	पवित्राबाई पति शिवनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम निवासी	573	1.040	1.040
			1.040	1.040
222	गंगाबाई पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	574	0.840	0.840
			0.840	0.840
223	गब्बा पिता देवीसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	575	1.390	1.390
			1.390	1.390
224	सौरमबाई पति मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	578	0.010	1.750
			0.010	1.750
225	मानसिंह पिता कालुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	580	0.830	0.830
			0.830	0.830
226	सजनसिंह पिता किरणपालसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम 395 सी वेर्स्ट कॉटानगर शाहदरा दिल्ली भूमि स्वामी	582	2.100	2.100
			2.100	2.100
227	नाथु पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	585	0.700	0.700
		843	0.030	0.030
	योग		0.730	0.730
228	कालु पिता लालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	586	0.690	0.250

	योग		0.690	0.250
229	दयाराम पिता मांगु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	590	0.590	0.150
	योग		0.590	0.150
230	ज्ञानसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	592	0.950	0.950
	योग		0.950	0.950
231	लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	593	0.520	0.250
	योग		0.520	0.250
232	सजनाबाई पति बालू जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	594/1	0.510	0.510
	योग		0.510	0.510
233	गोरीलाल पिता धन्ना जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	594/2	0.570	0.570
	योग		0.570	0.570
234	भावसिंह पिता देवा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	597	0.630	0.630
	योग	599	0.210	0.210
			0.840	0.840
235	ज्ञानसिंह पिता शंकरलाल सीताराम नारायण पिता प्यारा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	579	0.980	0.980
	योग		0.980	0.980
236	वल्लभसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	598	1.050	1.050
	योग	543	1.210	1.210
			2.260	2.260
237	रामप्रसादबाई पति नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	603	0.920	0.920
	योग		0.920	0.920
238	मोहन तुफान हुकुम बबलु मेन्हर सजनबाई पिता भग्गा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	604/1/1	0.220	0.220
	योग	604/1/2	0.220	0.220
			0.440	0.440
239	होकमसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	604/2	0.370	0.370
	योग		0.370	0.370

240	सजनबाई पति मदन जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	605	0.810	0.810
	योग		0.810	0.810
241	मदन द. पु. हजारी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	606	1.220	1.220
	योग		1.220	1.220
242	श्यामबाई पति लाडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	607	0.840	0.840
	योग		0.840	0.840
243	अमरा पिता किशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	610	1.250	1.250
	योग		1.250	1.250
244	गंगाराम पिता भंवरजी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	611	2.100	2.100
	योग		2.100	2.100
245	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	612	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
246	उमराव पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	613	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
247	उमराव पिता जग्गा जाति चमार पता निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय भाग भूमि स्वामी	615	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
248	सेवा पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय भाग भूमि स्वामी	616	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
249	धुला पिता लक्ष्मण जाति चमार पता निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय भाग भूमि स्वामी	617	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
250	मुन्ना पिता दाउद जाति हेला मेहतर पता निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय भाग भूमि स्वामी	618	2.830	2.830
	योग		2.830	2.830
251	श्यामुबाई पति मानसिंह कालीबाई पति मोहनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	621	2.130	1.000
	योग		2.130	1.000

252	सिदधनाथ उर्फ सोहनसिंह पिता उमरायसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	622	1.470	1.060
	योग		1.470	1.060
253	तोलाराम मानसिंह बाबुलाल शिवनारायण पु. बनेसिंह व अयोध्याबाई वि. बनेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	630	1.540	1.540
		639	0.770	0.600
254	रुगनाथ पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	638	1.100	0.400
			1.100	0.400
255	प्रभुलाल गंगाराम पिता हरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	640/3	1.400	1.000
			1.400	1.000
256	दुर्गाप्रसाद पिता माधू भंवरीबाई वि. माधू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	640/1	1.400	1.000
			1.400	1.000
257	शिवसिंह पिता कालुसिंह व शांताबाई रुपाबाई पारोबाई पु. कालुसिंह व सीताबाई बेवा कालुसिंह व छीतु पिता देवीसिंह सुरजसिंह पिता बलदेव व लाडकुवरबाई राजलबाई ना.बा. पुत्रिया बलदेव सर पर माता रेशमबाई वि. बलदेव बेवा नारायण व जीवन सौदानसिंह पिता नारायण ना.बा. सरपर माता कलाबाई व सीमाबाई संतोषबाई पु. नारायण व नानीबाई राजुबाई पु. देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	642	0.180	0.160
			0.180	0.160
258	शिवनारायण पिता रुगनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	645	0.270	0.200
			0.270	0.200
259	मांगीलाल पिता मुन्ना जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी	646	1.250	0.900
			1.250	0.900
260	मदन पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	647	0.490	0.300
			0.490	0.300

261	आत्माराम पिता कचरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	648	0.490	0.240
	योग		0.490	0.240
262	जगदीश पिता राधुलाल व बालीबाई वि. राधुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	650	0.300	0.300
		977	0.370	0.370
		972	0.480	0.480
		951	0.370	0.030
		862	0.030	0.030
		802	0.050	0.050
	योग		1.600	1.260
263	बुखार पिता रुग्नाथ सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	651	0.300	0.300
		978	0.370	0.370
		970	0.480	0.480
		954	0.310	0.050
		799	0.030	0.030
		809	0.020	0.020
	योग		1.510	1.250
264	ल्याकतशाह अख्तरशाह अजगर शाह शोकतशाह हबीबशाह मेहबूबशाह पु. शब्दीरशाह व बानोबी बेवा शब्दीरशाह जाति फकीर पता निवासी नलखेडा अहरतांतरणीय भाग भूमि स्वामी	656	2.000	1.800
	योग		2.000	1.800
265	शहजाद शेरु शब्दीर जाकिर उर्फ छोटु गब्बर साजिद पिता मुमताज व कमुबाई बेवा मुमताज अहरतांतरणीय जाति हेला मेहतर पता निवासी नलखेडा भूमि स्वामी	657	0.330	0.020
	योग		0.330	0.020
266	गुलाब पिता धुला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	658	0.840	0.840
		960	1.190	1.190
	योग		2.030	2.030
267	किशन पिता भोला अहरतांतरणीय जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	660	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
268	सिदधनाथ भोला पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	678	2.100	1.500

(भू-)

	योग		2.100	1.500
269	मांगू पिता दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	679	2.100	1.000
	योग		2.100	1.000
270	प्रभूलाल उमराव पु. भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	680	2.100	0.800
	योग		2.100	0.800
271	लच्छीराम विकम पिता काशीराम व लीलाबाई वि. काशीराम व गीताबाई सुगनबाई अयोध्याबाई पुत्रीया काशीराम हि. 1/4 व नारायण सीताराम पिता प्यारा व ज्ञानसिंह पिता शंकर हि. 1/4 व गोपी पिता परथी हि. 1/6 रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव व बददीबाई पु. उमराव हि. 1/6 व चन्द्रबाई गोराबाई पिता नाथु हि. 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	681	1.410	0.800
	योग		1.410	0.800
272	लच्छीराम विकम पिता काशीराम व लीलाबाई वि. काशीराम व गीताबाई सुगनबाई अयोध्याबाई पुत्रीया काशीराम हि. 1/4 व नारायण सीताराम पिता प्यारा व ज्ञानसिंह पिता शंकर हि. 1/4 व गोपी पिता परथी हि. 1/6 रमेश बाबुलाल शिवनारायण पिता उमराव व बददीबाई पु. उमराव हि. 1/6 व चन्द्रबाई गोराबाई पिता नाथु हि. 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	682	0.870	0.050
	योग		0.870	0.050
273	बारता पिता देवा व छितीबाई पुत्र देवा व बालु मदन पिता सिधु ना.बा. सर पर पिता स्वंय सिधु व मानूबाई पु. सिधु व बाजाबाई वि. सिधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	708	1.430	0.300
	योग		1.430	0.300
274	मागीलाल पिता उंकार व बालीबाई वि. उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	709	1.350	0.250
	योग		1.350	0.250

275	रमेश बाबूलाल शिवनारायण पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	712	3.290	0.050
	योग			0.050
276	ओ० आर०एस फार्म फोडक्टर प्रा० लि० अतिउन फर्क दानिश कुंज कोलाररोड भोपाल वार्क डायरेक्टर ओमप्रकाश पिता शिवशंकर जाति ब्राह्मणजाति ब्राह्मणपता ५४ पुंज मार्ग मिलन रेडियो फ्री गंज जिला उज्जैनभूमि स्वामीभू- राजस्व2400	740	1.050	0.150
	योग			0.150
277	मानसिंह पिता कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	741	0.840	0.200
	योग			0.200
278	हिन्दु पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	775	1.780	1.780
	योग			1.780
279	प्रेमबाई पति दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	792	1.010	1.010
	योग			1.010
280	प्रभूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	776	0.880	0.880
	योग			0.880
281	गंगाराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	777	1.050	1.050
	योग			1.050
282	राजबुबाई पति काशीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	787	1.340	0.400
	योग			0.400
283	भगवानसिंह छितु पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	798	0.050	0.050
		949	1.720	0.070
		861	0.040	0.040
		808	0.010	0.010
		810	0.020	0.020

	योग		1.840	0.190
284	रतनसिंह पिता रुगनाथसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	800 979 961 953 860	0.050 0.370 0.480 0.380 0.030	0.050 0.370 0.480 0.050 0.030
	योग		1.310	0.980
285	भागीरथ पिता रुगनाथसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	801 976 971 864 950	0.060 0.370 0.480 0.030 0.220	0.060 0.370 0.480 0.030 0.020
	योग		1.160	0.960
286	अमरसिंह पिता नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	803 854 886	0.130 0.160 0.050	0.130 0.160 0.050
	योग		0.340	0.340
287	बलदेव पिता नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	804 849 885	0.130 0.150 0.050	0.130 0.100 0.050
	योग		0.330	0.280
288	तोलाराम मायु पिता उमराव फुन्दीबाई विधवा उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	805	0.100	0.100
	योग		0.100	0.100
289	प्रभूलाल पिता भवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	806	0.060	0.060
	योग		0.060	0.060
290	गगाराम पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	807	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
291	बशीरलाल रामदयाल चन्द्रभूरिया पिता शिवसिंह भुवानीबाई विधवा शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	814	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
292	करणसिंह पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	815	0.070	0.070

	योग		0.070	0.070
293	नारायणसिंह मानसिंह पिता बापू व शकुबाई पु. बापू व सुन्दरबाई वि. बापू जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	816	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
294	गगांराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	880	0.180	0.180
	योग		0.180	0.180
295	प्रभूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	881	0.180	0.180
	योग		0.180	0.180
296	शंकरलाल पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	884	0.090	0.090
	योग		0.090	0.090
297	हिन्दु पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	888	0.300	0.300
	योग		0.300	0.300
298	मागीलाल पिता उंकार व बालीबाई वि. उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	825	0.070	0.070
	योग		0.070	0.070
299	दिनेश कुमार पिता छितु जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	812	0.080	0.080
		819	0.020	0.020
	योग		0.100	0.100
300	भागीरथ माता देवबाई पिता लक्ष्मीचन्द जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	822	0.050	0.050
	योग		0.050	0.050
301	बर्णीलाल पिता बोन्दा जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	823	0.020	0.020
		826	0.010	0.010
	योग		0.030	0.030
302	भागीरथ पिता बोन्दा जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी	824	0.040	0.040
	योग		0.040	0.040
303	राधेशयाम पिता गोकुलप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	827	0.160	0.160
		828	0.040	0.040
	योग		0.200	0.200

304	मारीलाल पिता उंकार व बालीबाई वि. उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी योग	829	0.070	0.070
305	सिधनाथ पिता पन्नालाल जाति ब्यहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	830	0.010	0.010
306	बारता पिता देवा व छितीबाई पुत्र देवा व बालु मदन पिता सिध्दु ना.बा. सर पर पिता स्वंय सिध्दु व मानूबाई पु. सिध्दु व बाजाबाई वि. सिध्दु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	834	0.150	0.150
307	तोफानसिंह पिता गोपी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	835	0.120	0.120
308	मागु पिता दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	836	0.180	0.180
309	प्रभूलाल पिता भवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	838	0.200	0.200
310	गंगाराम पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	839	0.050	0.050
311	सोरमबाई पति लालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	841	0.030	0.030
312	भागीरथ गगांराम पिता कालू व लीलाबाई पु. कालू व अयोध्याबाई वि. कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	844	0.150	0.150
313	प्रभूलाल पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	845	0.150	0.150
314	अर्जून पिता गोकुलसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	846	0.180	0.180

315	राधेशयाम पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	847	0.180	0.180
316	मानसिंह पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी योग	852	0.100	0.100
317	रामचन्द्र पिता भवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	853	0.120	0.120
318	सिद्धु शकंर पिता रामरतन व सोरभबाई पु. रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	855	0.020	0.020
319	सीताराम पिता भवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	856	0.100	0.100
320	मानसिंह पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	857	0.100	0.100
321	देवीसिंह पिता रुग्नाथसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	859 980 967 952	0.030 0.370 0.480 0.380	0.030 0.370 0.480 0.030
322	मागु पिता मादू व छितीबाई पु. मादू जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी योग	866	0.110	0.050
323	चन्द्रबाला पति जयन्त कुमार व जयन्त कुमार पिता प्रेमचन्द जाति महाजन पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी योग	959	2.060	2.060
324	सिद्धुलाल करणसिंह बालूसिंह बलरामसिंह पिता नारायण व कमलाबाई वि. नारायण जाति चमार पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी योग	962	0.800	0.800
325	गगाराम पिता उमराव गुर्जर जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमिस्वामी योग	964	1.500	1.500

326	मार्गीलाल पिता भगवानसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	965	0.280	0.280
		974	0.760	0.760
327	योग गोकलसिंह पिता भगवानसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	966	0.280	0.280
		975	0.770	0.770
328	योग भगवानसिंह पिता बाबरु जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	969	0.450	0.450
			0.450	0.450
329	नारायण पिता भगवानसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	973	0.760	0.760
			0.760	0.760
330	योग अमर पिता दरियाव व कबूबाई पुत्री दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	983	0.680	0.150
		985	0.010	0.010
331	योग छीतीबाई पुत्री अनार हि. १४२ बिहारी पिता नन्दराम व सुन्दरबाई चन्द्रबाई पारुबाई पु. नन्दराम हि. १४२ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	986	0.220	0.220
			0.220	0.220
332	कालूराम पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	988	0.230	0.230
			0.230	0.230
333	शिवसिंह पिता कालुसिंह व शांताबाई रुपाबाई पारोबाई पु. कालुसिंह व सीताबाई बेवा कालुसिंह व छीतु पिता देवीसिंह सुरजसिंह पिता बलदेव व लाडकुवरबाई राजलबाई ना.बा. पुत्रिया बलदेव सर पर माता रेशमबाई वि. बलदेव बेवा नारायण व जीवन सौदानसिंह पिता नारायण ना.ब सरपर माता कलाबाई व सीमाबाई सन्तोषबाई पु. नारायण व नारीबाई राजुबाई पु. देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	990	0.160	0.160
		योग	0.160	0.160

(भू-अधिकार)

334	हिन्दु पिता समदर व मनू वि. समदर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्थानी	992	0.540	0.040
	योग		0.540	0.040
335	अमर पिता दरियाव व कबूबाई पुत्री दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्थानी	1010	0.720	0.720
			0.720	0.720
336	बशीलाल व रामसिंह पिता दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमिस्थानी	1021	4.120	4.120
			4.120	4.120
337	मानसिंह पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्थानी	1022	1.670	1.670
			1.670	1.670
338	मेवाबाई पति बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमिस्थानी	1023	1.620	1.670
			1.620	1.670
339	बलदेव पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमिस्थानी	1024	1.620	1.620
			1.620	1.620
340	शंकरलाल गंगाराम पिता दरियाव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमिस्थानी	1025	4.130	4.130
			4.130	4.130
341	आत्माराम सीताराम पिता बांदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्थानी	1026	1.250	1.250
			1.250	1.250
342	चन्द्ररसिंह पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्थानी	1027	0.330	0.330
			0.330	0.330
343	शोभाराम पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमिस्थानी	1028	0.500	0.500
			0.500	0.500
344	शान्तिलाल रीनाबाई पिता शिवलाल व राजबाई वि. शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्थानी	1029	0.420	0.420
			0.420	0.420
	महायोग		343.630	310.605

नोट:- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजरव सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्रकरण. क्र. -ए-2057

राजगढ़, दिनांक 12 मार्च 2018

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं नहर में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय		तहसील – खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
	निजी भूमि गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		
1	ग्राम—गुलखेड़ी की भूमि	4.487	
2	ग्राम—गणेशपुरा की भूमि	17.220	
3	ग्राम—भोजपुर की भूमि	1.320	
	योग	23.027	

**अनुसूची (2)**

(1) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गुलखेड़ी की निजी भूमि प्रभावित होने से

ग्राम – गुलखेड़ी		तहसील – खिलचीपुर		जिला राजगढ़
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
1	2	3	4	5
1	गेंदालाल पिता चिमना, बापूलाल, प्रभूलाल पिता हिरालाल मु, बदाम बैवा कालूसिंह मु धापूबाई बैवा हिरालाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	9/1	0.063	0.063
		9/4	0.266	0.266
		11/1	0.711	0.711
		51/1	0.385	0.050
		78/46	0.138	0.024
	योग	5	1.563	1.114

क्रं.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा
1	2	3	4	5
2	नन्दा पिता देवा जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/3	0.290	0.290
		11/2	0.232	0.160
		77/46/1	0.036	0.012
	योग	3	<b>0.558</b>	<b>0.462</b>
3	मांगीलाल, शंकर पिता रामसिंह जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/6	0.177	0.177
	योग	1	<b>0.177</b>	<b>0.177</b>
4	गिरधारी आ० भागीरथ जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	13/2/2	0.260	0.100
		9/5	0.177	0.177
		11/3	0.360	0.150
		4	<b>0.797</b>	<b>0.427</b>
5	पूरसिंह ,रमेश पिता भंवरलाल जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/2	0.063	0.063
		9/7	0.178	0.120
		2	<b>0.241</b>	<b>0.183</b>
6	दुल्हेसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	7/1	0.200	0.200
		8/1/1	0.059	0.059
		2	<b>0.259</b>	<b>0.259</b>
7	भंवरलाल,नारानसिंह पिता रूपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	50	0.077	0.050
		8/1/4	0.088	0.088
		7/4	0.133	0.133
	योग	3	<b>0.298</b>	<b>0.271</b>
8	रामचन्द्र पिता अमरसिंह ,हरिसिंह पिता गेंदालाल जाति लोडा नि.ग्राम भू स्वामी	46/7	1.267	0.610
		1	<b>1.267</b>	<b>0.610</b>
9	गोवर्धन पिता प्यारसिंह जाति लोडा नि.ग्राम भू स्वामी	46/8/2	0.634	0.584
		1	<b>0.634</b>	<b>0.584</b>
10	बालुसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू-स्वामी	7/2	0.200	0.200
	योग	1	<b>0.200</b>	<b>0.200</b>

क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा
1	2	3	4	5
11	सुल्तानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंध्या नि. ग्रामभू-स्वामी	7/3	0.200	0.200
	योग	1	0.200	0.200
	कुल योग	24	6.194	4.487

(2) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गणेशपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा
1	2	3	4	5
12	अमरसिंह आ.कालू जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	11/2 39/19/2	0.278 0.443	0.130 0.443
	योग	2	0.721	0.573
13	मेहताब आ.कालू जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	11/1 16	0.277 0.304	0.012 0.304
	योग	2	0.581	0.316
14	कंवरलाल,प्यारसिंह आ.कनीराम जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	18	0.696	0.550
	योग	1	0.696	0.550
15	पूरसिंह रमेश पिता भंवरलाल,गिरधारी पिता भानीरथ मांगीलाल,शंकर पिता रामसिंह,मु.भूलीबाई बैवा रामसिंह हि. 1/2 नंदा पिता देवा गेवा पिता चिमनालाल,बादामबाई बैवा डालूसिंह बापूलाल प्रभूलाल पिता हिरलाल,धापूबाई बैवा हीरा हि.2/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	25 26	0.125 1.088	0.125 1.088
	योग	2	1.213	1.213
16	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू मोरसिंह छगनसिंह पिता कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/4	2.059	2.059
	योग	1	2.059	2.059
17	भेरसिंह,बजेसिंह पिता भंवरलाल देवीबाई बैवा भंवरलाल,पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू मोरसिंह,छगनसिंह पिता कंवरलाल लोडा निग्राम भूस्वामी	39/5/2/1	0.230	0.100
	योग	1	0.230	0.100

क्रं.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	आजित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा
1	2	3	4	5
18	हीरालाल, गंगाराम पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/5/2/2	0.100	0.050
		15	0.328	0.328
		योग	2	0.428
19	बजेसिंह आ. भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/107/1/2	0.253	0.253
		योग	1	0.253
20	करणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	22/2	0.225	0.225
		39/1/2	0.045	0.045
		योग	2	0.270
21	करणसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/3	0.304	0.304
		1	0.304	0.304
22	देवबाई बैवा भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/19/1	0.821	0.821
		39/109	1.202	1.000
		योग	2	2.023
23	केसर पत्ति भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/24	0.125	0.125
		योग	1	0.125
24	रंगलाल मुकेश रामबाबू पिता मोती जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/107/2	0.253	0.253
		39/105/2	0.126	0.126
		14/2/2	0.068	0.040
		योग	3	0.447
25	भैरुलाल, कंवरलाल, बिजेसिंह आ. भंवरलाल, देवबाई बैवा मोतीलाल बापूलाल पिता देवसिंह मु. भुरी बैवा देवसिंह हिरालाल, जगन्नाथ पिता गेंदालाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	14/1	0.057	0.037
		योग	1	0.057
26	हरिबगस पिता प्यारसिंह लोडा नि ग्राम भू स्वामी	17/1	0.416	0.416
		39/66/2	0.310	0.310
		योग	2	0.726
27	सजन दत्तक पुत्र कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	17/2	0.416	0.416
		39/19/3/2	0.633	0.633
	योग	2	1.049	1.049

क्रं.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	मूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली मूमि का कुल रकवा
1	2	3	4	5
28	मोतीलाल,बापूलाल पिता देवसिंह मु. भुरीबाई बैवा देवसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	19/1	0.100	0.075
		39/52	0.077	0.077
	योग	2	0.177	0.152
29	जगन्नाथ पिता गेंदा लोडा नि.ग्राम भूस्वामी	19/2	0.163	0.100
		39/105/1/1	0.168	0.168
		22/3	0.225	0.225
	योग	3	0.556	0.493
30	दयाराम पिता अमरसिंह जाति लोडा नि.ग्राम भूस्वामी	20	0.316	0.316
		39/66/1	0.285	0.285
		39/108	0.065	0.065
	योग	3	0.666	0.666
31	रतनसिंह,आ.फतेहसिंह नाराणी बैवा फतेहसिंह लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21	0.862	0.862
	योग	1	0.862	0.862
32	भेरुसिंह,बजेसिंह पिता भंवरलाल देवीबाई बैवा भंवरलाल, पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू मोरसिंह,छगनसिंह	22/1	0.145	0.145
		39/5/2/1	0.230	0.100
		39/105/3	0.126	0.126
	योग	3	0.501	0.371
33	गोरधन पिता प्यारसिंह जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/19/3/1	0.632	0.632
	योग	1	0.632	0.632
34	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू मोरसिंह छगलसिंह पिता कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/40	0.632	0.632
	योग	1	0.632	0.632
35	भेरुलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/107/1/1	0.757	0.757
		39/1/1	0.020	0.020
	योग	2	0.777	0.777
36	कंचनबाई पति बापूलाल बरदीबाई पति मोतीलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/1/1 मे से	0.745	0.530
		39/63/2 मे से	0.356	0.260
	योग	2	1.101	0.790

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकम	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकम
1	2	3	4	5
37	विजयसिंह, भंवरलाल दल्लूबाई पति कंवरलाल नि ग्राम भू स्वामी जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/1/2 मे से 39/63/2/2 मे से	0.373	0.373
			0.339	0.200
		2	0.712	0.573
38	बजेसिंह आ. भंवरलाल दल्लूबाई पति कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/3	0.967	0.967
	योग	1	0.967	0.967
39	बापुलाल पिता देवीसिंह हीरालाल पिता गेंदा जाति लोडा नि.ग्रा.	39/63/2/1	0.203	0.100
	योग	1	0.203	0.100
40	हीरालाल, गंगाराम, जगन्नाथ पिता गेंदा, भेलाल, विजयसिंह पिता भंवरलाल मु. देवबाई बेवा भंवरलाल, मु.पार्वतीबाई, दल्लूबाई बेवा कंवरलाल, रामलाल कालु मोरसिंह, छगनसिंह पिता कंवरलाल, मोतीलाल, बापुलाल, पिता देवसिंह, मु. भुरीबाई बेवा देवसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/72	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
	कुलयोग	49	18.980	17.220

(3) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशाय में ग्राम भोजपुर की निजी भूमि प्रभावित होने से

ग्राम - भोजपुर	तहसील - खिलचीपुर	ज़िला राजगढ़		
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकम
1	2	3	4	5
41	हीरालाल गंगाराम आ. गेन्दा जाति लोडा पता नियासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्य 0/24	1030/2/2	0.065	0.065
		1031/3	0.250	0.250
	योग	2	0.315	0.315
42	बापुलाल आ. देवीसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्य	1031/1	0.250	0.250
	योग	1	0.250	0.250
43	मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति तंबर पता नि. गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्य	1031/2	0.083	0.083
		1032	0.178	0.178
	योग	2	0.261	0.261
44	अमरसिंह पिता कालु जाति लोडा पता नि. गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्य	1033/1	0.247	0.247
		1	0.247	0.247
45	गंगाराम पिता गेन्दालाल जाति लोडा पता नि.ग्राम गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्य	1033/2	0.247	0.247
		1	0.247	0.247
	कुल योग	7	1.320	1.320
	महायोग	80	26.494	23.027

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान वा नियोक्ताओं अनुदितार्थी एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में दिल्ला या सकता है।

पत्र. क्र. 2058-भू-अर्जन-2018

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुआहेड़ी जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ सुआहेड़ी जलाशय निर्माण के द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

सुआहेड़ी जलाशय

तहसील - खिलचीपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
	निजी भूमि सुआहेड़ी जलाशय के निर्माण में एवं द्वाब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-सुआहेड़ी की भूमि	15.167
2	ग्राम-कुशलपुरा की भूमि	11.045
3	ग्राम-सुरजपुरा की भूमि	1.116
4	ग्राम - बारोल की भूमि	0.074
	योग	27.432

### अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	दयाराम पिता कालू जाति लोडा नि.ग्राम	118/1	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
2	रामसिंह पिता भेरु जाति लोडा नि.ग्राम	84/2	0.429	0.150
		118/2	0.085	0.040
	योग	2	0.514	0.190
3	मन्ना पिता रामा लोडा नि. कुशलपुरा	120/1/2	0.400	0.400
	योग	1	0.400	0.400
4	मांगीलाल, पूरीलाल, मानसिंह पिता देवीराम लोडा नि. कुशलपुरा	120/1/1	0.445	0.310
	योग	1	0.445	0.310
5	मानसिंह पिता देवीराम लोडा नि.कुशलपुरा	122/1	0.668	0.496
	योग	1	0.668	0.496

6	जयसिंह पिता किशार लोडा नि.ग्राम	127 / 1 107	0.988 0.684	0.988 0.684
	योग	2	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
7	मु. धापुबाई वेवा हरला,बापुलाल, करणसिंह कन्हैयालाल पिता हरला लोडा नि.ग्राम	105 / 1 106 / 1	0.934 1.164	0.934 1.164
	योग	2	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>
8	उम्मेद ,मदन,चन्दा पिता भारमल, गजरीबाई वेवा भारमल जाति लोडा नि.ग्रा.	127	1.137	1.100
	योग	1	<b>1.137</b>	<b>1.100</b>
9	पांचू पिता रोडजी जाति लोडा नि.ग्रा.	129 / 1	1.024	1.024
	योग	1	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>
10	किशना पिता खेमा लोडा जाति नि.ग्राम	129/2	0.506	0.506
	योग	1	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
11	मांगीलाल,देवीराम पिता मन्ना जाति लोडा नि कुशलपुरा	207/117	1.023	1.023
	योग	1	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>
12	किशन,बीरम पिता छीतर धापुबाई पुत्री मेहताब जाति अजा. नि.ग्राम	109/2	0.340	0.340
	योग	1	<b>0.340</b>	<b>0.340</b>
13	चन्दा पिता गोपी गोरा पुत्री गोपी जाति चमार नि.ग्रा.	109/3	0.352	0.352
	योग	1	<b>0.352</b>	<b>0.352</b>
14	बीरम पिता हरिसिंह लोडा नि.ग्राम	291/64 295/64	0.166 0.150	0.166 0.150
	योग	2	<b>0.316</b>	<b>0.316</b>
15	सरदार,रामनारायण पिता भूरा कस्तुरबाई वेवा भूरा, भंवरलाल,चम्पालाल पिता देवा सोनीबाई, पांचीबाई, पिता देवा जाति लोडा नि.ग्रा.	293/109 257/64	0.340 0.251	0.340 0.251
	योग	2	<b>0.591</b>	<b>0.591</b>
16	अमरा, लक्ष्मण पिता देव्या जाति लोडा नि.ग्रा.	159/1	0.700	0.600
	योग	1	<b>0.700</b>	<b>0.600</b>
17	जगन्नाथ, सांवलाल,दोलतराम, मोहनलाल,अमरसिंह पिता व्यारजी जाति लोडा नि.ग्रा	311/64/1 315/64 283/64/1	0.227 0.368 0.607	0.190 0.260 0.207
	योग	3	<b>1.202</b>	<b>0.657</b>
18	किशन, मोडसिंह पिता हीरालाल, लोडा नि.ग्राम	174	1.089	0.810
	योग	1	<b>1.089</b>	<b>0.810</b>
19	पूरीलाल ,शंकरलाल पिता अमरसिंह लोडा नि.ग्रा.	106/2 106/3	0.759 0.380	0.759 0.380
	योग	2	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>
20	रामचन्द्र पिता धूरीलाल लोडा नि.ग्रा	133	0.684	0.300
	योग	1	<b>0.684</b>	<b>0.300</b>
21	धूरीलाल,मन्ना, रतन पिता रामा लोडा नि.ग्राम	317/117	0.340	0.340
	योग	1	<b>0.340</b>	<b>0.340</b>

22	लालसिंह ,गेदालाल,बापुलाल पिता भंवरलाल देवली बेवा भंवरलाल, धुल्या,मांगीलाल, शंकरलाल पिता पेमा, डालीबाई पुत्री पेमा, अमरीबाई पुत्री नान्या, पूरीलाल,शंकरलाल,पिता अमरसिंह,सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह, शिखारी पिता गोपाल, प्रभुलाल पिता नान्या लोडा नि.ग्राम	80/1	0.870	0.140
		80/2	0.761	0.253
	योग	2	1.631	0.393
23	मांगीलाल पिता गोपीलाल लोडा नि.ग्रा	79	0.340	0.200
		156	0.239	0.025
	योग	2	0.579	0.225
24	देवसिंह पिता रामा हि.1/ 2 लालचन्द पिता नाथु मांगीबाई पुत्री नाथु लोडा नि.ग्राम	104	0.684	0.200
	योग	1	0.684	0.200
	कुलयोग	27	19.219	15.167

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम कुशलपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा
1	2	3	4	5
25	मांगीलाल पिता श्रीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/3	1.350	1.350
	योग	1	1.350	1.350
26	गोपीलाल पिता कंवरीया जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/4	1.000	0.850
	योग	1	1.000	0.850
27	बीरम पिता गोपीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/5	1.575	1.575
	योग	1	1.575	1.575
28	प्रभुलाल पिता देवा जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/2/5	1.000	0.800
	योग	1	1.000	0.800
29	भेरू पिता प्यारा जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/2/4	1.555	1.555
	योग	1	1.555	1.555
30	दोलतराम पिता कालू अ.जा. नि.ग्रा.	1/2/9	1.676	1.676
	योग	1	1.676	1.676
31	गंगाराम पिता किशनलाल,कालू पिता गोपीलाल मु. पूरीबाई बेवा गोपीलाल लोडा नि.ग्रा.	90/ 1	0.303	0.280
		106/1	1.308	0.058
	योग	2	1.611	0.338
32	बापुलाल पिता देवीराम लोडा नि.ग्राम	90/3	0.304	0.304
		106/2	0.436	0.436
	योग	2	0.74	0.74
33	पूरा पिता हीरा लोडा नि.ग्राम	205/1 231/1	0.749	0.749
	योग	2	0.749	0.749

34	मांगीलाल पिता धीसा ,कस्तुरीबाई,धापुबाई ,लीलाबाई पिता धीसा मु. भोत्या बेवा धीसा अ.जा. नि.ग्रा	213/1	0.821	0.225
	योग	1	0.821	0.225
35	पूरा पिता किशना ,दोला, रमेश न.वा.सर. माता सरदारबाई बेवा कालू मानसिंह मांगीलाल पिता श्रीया अ.जा. नि.ग्रा	160/1/1	0.470	0.160
		83	0.190	0.190
	योग	2	0.660	0.350
36	रामचन्द्र शिव पिता रोडा प्रेमबाई पुत्री रोडा मु.धापुबाई बेवा रोडा जाति लोडा नि.ग्रा	161/1	0.631	0.253
		270/1	0.012	0.012
	योग	2	0.643	0.265
37	कालू, चंदा पिता देवीराम जाति लोडा नि.ग्रा	108	0.518	0.259
	योग	1	0.518	0.259
38	नन्दा, हजारी पिता धूल्या, जगदीश, नारायण पिता अमरसिंह मु.प्रेमबाई बेवा अमरसिंह जाति लोडा नि.ग्रा	269/1	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
39	मांगीलाल पिता भेरु लोडा नि.ग्रा	248/1/2	0.174	0.174
	योग	1	0.174	0.174
40	मांगीलाल,पूरीलाल मानसिंह पिता देव्या,भवरीबाई,शांतिबाई पुत्रीया देव्या,लोडा नि.ग्रा	87	0.352	0.115
	योग	1	0.352	0.115
	कुलयोग	21	14.448	11.045

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम सुरजपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
41	कालू पिता श्रीलाल जाति लोडा नि.ग्रा	13	0.178	0.178
	योग	1	0.178	0.178
42	रुपा पिता अमरा हि. 1/3 प्रभुलाल,बीरमलाल पिता भवरलाल हि.1/3 कंवरलाल पिता देवा हि. 1/3 जाति लोडा नि.ग्रा	40	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
43	अमरसिंह पिता भारमल,गोराबाई,कंचनबाई बेवा मांगीलाल जाति लोडा नि.ग्रा	22/1	0.197	0.050
		27/1	0.182	0.125
		41/1	0.057	0.057
		42/1	0.220	0.012
	योग	4	0.656	0.244

44	चौथमल, हजारीलाल, प्रेमबाई, अनारीबाई पिता हीरालाल जाति लोडा नि.ग्रा	22/2	0.196	0.050
		27/2	0.182	0.125
		41/2	0.056	0.056
		42/2	0.221	0.012
		योग	4	0.655
45	अमरसिंह पिता भारमल, गोराबाई, कंचनबाई बेवा मांगीलाल, चौथमल, हजारी, प्रेमबाई, अनारीबाई पिता हीरालाल लोडा नि.ग्रा	23	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
46	मांगीलाल अमरसिंह पिता भारमल, भीराबाई बेवा भारमल हीरालाल पिता हरलाल हि. 1/2 देवीलाल, मानसिंह पिता किशोर 1/2 गोपीलाल पिता किशोर, भंवरलाल पिता प्यारा जाति लोडा नि.ग्रा.	28	0.012	0.012
		29	0.225	0.255
	योग	2	0.267	0.267
	कुलयोग	13	1.970	1.146

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम बारोल की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा
1	2	3	4	5
47	कालु किशना गोरीलाल पिता उदा जाति लोडा नि.ग्रा.म भूस्वामी	147/299	0.381	0.006
48	नन्दराम, सुरेश, धनश्याम, मानी पिता रुघनाथ जाति कुम्हार नि.ग्रा.म	157/228	0.320	0.040
49	रोडीबाई, देवबाई पुत्री अमरा रामसिंह, गिरधारी पिता अमरलाल जाति धोबी नि.ग्रा.म. भूस्वामी	157/242	0.279	0.028
	योग	3	0.980	0.074
	महायोग	64	36.617	27.432

नोट :- भूमि के नवक्षे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र. क्र. 3096—ए—2018

राजगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में झिरी जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ झिरी जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

झिरी जलाशय

तहसील – जीरापुर

जिला राजगढ़

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
	निजी भूमि बरखेड़ी जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम–झिरी	0.000
2	ग्राम–दोबड़ा	6.566
3	ग्राम–हासलबे	2.073
	योग	8.639

### अनुसूची (1)

(1) झिरी जलाशय में ग्राम झिरी (दोबड़ा एवं हासलबे) की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद, कमलसिंह पिता सेवा, नानुबाई बैवा सेवा जाति बलाई नि.ग्रा.दोबड़ा	354/4/2	0.050	0.050
		355/2	0.455	0.455
		368/5/2	0.011	0.011
	योग	4	0.516	0.516
2	अमानबाई बैवा छीता दर्याविवाई पुत्री छीता जाति बलाई नि.ग्रा.दोबड़ा	354/4/1	0.051	0.051
		355/1	0.455	0.455
		368/5/1	0.010	0.010
	योग	3	0.516	0.516
3	बदेसिंह पिता रामलाल जाति सौंदिया नि.ग्रा. दोबड़ा	354/2/2	0.030	0.030
		354/3/2	0.020	0.020
		356/2	0.440	0.440
	योग	3	0.490	0.490

4	बापुलाल पिता गंगाराम जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	354/2/1 354/3/1 356/1	0.031 0.020 0.440	0.031 0.020 0.440
	योग	2	0.491	0.491
5	जतनबाई बैवा हिन्दुसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	354/2/3 354/3/3 356/3	0.015 0.011 0.222	0.015 0.011 0.222
	योग	3	0.248	0.248
6	बापुलाल पिता लालजी जाति चमार दोबडा	354/2/5 354/3/5 356/5	0.030 0.020 0.458	0.030 0.020 0.458
	योग	3	0.508	0.508
7	रतनबाई पति प्रभूलाल जाति बलाई दोबडा	354/2/4 354/3/4 356/4	0.015 0.010 0.201	0.015 0.010 0.201
	योग	3	0.226	0.226
8	पर्वतसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	357/4	0.200	0.200
	योग	3	0.200	0.200
9	रामलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	357/5 368/3/5 368/4/5	0.339 0.020 0.016	0.339 0.020 0.016
	योग	3	0.375	0.375
10	कमलासिंह ,बालुसिंह पिता लालजी जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	357/3/3 368/4/3	0.538 0.014	0.538 0.014
	योग	2	0.552	0.552
11	बापुलाल पिता गंगाराम जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा नि.ग्रा.दोबडा	357/1 368/3 368/4	0.538 0.010 0.015	0.538 0.010 0.015
	योग	3	0.563	0.563
12	सम्पतबाई पति माधु जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	357/2 368/3/2 368/4/2	0.539 0.010 0.015	0.539 0.010 0.015
	योग	3	0.564	0.564
13	सुन्दरबाई बैवा सेवा जाति चमार नि.ग्रा.दोबडा	358/1	0.202	0.150
14	कालुसिंह ,नारायणसिंह,बालुसिंह पिता भेरू ग्यारसीबाई पुत्री भेरू जाति चमार नि.ग्रा.दोबडा	358/2	0.203	0.110
15	बीरमसिंह पिता धुला,सुन्दरबाई बैवा धुला जाति चमार नि.ग्रा.दोबडा	358/3	0.202	0.052
16	श्रीलाल पिता बापुलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	362/1 362/2	0.139 0.258	0.139 0.200
	योग	2	0.397	0.339
17	बापुलाल पिता सेवा जाति सौंध्या नि.ग्रा.दोबडा	363	0.482	0.282

18	रामलाल, जसवंतसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंद्या नि.ग्रा. दोबडा	368/1/3/1/2	0.192	0.192
		368/1/3/2/2	0.192	0.192
	योग	2	0.384	0.384
	कुल योग		<b>7.119</b>	<b>6.566</b>
	ग्राम - हांसलबे			
19	गोपीलाल पिता बागा जाति चमार नि.ग्रा. हांसलबे	216/1	0.555	0.147
		217/1	0.459	0.100
		216/2/1	0.065	0.065
	योग	3	<b>1.079</b>	<b>0.312</b>
20	राधेश्याम पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्रा. हांसलबे	216/2/2/2	0.268	0.268
		217/3/2	0.094	0.094
	योग	2	<b>0.362</b>	<b>0.362</b>
21	अमरसिंह पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्रा.हांसलबे	216/2/2/3	0.224	0.224
		217/3/1/1/2	0.054	0.054
	योग	2	<b>0.278</b>	<b>0.278</b>
22	कालुसिंह पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्रा. हांसलबे	217/3/1/2	0.094	0.094
		220/1/1/6/2	0.064	0.064
		187/1/1/8/2	0.337	0.337
	योग	3	<b>0.495</b>	<b>0.495</b>
23	पन्नालाल पिता बागा जाति चमार नि.ग्रा. हांसलबे	217/3/1/1/1/1	<b>0.163</b>	<b>0.163</b>
24	कमलसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्रा. हांसलबे	217/3/1/1/2	0.054	0.054
25	जगदीश, यादवसिंह पिता बापुलाल, द्रोपतीबाई बैधा बापुलाल होकमबाई, रामकलाबाई पुत्री बापुलाल सौंद्या निवासी ग्राम नि.ग्रा. हांसलबे	187/8	0.283	0.283
		216/2/2/1	0.062	0.062
	योग	2	<b>0.345</b>	<b>0.345</b>
26	प्रभूलाल पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्रा.हांसलबे	220/1/1/6/1	0.064	0.064
	योग		<b>2.840</b>	<b>2.073</b>
	महायोग		<b>9.959</b>	<b>8.639</b>

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र. 1147—भू-अर्जन—2018

रायसेन, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2017-18 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम — बेरखेड़ी

तहसील— उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेरखेड़ी	हाकमसिंह आ. नारायण सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम चन्दली भू स्वामी	164/1	2.590	0.062	कार्यपालन यंत्री बारना बांधी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भवारा उप नहर निर्माण हेतु
2	बेरखेड़ी	विधावाई पत्नि रामगोपाल जाति मेहरा निवासी जबलपुर भू स्वामी	166/4	0.809	0.006		
3	बेरखेड़ी	गुलजार सिंह आ. शंकर सिंह जाति लोधी नि. चन्दली भू स्वामी	165/1	2.023	0.092		
4	बेरखेड़ी	केशव प्रसाद आ. मदन प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू	168/1/1	0.607	0.004		
5	बेरखेड़ी	देवकी वाई पत्नि राजेश कुमार जाति लोधी निवासी भटेरा तह. गाडरवारा भू स्वामी	168/1/2	0.607	0.041		
6	बेरखेड़ी	देवकी वाई पुत्री हनुमत सिंह जाति लोधी निवासी भाडोन भू स्वामी	168/1/3	0.405	0.040		
7	बेरखेड़ी	रानी पत्नि चैन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	169/1	2.432	0.089		

8	बेरखेड़ी	रतिशम, मोहन सिंह आ. मन्दू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	123	3.549	0.164		
9	बेरखेड़ी	आनंद कुंवर वेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	122/1/2	1.039	0.007		
10	बेरखेड़ी	आनंद कुंवर वेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	109/6	1.821	0.141		
11	बेरखेड़ी	फूलबती बाई पत्नि जसबत सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम चंदली भू स्वामी	122/2	1.558	0.095		
12	बेरखेड़ी	दिनेश, हेमराज आ. जसबत सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम चंदली भू स्वामी	122/3	1.558	0.081		
13	बेरखेड़ी	पूरनसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	121/1 109/4	2.917 0.607	0.068		
14	बेरखेड़ी	कौशलेन्द्र आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	121/2	2.921	0.165		
15	बेरखेड़ी	कौशलेन्द्र आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	103/2	1.214	0.054		
16	बेरखेड़ी	सुरजीत सिंह आ. दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	97/1	3.034	0.097		
17	बेरखेड़ी	शिवपाल आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	98	1.104	0.077		
18	बेरखेड़ी	रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	100	2.711	0.148		
19	बेरखेड़ी	छोटेसिंह उर्फ कोमल सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	102	2.714	0.002		
20	बेरखेड़ी	सम्पत बाई वेवा साहब सिंह, गिरवर सिंह, बैनी सिंह, मोहन सिंह आ. साहब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी	101	2.687	0.112		
21	बेरखेड़ी	रुकमणी बाई पुरी दौलतराम जाति लोधी निवासी ग्राम घाना भू स्वामी	104/1	2.428	0.131		
22	बेरखेड़ी	सुमन बाई पत्नि कौशलेन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी	109/2	1.214	0.002		
23	बेरखेड़ी	ईश्वर सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	109/3	1.214	0.083		
24	बेरखेड़ी	रघुराजसिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी गायव्यान भू स्वामी	109/5	1.619	0.077		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी.एस.टोमर, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. 4079-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-घानाउमरी, ब. नं.-144, प.ह.नं.-13, रा.नि.म.-नवेगांव.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.737 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144/2	0.108
143/1	0.044
143/3	0.038
142/2	0.046
142/1	0.056
137/4	0.055
137/1	0.027
136	0.036
132/1	0.046
130/4	0.049
130/1	0.103
129	0.129
योग . .	0.737 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4080-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बेलगांवमाल, ब. नं.-200, प.ह.नं.- 74, रा.नि.म.-नवेगांव.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.811 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.006
80	0.018
81	0.026

(1)	(2)
84	0.026
83	0.076
85/1	0.010
85/2	0.011
89	0.025
86/1	0.004
46/4	0.013
86/2	0.006
87	0.008
46/3	0.023
86/3	0.004
88/1	0.003
46/5	0.078
88/2	0.004
90	0.014
45/2	0.028
45/3	0.047
45/4	0.015
46/1	0.023
46/2	0.031
47	0.135
51/1	0.152
51/2	0.025
योग . .	<u>0.811</u> हे कर्तयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4081-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बम्हनीमाल, ब. नं.-363, प.ह.नं.- 73, रा.नि.म.-नवेंगांव,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.548 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)
-------------------------	-----------------------------------

(1)	(2)
6/1	0.045
5	0.049
4/2	0.027
4/1	0.025
3	0.111
9/2	0.056
9/1ख	0.027
62	0.086
60/3	0.022
60/1	0.018
60/2	0.018
60/4	0.026
56/1	0.023
56/2	0.015
योग . .	<u>0.548</u> हे कर्तयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">http://www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	6/14	0.052
	4	0.197
	7/1	0.058
	8/1	0.059
	8/2	0.016
	8/3	0.021
	8/9	0.018
	8/4	0.024
	8/5	0.012
योग . .	<u>0.909</u>	हे कटयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4082-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि-अर्जन के संबंध में,

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—जुन्नारदेव  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बम्हनीरैयत, ब. नं.-363, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-नवेगांव.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.909 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकम
खसरा नंबर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/5	0.038
5/6	0.067
5/2	0.175
5/1	0.069
6/12	0.060
6/18	0.043

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि-अर्जन के संबंध में,
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4083-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है।

है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खमरा, ब. नं.-90, प.ह.नं.-57, रा.नि.म.-छिन्दवाड़ा-3.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.916 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/1	0.020
93	0.032
101/1	0.145
101/2	0.008
103	0.194
112	0.128
131/1	0.053
142	0.012
24/1	0.055
23	0.096
22/2	0.055
26	0.064
31	0.054
योग . .	0.916 हे क्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4084-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया, ब. नं.-281, प.ह.नं.-57, रा.नि.म.-छिन्दवाड़ा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.212 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334/2	0.014
337/2, 337/3	0.088
337/1	0.004
341/2	0.042
341/1	0.064
योग . .	0.212 हे क्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. 4132-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चौरई  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिहोरामाल, ब. नं.-290, प.ह.नं.-40, रा.नि.म.-चौरई.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/7	0.040
166/5	0.016
166/2	0.038
166/1	0.048

(1)	(2)
229/3, 230/3, 231/3	0.050
229/1, 230/1, 231/1	0.107
302, 305/2	0.086
298/2, 299/2, 311	0.108
298/3, 299/3-4-5-6, 312/2	0.160
297/1	0.078
297/3	0.068
योग . .	0.799 हे क्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के टेल वितरक नहर की 2 एवं 3 एल सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4133-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-झिलमिली, ब. नं.-110, प.ह.नं.-39, रा.नि.म.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.794 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135, 136/1स 137, 138/3, 139/11-12	0.160
136/4	0.004
134/78	0.020
134/79	0.020
134/50	0.015
134/44	0.029
134/54	0.018
134/33-34	0.008
134/49	0.010
133/1, 139/7	0.071
134/4, 139/13	0.071
132/1क-2, 132/1 ख-1, 132/2 क-1	0.005
132/1क-1	0.115
165/1 ख, 165/2, 166/2	0.008
167/2	
129/2-3	0.038
126/1ख, 126/2ख, 126/1ग, 126/2ग/129/4, 131/1ग	0.074
128/3	0.062
127/1	0.176
363/3	0.240
127/2	0.050
356/1	0.140
115/4	0.024
115/3	0.065
115/2	0.030
374/1	0.022
373	0.039
367/2क	0.019
367/1क, 371/1ख	0.020
367/1ग-2, 367/2 ख-3	0.032

(1)	(2)
367/1 ग-3,367/2 ख-3	0.039
368/1	0.064
502/1	0.035
368/2	0.006
372/1	0.006
503/2	0.048
501/1	0.035
503/1	0.048
501/2	0.048
502/2	0.035
477, 499, 500	0.166

प्रस्तावित रकम, 126/1क, 126/2क, 129/1क, 131/1ख	0.290
181/1, 181/2	0.024
363/1ख	0.045
363/2क-6	0.060
363/4-5	0.128
356/4	0.032
356/2	0.050
350/8	0.010
350/2	0.040

योग . . 02.794 हे कटयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—पेंच व्यपर्वर्तन वृहद परियोजना के टेल वितरक नहर की झिलमिली माइनर 2 एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।	(1)	(2)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	360	0.024
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.	361/1	0.038
	361/2	0.018
	362	0.004
	363	0.028
	377	0.036
	378	0.036
	146	0.008
	<b>कुल योग.</b>	
	<b>0.716</b>	

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. 103-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—दुअरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.716 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)

(2)

351

0.038

350

0.060

349

0.042

348/2

0.020

348/1

0.022

347

0.030

311

0.020

310

0.082

309

0.022

153/1

0.024

153/2

0.004

158

0.074

159

0.020

359/1

0.066

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—खजुरहन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.283 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)

(2)

3/3

0.004

9

0.064

10

0.134

68

0.174

74

0.017

75

0.034

76

0.013

77

0.032

79/1ख

0.013

61

0.018

83

0.020

85

0.010

57

0.352

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—टडहर (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.255 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	(1)	(2)
93	0.048	151	0.004
154	0.115	136	0.020
158	0.017	150	0.012
159	0.020	139	0.022
163	0.004	137	0.010
168	0.112	144	0.015
166	0.048	127	0.012
174	0.014	124	0.004
180	0.012	91	0.055
181	0.068	94	0.010
178	0.078	93	0.016
179/1	0.110	101	0.041
182/1	0.114	184	0.034
117	0.125		
113/1	0.048		
114	0.056		
198	0.066		
196	0.040		
197	0.004		
210	0.045		
211	0.064		
216	0.020		
220	0.062		
221	0.003		
218	0.084		
	कुल योग. 2.262		
	शासकीय 16/1 0.021		
	कुल योग . 2.283		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 105-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

कुल योग. 0.255

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 106-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हनुमना  
(ग) नगर/ग्राम—बहुती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.215 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/1	0.060
51	0.090
50	0.028

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हनुमना

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
49	0.022	क्र. 107-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में डचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
39	0.027	
37	0.018	
36	0.028	
54	0.032	
61	0.086	
286	0.056	
281	0.012	
160	0.064	
280	0.018	
161	0.002	
162	0.030	
166	0.005	
170/2	0.012	
171/3	0.092	
270	0.084	
360	0.078	
361	0.047	
355	0.011	
366	0.025	
354	0.018	
353	0.013	
351	0.008	
348	0.016	
346	0.008	
492	0.004	
494	0.007	
495	0.011	
488	0.029	
496	0.007	
503	0.003	
504	0.009	
501	0.074	
499/3	0.003	
511	0.041	
512	0.013	
514	0.020	
426	0.004	
<b>कुल योग.</b>		<b>1.215</b>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.	48	0.038
	34	0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
33	0.026	377	0.072
29	0.168	382	0.006
32	0.004	388	0.032
28	0.114	389	0.005
27	0.080	401	0.030
26	0.038	400	0.021
25	0.090	405	0.040
103	0.007	397	0.040
35	0.004	409	0.080
<b>कुल योग.</b>		<b>410</b>	<b>0.008</b>
	<b>2.304</b>	<b>411</b>	<b>0.038</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 108-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—पटेहरी
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.980 हेक्टेयर।

खसरा नं.

अर्जित रकमा  
(हे. में)

(1)	(2)
345/1	0.023
345/2	0.015
360	0.020
359	0.023
362	0.017
358/1	0.073
358/4	0.002
356	0.023
357	0.008
284/1	0.005

(1)	(2)	(1)	(2)
377	0.072	382	0.006
388	0.032	389	0.005
401	0.030	400	0.021
405	0.040	397	0.040
409	0.080	410	0.008
411	0.038	412	0.030
413	0.090	414	0.044
415	0.035	422	0.002
423	0.046	424	0.152
<b>कुल योग.</b>		<b>410</b>	<b>0.980</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 109-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—पटेहरा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—2.283 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
1723	0.072
1725	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
1726	0.023	253	0.059
1727	0.021	255	0.011
1728	0.018	256	0.014
1703	0.022	257	0.012
1704	0.173	273	0.030
1701	0.064	275	0.002
254	0.012	295	0.013
343	0.002	296	0.008
394	0.034	297	0.014
396	0.072	298	0.034
397	0.072	299	0.004
459	0.054	300	0.071
458	0.024	316	0.018
456	0.091	317	0.004
455	0.058	319	0.039
440	0.132	320	0.044
444	0.017	346	0.014
445	0.044	352	0.005
420	0.048	353	0.008
423	0.009	356	0.010
484	0.024	357	0.030
245	0.028	3183	0.006
1623	0.018	2309/1	0.016
1627	0.054	2309/2	0.006
1628	0.024	3210/2	0.004
1629	0.024	1154/1	0.060
1695	0.076	2499	0.020
1696	0.079	3295	0.015
1316	0.082	2308	0.016
1319	0.016	2523/1	0.030
1318	0.059	2498	0.030
1320	0.027	2566	0.146
1321	0.033	2565	0.040
1322	0.023	2496/1	0.070
1323	0.018	2577	0.040
1324	0.016	2615	0.107
1327	0.122	2310	0.056
1351	0.062	2478	0.026
1352	0.052	2564	0.080
		कुल योग.	3.209
1328	0.021	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।	
248	0.012	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 110-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—टनमन
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.170 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
177	0.015
175	0.035
174	0.034
173	0.083
171	0.003
कुल योग.	0.170

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 111-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना

#### (ग) नगर/ग्राम—रहना

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.536 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)	(2)	(हे. में)
134/1	0.128	
134/2	0.022	
250	0.064	
135	0.016	
136	0.017	
138	0.032	
140/2	0.016	
246	0.070	
247	0.030	
239	0.030	
233	0.026	
224	0.026	
221	0.027	
218	0.024	
219	0.008	
कुल योग.	0.536	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 अप्रैल 2018

प. क्र. 117-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—हनुमना

- (ग) नगर/ग्राम—चौहना नं. 4  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.016 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1 एवं 5/2	0.016
कुल योग. .	<u>0.016</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 118-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—चौहना नं. 2  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.012 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7/3, 7/4/1, 7/4/2	0.212
कुल योग. .	<u>0.212</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 119-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—बकिहा नं. 654  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.344 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1,2/2,2/3	0.324
22	0.020
कुल योग. .	<u>0.349</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 120-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—चौहना नं. 3  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.016 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/1 एवं 4/2	0.016
कुल योग. .	<u>0.016</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 अप्रैल 2018

पत्र क्र. 132-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—नरसिंहपुर नं. 521
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—8.592 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकमा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(2)
22/1, 22/2	0.173	623
30/1, 30/2	0.020	62411/ख
29/1, 29/2, 29/3	0.140	62411/ख/1
26/1, 1, 26/2	0.075	62411/ख/2
4/1/5, 4/2/1, 4/3/1, 4/3/2,		624/2
4/1/7, 4/2/4, 4/3/4, 4/3/5,	0.415	622/1/क, 622/1/ख/1/1
4/1/8, 4/2/5, 4/3/6, 4/3/7,		622/1/ख/1/2, 622/1/ख/2
4/3/ ग, 4/1/9.		622/1/ख/3, 622/1/ख/4
10/1, 10/2, 10/3, 10/4,		622/2, 622/3
10/5, 10/6, 10/7.	0.186	625/1
99/1	2.598	625/2/क
99/2	2.577	625/2/ख
101/1, 101/2	2.488	625/2/ग
113/1/क, 113/1/ख, 113/1/ग,	0.670	0.040
113/1/घ, 113/1/ड, 113/1/च,		625/2/घ
113/2, 113/3.		625/2/ड
योग. .	8.592	621/1/1/क
		621/1/1/ख/1/1
		621/1/1/ख/1/2
		621/1/1/ख/2
		0.095
		621/1/1/ख/3
		621/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री एवं कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.		

(1)	(2)	
619/1/क		क्र. 138-भू-अर्जन-कार्य-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
619/1ख		अनुसूची
619/4	0.218	
619/2		
619/3/1		
619/3/2		
642/1		(1) भूमि का वर्णन—
642/2	0.210	(क) जिला—रीवा
642/3		(ख) तहसील—हनुमना
642/4		(ग) नगर/ग्राम—खेरा नं. 1
645	0.265	(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.496 हेक्टर।
147	0.010	खसरा क्रमांक अर्जित रकमा
159/1		« (हे. में) (1) (2)
159/2/क	0.135	62 0.051
159/2/ख		63 0.031
159/2/ग		86 0.005
615/1/क		87 0.033
615/1/ख		98 0.038
615/1/ग		307 0.020
615/1/घ	0.337	141 0.012
615/1/ड		191 0.030
615/2		136 0.013
615/3		137 0.018
165/1		123/1, 123/2 0.004
165/2/1/1		124 0.006
165/2/1/2		193/1, 192/2, 193/3 0.094
165/2/1/3	0.101	194/1, 194/2 0.012
165/2/2		312 0.020
164/1		314/1 0.015
164/2	0.091	446 0.012
164/3		447 0.018
		448 0.010
		449 0.034
		450 0.020
	योग. . 1.739	योग. . 0.496

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 139-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—खैरा नं. 3
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.592 हेक्टर.

#### खसरा क्रमांक

#### अर्जित रकम

(1)	(हे. में)	(2)
59		0.010
62		0.038
102		0.010
64		0.018
58		0.014
65		0.006
63		0.014
218/2		0.012
223		0.062
91		0.040
92/1, 92/2, 92/3, 92/4		0.084
93		0.108
96/1, 96/2		0.036
202		0.053
97		0.024
201		0.048
202		0.053
218/1		0.089
304		0.020
303		0.038
309		0.080
440/1, 440/2		0.052
442		0.021
441		0.054
435/1, 435/2, 435/3		0.190
412		0.052
313/1/क, 313/1/ख		
313/1/ग, 313/1/घ/1,		0.056
313/1/घ/2, 313/1/ड, 313/2		

(1)	(2)
432/1, 432/2	0.022
433	0.032
434	0.010
209/1	0.024
225	0.010
272/1, 272/2, 272/3	0.082
294/1, 294/2	0.037
295	0.018
296	0.051
719/1, 719/2, 719/3, 719/4	0.008
कुल योग.	1.592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री एवं क्लेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 140-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) नगर/ग्राम—चौहना नं. 1
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.615 हेक्टर.

#### खसरा क्रमांक

#### अर्जित रकम

(हे. में)

(1)	(2)
95	0.028
93	0.018
74	0.080
75	0.122
73	0.029
72/1, 72/2	0.013
71	0.098
26	0.020
27/1, 27/2	0.007
28	0.009
29/1, 29/2	0.101
62	0.086
63	0.004

(1)	(2)
213	0.178
60	0.006
64	0.072
58/1, 58/2, 58/3	0.010
210/1, 210/2,	0.030
251/1	0.035
251/2/क/1	0.059
251/2/ग	0.025
249/1	0.105
222	0.007
226	0.059
232/1	0.010
391	0.055
211/2	0.028
212/2	0.024
274/2	0.050
214/1	0.004
214/2	0.022
250/2	0.118
250/2	0.022
योग.	1.615

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री एवं कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 1-अ-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20	0.030
21	0.070
22/1, 22/2	0.120
25/1	0.150
25/2	0.030
38	0.010
योग.	0.410

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत् दोआब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 45-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—सांखनी  
(घ) क्षेत्रफल—0.056 हेक्टर।

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1977	0.021
2159	0.013
2163	0.022
योग.	0.056

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत् दोआब नहर की सांखनी मायनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।